

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 4, 2013/फाल्पुन 13, 1934

No. 65]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 4, 2013/PHALGUNA 13, 1934

तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2013

सं. 2/5/2011-ई.पी. (कृषि-VI).—तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 33 की उप-धारा (1) एवं (2) के साथ पठित धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और 19 सितम्बर, 2002 को भारत के राजपत्र भाग III खण्ड 4 में 8/4/98-ई.पी. (कृषि-VI) एदद्द्वारा प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (भर्ती) विनियम, 2002 को निरस्त करते हुए, उनके अतिरिक्त, जिनका परिवर्धन अथवा विलोपन उपरोक्त से पूर्व किया जाना हो, तम्बाकू बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम, जिसका केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है, बनाता है :—

- (1) **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(क) इन विनियमों को तम्बाकू बोर्ड (भर्ती) विनियम, 2013 कहा जाएगा। (ख) उपरोक्त विनिमय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- (2) **परिभाषाएं.**—इन विनियमों में, जब तक अन्यथा परिभाषित नहीं किया जाए, निम्नलिखित साधारण रूप में व्यवहत किए जाएंगे।
 - (क) ''बोर्ड'' तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 के 'तहत गठित तम्बाकू बोर्ड
 - (ख) बोर्ड कर्मचारी,—तम्बाकू अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उप-धारा (4) के तहत नियुक्त अध्यक्ष, धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत नियुक्त कार्यकारी निदेशक, धारा 6 की उप-धारा (2) के तहत नियुक्त सिचव और बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों के अतिरिक्त बोर्ड में कार्यरत अन्य सभी व्यक्ति ।
 - (ग) वेतन,—केन्द्र सरकार के मूलभूत नियम और अनुपूरक नियमों में परिभाषित वेतन/परिलब्धियां।
 - (घ) पदों का वर्गीकरण.—
 - (अ) वरिष्ठ प्रबंधन स्तर.—वे सभी पद, जो अधिकतम रु. 39,100 के पे. बैण्ड अथवा अधिक में आते हों।
 - (ब) माध्यिमक प्रबंधन स्तर.—वे सभी पद, जिनका पे बैण्ड अधिकतम रु. 34,800 हो किन्तु अधिकतम पे. बैण्ड
 39,099 रु. से कम हो ।

904

(ड.) नियुक्ति प्राधिकारी:- बोर्ड के कर्मचारियों के संदर्भ में नियुक्ति हेतु अधिकार प्राप्त नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति की शक्तियों का विवरण इस प्रकार है:-

अध्यक्ष:- विष्ठ प्रबंधन स्तर के तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों के वे अधिकारी जिनका पे.बैण्ड का अधिक्तम रूठ 39,100 प्रतिमाह से अधिक न हो, और बोर्ड के अनुमोदन एवं केन्द्र सरकार से पूर्व परामर्श के साथ वे तकनीकी एवं गैर कतनीकी पद जिनका पे.बैण्ड को अधिकतम रूठ 39,100 प्रतिमाह से अधिक हो एवं माध्यमिक प्रबंधन स्तर के पदः

कार्यकारी निदेशकः-कनिष्ठ प्रबंधन स्तर के पद, अध्यक्ष की प्राधकारिक शक्तियों के अनुरूप ।

- (च) अनुसूची:- इन विनियमों की अनुसूची ।
- (छ) सेवा:- बोर्ड में की गई सेवा।
- (ज) सीधी भर्ती:- रोजगार कार्यालय से अभ्यर्थियों के नाम मांगकर अथवा विज्ञापन द्वारा प्रार्थना पत्र मांग कर अथवा बोर्ड के उपयुक्त योग्य कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र पर विचार कर की गई भर्ती ।

अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड की दृष्टि में यदि आवश्यक हो तो सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकती है। इस परीक्षा के माध्यम से भर्ती बोर्ड कर्मचारी भर्ती के लिए सीधी भर्ती द्वारा भर्ती किए गए मान जाएंगे और केन्द्र सरकार द्वारा पिछली सेवा के लिए बनाए गए नियमों के अंतर्गत व्यह्त किए जाएंगे।

- (झ) प्रतिनियुक्तः- केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अथवा स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवाओं को उधार लेना ।
- (ट) सरकारः केन्द्र सरकार
- (3) अनुप्रयोगः- ये विनियम अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक, सचिव और केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य पद के अतिरिक्त विनियमों में उल्लिखित अन्य सभी पदों के लिए अनुप्रयुक्त होंगे ।
- (4) प्रारम्भिक विधान:- इन विनियमों के प्रारम्भ की तारीख को इन विनियमों की अनुसूची में विनिधारित पदों को नियमित आधार पर ग्रहण करने वाले सभी व्यक्ति इन विनियमों के अंतर्गत अनयुक्त माने जाएंगे और उनके द्वारा की गई अब तक की लगातार सेवा उसी ग्रेड में विष्ठता के उद्धेश्य के लिए गिनी जाएगी।
- (5) अनहर्ताए:- कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्ति हेतु अनर्ह होगा,यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसका पति अथवा पत्नी पहले से जीवित हो

 $\Theta_{h,q}$

(ख) जो जीवित पति अथवा पत्नी के होते किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर चुका हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो

यदि सरकार इस तथ्य से सन्तुष्ट है कि उस व्यक्ति एवं अन्य पक्ष पर लागू होने वाले निजी कानून में ऐसा विवाह को अनुमति प्रदान की गई है और कि ऐसा करने के अन्य आधार है,तो ऐसे व्यक्ति का इस नियम के लागू हो से छूट प्रदान की जा सकती है।

- (6) बोर्ड के किसी भी ग्रेड के कर्मचारी की वरिष्ठता का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाएगा ।
- (7) यदि विभागीय समिति द्वारा प्रोन्नित के लिए किसी किनष्ठ, जिसने पदोन्निती के लिए निर्धारित पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के नाम पर विचार किसा जा रहा है, वहां, उस ग्रेड में उससे वरिष्ठ सभी अधिकारियों भले ही उन्होंने अपेक्षित सेवा पूरी नहीं की हो, के नाम पर भी विचार किया जाएगा बशर्तें कि उन्होंने ग्रेड में निर्धारित परिवीक्षा, यदि कोई हो, को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लिया हो और सतर्कता के दृष्टिकोण से किसी भी आरोप से मुक्त हों।
- (8) परिवीक्षा की अवधिः सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रोन्नित द्वारा किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति अनुसूची में दी गई अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा ।
- (9) परिवीक्षा की अवधि का पूरा होना अथवा सेवा समाप्ति
- (क) कार्य अथवा आचरण के पद के अनुरूप संतोषजनक न जाए पाने पर नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षाधीन कर्मी की परिवीक्षा की अविध बढ़ा सकता है। उन पदों के अतिरिक्त जिन पर भर्ती केन्द्र सरकार के पूर्व परामर्श द्वारा की गइ हो, नियुक्ति प्राधिकारी किसी परिवीक्षाधीन कर्मी के कार्य अथवा आचरण को पद के अनुरूप संतोषजनक न पाए जाने पर परिवीक्षा अविध की बढ़ी हुई अविध के पश्चात् भी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मी की सेवाएं समाप्त कर सकता है अथवा बोर्ड के कर्मचारी के पुनः उसके पूर्व पद पर प्रत्यावर्तित कर सकता है।
- (ख) उन पदों के अतिरिक्त, जिन के लिए भर्ती हेतु केन्द्र सरकार से पूर्व परामर्श किया गया हो अन्य सीधी भर्ती द्वारा भर्ती किए गए व्यक्ति का आचरण एवं कार्य यदि परिवीक्षा अविध के दौरान अथवा परिवीक्षा अविध की बढ़ी हुई अविध के दौरान पद के अनुरूप संतोषजनक पाया गया हो तो नियुक्ति प्राधिकारी उपरोक्त अविध के समापन के पश्चात यथाशीघ्र घोषित करेगा कि उस व्यक्ति ने अपनी परिवाक्षी संतोषजनक रूप से पूरी कर लह है और उसे पद पर स्थायी करेगा।
- (10) स्वास्थ्य का प्रमाणपत्रः सेवा में भर्ती के समय वरिष्ठ प्रंबंधन स्तर और माध्यमिक प्रंबंधन स्तर के पदों पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को सिविल सर्जन पद के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिया गया स्वास्थ्य प्रमाणपत्र तथा किनष्ठ प्रबंधन स्तर के पद पर नियुक्त व्यक्ति को सहायक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया गया स्वास्थ्य प्रमाणप्रत्र देना होगा ।

- (11) <u>पेंशन लाभः</u> बोर्ड के कर्मचारी केन्द्र सरकार के समय-समय पर संशोधित नियमों के अंतर्गत पेंशन एवं सेवानिवृत्ति के लाभों के अधिकारी होंगे ।
- (12) निश्चित वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण,छूट आदिः इन विनियमों का कोई भी भाग अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों, उनन्य पिछड़ वर्ग एवं अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अंतर्गत अनुमन्य आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को विपरीत रूप से प्रमाणित नहीं करेगा।
- (13) विभागीय पदोन्नित समिति का गठनः अध्यक्ष विभिन्न वर्गों के बोर्ड कर्मचारियों की प्रोन्नित हेतु अनुसूचियों अथवा समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप विभागीय पदोन्नित समिति का गठन करेगा।
- (14) अन्य सेवा शर्ते उन विषयों पर, जिन पर इन विनियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, बोर्ड किमयों के सेवा शर्ते उसी वर्ग के केन्द्र सरकार के किमयों के समान होंगी । अद्यपि, बोर्ड में भर्ती की अधिकतम आयु सीमा अनुसूची में इंगित आयु होगी । न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी । बोर्ड के कर्मचारियों के आचरण एवं अनुशासनिक संबंधी मामले केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और केन्द्रीय सिविल सेवा(वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1965 के अंतर्गत लागू होंगे ।
- (15) <u>पदों का सृजनः</u> बोर्ड का अध्यक्ष अथवा बोर्ड तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 6 की उपधारा 4 के साथ पिठत तम्बाकू बोर्ड (सामान्य)नियम 1984 के विनियम 15 एवं केन्द्र सरकार की वित्तीय शिक्तयों के प्रत्यायोजन के नियमों के अनुसार पदों के सृजन हेतु सक्षम है ।
- (16) सामान्यः बोर्ड के कर्मचारी सेवा शर्ती एवं अन्य शर्ती के लिए तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के उपबंधों, उनके अंतर्गत निर्मित नियमों एवं विनियमों और बोर्ड अथवा केन्द्र सरकार द्वारा लागू अन्य शर्ती के अधीन होंगे।
- (17) शिथिल करने की शक्तिः जहां अध्यक्ष की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है वहां वह, उसके लिए कारणों को लेख बद्ध कर के और केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के लिए इन विनियमों के प्रावधानों/किसी एक प्रावधान में छूट प्रदान कर सकता है

ı

तम्बाक् बोर्ड, गुण्टूर तम्बाक् बोर्ड (भर्ती) विनियम, 2013

अनुसूची

	अनुसूची					
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे.बैण्ड और	चूनाव पर		
			ग्रेड पेय	अथवा गैर		
			सवेल	चुनाव पर		
1	2	3	4	5		
क्षेत्रीय प्रबंधक	8	वरिष्ठ स्तर प्रबंधन तकनीकी	पे.बैण्ड 3	चयन		
			15,600-			
			34,150 ग्रेड	ŗ		
			पेय 6600/-			
सेवा से जुड़े वर्षों का ला	1	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती			
सी सी स (पेंशन), नियम	1		के लिए			
1972 के नियम 32 के			अपेक्षित	i		
अधीन स्वीकार्य है अथवा नर्ह			शैक्षिक			
			तथा अन्य			
			अर्हताए			
1		,	सीधी भर्ती	परिवीक्षा की		
			में लागू आयु	ľ		
			एवं शैक्षिक			
			अर्हताएं			
			पदोन्नति में			
,			लागू होगी			
,			अथवा नही			
6	7	8	+	10		
लागू नहीं	40 वर्ष से अधिक नही ।	(क)कृषि में स्नातकोत्तर उपाधि	<u> </u>	दो वर्ष		
		(ख)तम्बाकू उत्पादन, प्रसार, विणन				
		एवं बाजार शोध, तम्बाकू नीलामी				
		का क्रियांवन में 5 वर्ष का		į		
·		अनुभव, जिसमें से '3 वर्ष का				
		अनुभव न्यूनतम पर्यवेक्षक के रूप				
		में होना चाहिए ।				
	,					
			शैक्षिक			
V _{ic}			अर्हता नहीं			
114			erestri içi			

भर्ती की पद्धति/सीधी भर्ती या	प्रोन्नति/प्रतिनयुक्ति द्वारा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है	वे	
प्रतिनियुक्ति/स्थान्तरण द्वारा		i ·	परिस्थितिया	
विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी			जिनमें भती	
जाने वाली रिक्तियों की			करने के	ł I
प्रतिशत्ता	किया जाएगा ।		लिए संघ	1
•			लोक सेवा	i
	,		आयोग से	l i
			परामर्श	
			किया जाना	
			₹ 	ļ
11	12	13	14	,
पदोन्नीत द्वारा जिसकेन हो			लागू नहीं	
	· ·-	 ठाञ्चर अञ्चर २. कार्यकारी निदेशक-सदस्य 	CIT TO	
,		3. निदेशक स्तर के 2 अधिकारी		
सीघी भर्ती द्वारा		वाह्य जिनमें ¹ से 1 अधिकारी		
THE TAIL BIT	,	अनुसूचित जनजाति का हो-सदस्य		
	निर्घारण नीलामी			
	अधीक्षक और वरिष्ठ			
	ग्रेडिंग अधकारी के रूप			
	में कुल की गई सेवा के			
	योग से किया जाएगा ।			
	याग साक्या जाएगा । 2. प्रतिनियुक्तिः			
	. ————————————————————————————————————			
	केन्द्र/राज्य सरकार			
,	अथवा केन्द्रीय/राज्य के			
	स्वायत्य निकाय,			
	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	i		
·-	में सहश्य पद पर कार्यस्त			
	ग्रेड पे. में न्यूनतम 5 वर्ष	•		
	तक सेवारत रहे कर्मियों			
	से, जो कालम 8 में	ø		
	सीधी भर्ती के अभ्यर्थी			
	हेतुं विनिर्धारित शैक्षिक			
	अर्हता एवं अनुभव रखता			
	討	•		
	(प्रतिनियुक्ति की अवधी			
	साधारणतः उवर्ष से			
	अधिक नहीं होगी)			
1 %,	2	3	4	5
2.प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	1	वरिष्ठ प्रबंधन स्तर, गैर तकनीक	चयन पे.बैंड	चयन लागू

		T T	T	
			3	
			₹.15,600-	
		<u>,.</u>	39,100	
,		*	ग्रे.पे. 6600	
6	7	8	9	10
लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
		13	14	
प्रोन्नति,जिसके न हो सकने	प्रोन्नतिः उप प्रबंधक	1. अध्यक्ष-अध्यक्ष	लागू नहीं	
पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	(लेखा)/सहायक प्रबंधक	2. कार्यकारी निदेशक-सदस्य		·
	लेखा या उसके सदस्य	3. निदेशक स्तर के 2 वाह्य		
	पर में न्यूनतम 5 वर्ष की	अधिकारी जिनमें से 1 अधिकारी		.*
	सेवा/प्रोन्नति हेतु	अनुसूचित जाति/अनुसूचित		
	वरिष्ठता का निर्धारण उप			
	प्रबंधक (लेखा)/सहायक			
	प्रबंध(लेखा)के रूप में की			
	गई कुल सेवा के योग		ĺ	
	के आधार पर किया			
	जाएगा।			.
	प्रतिनियुक्तः भारतीय			
	लेखा परीक्षा और लेखा		ĺ	. [
	विभाग के सहश्य के			
	लेखा परीक्षा		i	
	अधिकारियों/लेखा			Ì
. ,	अधिकारियों उपक्रम			ŀ
i	अथवा केन्द्र/राज्य के		·	}
	स्वायत्तशासी निकाय में			
	समकक्ष पद में कार्यास्त		.	
· · ·	लेखा परीक्षा			
1	अधिकारयों/लेखा			
l I	अधिकारियों में से अथवा			
	15600-39,100 पे.बैंड	P		
1	में 5400 में 7 वर्ष की			
1	सतत् सेवा करने वाले			.]
1 *	लेखा परीक्षा			1
1 5	अधिकारियों/लेखा			
l l	अधिकारियों में से,			
1	(प्रतिनियुक्ति की अवधि		1	ļ
1	साधारणतः ३ वर्ष से			
1	अधिक नहीं होगी ()		ļ	Į
	אוויוס וטוי יציוויע		L	

1	2	3	4	5
1				
3. प्रबन्धक	1	वरिष्ठ स्तर, गैर-तकनीक		लागू नही
(व्यापार)			15,600-	:
			39,100	
			ग्रेड पेय	
			6600	
6	7	8		10
लागू नहीं	1	अनिवार्यः(1)वाणिज्य अथवा कृषि	नहीं	दो वर्ष
	नहीं	अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपधि		
,		(2) तम्बाकू के घरेलू एवं		
		अन्तरीष्ट्रीय व्यापार में 5 वर्ष का		
		अनुभव जिसमें से न्यूनतम 3 वर्ष		, l
		पयवेक्षक/निरीक्षक स्तर पर कार्य		-
		किया हो		
11	12	13	14	
सीघी भर्ती द्वारा	लागू नही	1. अध्यक्ष-अध्यक्ष'	लागू नही	
		2. कार्यकारी निदेशक-सदस्य	u	
		3. निदेशक स्तर के 2 वाहर		
		अधिकारी जिनमें से 1 अधिकारी		
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति		
		का हो सदस्य		
1	2		4	5
4. नीलामी अधीक्षक/सीनियर	55	वरिष्ठ प्रबन्धन स्तर, तकनीक	पे.बैंड 3	चयन
ग्रेडिंग अधिकारी		·	15,600-	ļ
,			39,100 ग्रेड	
			पे.5400	
6	7	8		10
लागू नहीं	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
11	12	13	14	
पदोन्नति द्वारा,जिसके न हो	पदोन्नति उन फील्ड	1.अध्यक्ष-अध्यक्ष	लागू नहीं	
सकने पर न्रतिनियुक्ति द्वारा		2.कार्यकारी निदेशक-सदस्य		
	सहायक,जिन्होंने न्यूनत			
	,	4.अनुसूचित जाति/जनजाति का एव		
	ग्रेड की हो, में से			
	प्रतिनियुक्तिः केन्द्र/राज्य			
	सराकरर, केन्द्रीय अथवा			
	राज्य के स्वायत्त निकाय,			
	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम			
	तानका कि क्षेत्र वस्त्र		1	L

					
	के उन अधिकारियों र	À			
	(i) जो सहश्य प	₹			
	नियमित रूप से धारि	1			
	करते है अथवा				
	(ii)न्यूनतम 8 वर्षों रे				
	9300-4800 पे बे.मे	1			
	4200 ग्रेड पे.में कार्यरत				
	हो	1			
	(2)तम्बाक् के				
	उत्पादन/ प्रसार/ विपणन				
	और विवणन शोध और				
	तम्बाक् नीलामी				
	संचालित करने का		,		
	अनुभव रखते हों ।	1			
	(प्रतिनियुक्ति की अवधि				
	सामान्यवः 3 वर्ष की				
	होगी ()	_			
1	2	3	4	ļ	5
5.उप प्रबन्धक (लेखा)	1	वरिष्ठ प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक	पे.बैंड	चयन	
			15,600-		
			39,100 ग्रे	3	
	V 1	-	पे.5400		
6	7	8	9	L	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	╛
11 ,	12	13	14		
पदोन्नीत द्वारा जिसके न है		1.अध्यक्ष-अध्यक्ष	लागू नही		
सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	i				
1	समकक्ष पद पर 4200				
	ग्रेड पे. पर 8 वर्ष की	4.अनुसूचित जाति/जनजाति का			
•	सतत् एवं नियमित सेवा	वाह्य अधिकारी-सदस्य			
	करने वालों कर्मियों से				
	प्रतिनियक्तिः भारतीय				
	लेखा परीक्षा एवं लेखा			,	
	सेवा के लेखा				
	परीक्षकों/लेखा				
l i	अधिकारियों से				
·	अथवा			٠	
	लेखा/लेखा परीक्षा				
	अधिकारी जो केन्द्र/राज्य				
·					_

	सरकार/सार्वजनिक			
	निकायों में सद्धश्य ग्रेड			
	पे.आहरित कर रहे हो,से			
	(प्रतिनियुक्ति की अवधि			
	सामान्यतः ३ वर्ष से			
	अधिक नहीं होगी)			
1	2	3	4	5
6 सहायक प्रबन्धक (लेखा)	33	वरिष्ठ प्रबन्धन स्तर, गैर-तकनीक	पे.बैंड:3	चयन
			15,600-	
			39,100 ग्रेड	
			5400	
6	7	8	9	10
लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
11	12	13	14	
पदोन्नीत द्वारा जिसके न हो		१.अध्यक्ष-अध्यक्ष	लागू नही	
सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	अधीक्षक/लेखाकार	2.कार्यकारी निदेशक- सदस्य		
	अथवा सद्धश्य पद पर			
		4.अनुसूचित जाति/जनजाति का		
	,	एक एक वाह्य अधिकारी-सदस्य		•
	नियमित सेवा करने वाले			
	अधिकारियों से			
	प्रतिनियुक्तिः केन्द्र/राज्य			
	सरकार, केन्द्र/राज्य			
	सार्वजनिक उपक्रम एवं			
	स्वायत्त निकायों के उन		i	`
	अधिकारियों से			
	1(क) जो सद्वश्य पद			
	नियमित रूप से धारित			
	करते हो			
	अथवा			
	(ख)4200 ग्रेड पे.व		;	
	पे.बैंड-2 में 8 वर्ष की			
	नियमित एक सतत् सेवा			
	की हो			į
	2.प्रशासन स्थापना एवं			
:	लेखा मामलों की			
	जानकारी हो ।			
	(प्रतिनियुक्ति की अवधि			

	3 वर्ष से अधिक नही			
	होगी ()			·
1	2	3	4	5
7.सांख्यिकी अधिकारी	1	वरिष्ठ प्रबन्धन स्तर, तकनीक	पे.बैंड 3	चयन
			15,600-	
			39,100 ग्रेड	
			पे. 5400	
6	7	8	9	10
लागू नही	तीस वर्ष से अधिक नही	अनिवार्यः सांख्यिकी अथवा गणित	आय नही	दो वर्ष
,		अथवा वाणिज्यिक अर्थशास्त्र में पर	•	
		स्नातक उपाधि		
		वांछनीयः आंकडा संग्रहण व		
·		विश्लेण में ३ वर्ष का अनुभव		
		भारतीय सांख्यिकी संस्थान अथवा		
		भारतीय कृषि सांख्यिकी की शोध		
		संस्थान का डिप्लोमा धारित		
11	12	13	14	
पदोन्नीत द्वारा जिसके न हो			लागू नही	
सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	_	2.कार्यकारी निदेशक- सदस्य		·
	नियमित आधार पर	3.सचिव-सदस्य		
		4.अनुसूचित जाति/जनजाति का		
	हों	एक एक वाह्य अधिकारी-सदस्य		
1	2	3	4	5 /
अध्यक्ष की निजी सचिव	1	मध्य प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक	पे.बैंड-2	चयन
			93,00 -	
			34,800	
			ग्रेड पे.4600	
6	7	8	9	10
लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
11	12	13	14	,
पदोन्नीत द्वारा	पदोन्नीतः तीन वर्ष की	1.अध्यक्ष-अध्यक्ष	लागू नही	ı
	नियमित सेवा करे हुए	2.कार्यकारी निदेशक- सदस्य		
	आशुलिपिक (ग्रेड-	3.सचिव-सदस्य		į
	1)अधिकारियों में से	4.अनुसूचित जाति/जनजाति का		
		एक एक वाह्य अधिकारी-सदस्य		·

1	2	3	4	5
9. क्षेत्र अधिकारी/तकनीक	88	मध्य प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक	पे.बैंड २	गैर चयन
सहायक			93,00	
			34,800	
			पे.4200	
6	7	8	9	10
लागू नही	तीस वर्ष से अधिक निह	अनिवार्यः कृषि विज्ञान में स्नातक र	आयः नही	सीधी भर्ती
		वांछनीयः तम्बाकू रोपण व संस्तर	र शैक्षणिक	से चयनित
		जानकारी	योग्यता	कर्मियों हेतु
			नही	2 वर्ष
11	12	13	14	2 44
पदोन्नीत एवं सीधी भर्ती 1	पदोन्नीतः दस वर्ष की	1 अस्माय-अस्माय	लागू नहीं	
1 के अनुपात में		2.कार्यकारी निदेशक- सदस्य	(सम् यहा	!
	सहायकों से	3.सचिव-सदस्य		
,		4.अनुसूचित जाति/जनजाति का		
		एक एक वाह्य अधिकारी-सदस्य		
1	2	3	4	5
		3	4	5
10. अधीक्षक/लेखाकार	33	मध्य प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक	पे.बैंड-2	चयन
			93,00-	
			34,800	
			ग्रेड	
			पे.4200	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नही	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालश् से स्ता	नहीं	दो वर्ष
		अपाधि		
11	12	13	14	
पदोन्नीत व सीधी भर्ती		1.अध्यक्ष-अध्यक्ष	लागू नहीं	
पदोन्नीत व सीधी भर्ती में	(क) 90% तीन वर्ष	2.कार्यकारी निदेशक- सदस्य	4	
नियुक्त का अनुपात 2 1	की नियमित सेवा वाले	3.सचिव-सदस्य	Ì	
\		4.अनुसूचित जाति/जनजाति का	ļ	
		एक एक वाह्य अधिकारी-सदस्य	ĺ	İ
	सहायक जिनकी		.	
	सहायक एवं उच्च श्रेणी		ĺ	
	लिपिक के रूप में			
	सम्मलित सेवा न्यूनतम			
	<u> </u>			

				·
	10 वर्ष की हो ।			
	(ख)10% तीन वर्ष की			
	नियमित सेवा वाले			
	अशुलिपिक ग्रेड (ii),			
	जिनके उपलब्ध न होने	1		
	पर ऐसे आशुलिपिक		,	
	ग्रेड(iii)जिनकी		-	
	आशुलिपिक ग्रेड iii		· ·	
	एवं आशुलिपिक ग्रेड		<u> </u> -	
	ii के रूप में सम्मिलित			
	सेवा न्यूनतम 10 वर्ष	,		
	की हो ।			
1	2	3	4	5
11. वरिष्ठ अन्वेषक	1	मध्य प्रबन्धन स्तर तकनीक	पे.बैंड - 2	चयन
5		i i	93,00-	
			34,800	
			ग्रेड	
			पे.4200	
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	12	13	14	
पदोन्नीत द्वारा जिसने न हो	पदोन्नीतः ग्रेड में ३ वर्ष	1.अध्यक्ष-अध्यक्ष	लागू नही	
सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा		2.कार्यकारी निदेशक- सदस्य	•	
	वाले सांख्यिकी सहायकों		:	
	में से	4.अनुसूचित जाति/जनजाति का		
	1 -	एक एक वाह्य अधिकारी-सदस्य		
	तक सदृश्य पद धारित			
	करने वाले अधिकारियों			
	से	<i>P</i>		
1	2	3	4	5
12.वरिष्ठ अनुवादक	1	मध्य प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक	पे.बैंड-2	लागू नही
•			93,00-	
			34,800	
			पे.4200	
6	7	8	9	10

			T	
लागू नहीं	३० वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्यः 1 (क) किसी मान्यता प्राप्त	•	
		विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर		
		उपाधि प्राप्त की हो हिन्दी/अंग्रेजी		
		में	:	
		अथवा		
		तथा अंग्रेजी/हिन्दी स्नातक स्तर		
	·	पर अनिवार्य/ऐच्छिक विषय के रूप		
		में रहा हो		
		(ख)हिन्दी/अंग्रेजी से इतर किसी		
		विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त		
		की हो तथा स्नातक स्तर पर		
		अंग्रेजी/हिन्दी में से कोई एक		
		विषय के रूप में एवं इसरा परीक्षा		
		के माध्यम के रूप में रहा हो		
5		(ग) हिन्दी/अंग्रेजी से 'इतर अथवा		
		किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि		
		प्राप्त की हो तथा स्नातक स्तर पर		
·		हिन्दी/अंग्रेजी से कोई एक विषय		
	:	के रूप में और इसरा परीक्षा		
		माध्यम के रूप में रहा हो		
		और		
		2. हन्दी से अंग्रेजी व अंग्रेजी से	1	
		हिन्दी अनुवाद में कोई मान्यता		
, 1		प्राप्त प्रमाण पत्र/डिप्लोमा		
		वांछनीयः अंग्रेजी से हिन्दी व हिन्दी		
		व हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद		
		करने की योग्यता		
11	12	13	14	
सीधी मर्ती	लागू नही	१.अध्यक्ष-अध्यक्ष	लागू नही	
	,	2.कार्यकारी निदेशक- सदस्य	ο -	
		3. सचिव-सदस्य		
		4.अनुसूचित जाति/जनजाति का		
		एक एक वाह्य अधिकारी-सदस्य		
1	2	3	4	5
13 . सांख्यिकी सहायक	1	मध्य प्रबन्धन स्तर तकनीक	पे.बैंड-2	लागू नही
			93,00-	"
`i ,		,	34,800	
l			2 1,000	

	1			
			पे.4200	
6	7	8	9	10
लागू नही	तीस वर्ष से अधिक नही	अनिवार्यः	नही	सीधी भर्त
		(क)सांख्यिकी में स्नातक उपाधि	1	वालों हेतु 2
		अथवा गणित/अर्थशास्त्र/वाणिज्य मे		वर्ष
,		पर्चे/विषय में रूप में स्नातकोत्त	e	
		उपाधि	\$	ŀ
		(ख) सांख्यिकीय आंकड़ो के	1	
		विश्लेषण में ३ वर्ष का अनुमव		
		वाछनीयः भारतीय सांख्यिकीय]
:		संस्थान अथव भारतीय कृषि		
•		सांख्यिकी शोघ संस्थान से डिप्लोमा		
11	12	13	14	
प्रोन्नीत द्वारा,जिसके न हो	पदोन्नीतः दस वर्ष की	1.अध्यक्ष-अध्यक्ष	लागू नही	
सकने पर प्रनियुक्ति द्वारा	नियमित सेवा वाले ऐसे	2.कार्यकारी निदेशक- सदस्य	a -	
जिसके न हो सकने पर				
सीघी भर्ती द्वारा		4.अनुसूचित जाति/जनजाति का एव		
	में स्नातक उपाधि खते	एक वाह्य अधिकारी-सदस्य		
	हो			
	प्रतिनियुक्ति द्वाराः			1
	केन्द्र/राज्य सरकार के			
	ऐसे कर्मचारी जा सदृश्य			
	पद पर हो और ३ वर्ष			
	का अनुभव रखते हो			
	प्रतिनियुक्ति की अवधि			
	सामान्यतः ३ वर्ष की			
	होगी ।			
1	2	3	4	5
14 . सहायक	13	मध्य प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक	पे.बैंड २	गैर-चयन
		·	93,00-	
			34,800	
			पे.4200	
6	7		9	10
लागू नही	30 वर्ष से अधिक नहीं	(1)विश्वविद्यालय से स्नातक	आयुः नही	दो वर्ष
~	-		शैक्षिक	
10 A 1 A		(२)प्रशासन, लेखा क्षेत्र में ३ वर्ष का		

			अनुभव	नही	
.	11	12	13	14	
	पदोन्नीत द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भती द्वारा	पदोन्नीतः दस वर्ष की नियमित सेवा वले उच्च श्रेणी लिपिकों में से	१.कार्यकारी निदेशक२ अनुसूचित जाति/ जनजातिका एक वाह्य अधिकारी सदस्य	लागू नही	
	1	2	3	4	5
	15 आशुलिपिक (ग्रेड- II)	3	मध्य स्तर प्रबन्धन गैर तकनीक	पे.बैंड २ 93,00- 34,800 पे.4200	गैर चयन
	6	7	8	9	10
	लागू नही	तीस वर्ष से अधिक नही	(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक उपाधि (2) तकनीक शिक्षा बोर्ड से अंग्रेजी टाइपिंग की परीक्षा ४० शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी आशुलिपिक परीक्षा १२० शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो	शैक्षणिक योग्यता नही	2 वर्ष
	11	12	13	14	
	पर सीधी भर्ती	III)के उन कर्मिशें द्वारा जो उपरोक्त ग्रेंड में न्यूनतम १० वर्ष की सेवा कर चुके हो तथा प्रविणता परीक्षा अंग्रेजी टाईप की परीक्षा 40 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी आशुलिपिक परीक्षा १२० शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण कर ले	(3) अनुसूचित जाति/जनजाति वाह्य अधिकारी-सदस्य	लागू नही	
	1	2	3	4	5
	12 . वरिष्ठ अनुवादक		मध्य स्तर प्रबन्धन गैर तकनीक	पे.बैंड-2 93,00- 34,800	लागू नही

-					ग्रेड	
6					पे.4200	
		7		8	9	10
लागू नही		30 वर्ष	से अधिव	जनिवार्यः	लागू नही	दो वर्ष
		नहीं		(1)(क)हिन्दी/अंग्रेजी में कि		
				मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय		1
				स्नातकोत्तर उपाधि जबकि स्नात		
				स्तर पर अंग्रेजी/हिन		
				अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रू	4	
				में अध्ययन किया गया हो अथव	π	
				परीक्षा का माध्यम रहा हो अथवा	1	
	:			(ख)हिन्दी/अंग्रेजी से इतर किस)	
				विषय में स्नातकोत्तर उपाधि	ì	
				जबिक स्नातक स्तर प].
	•			अंग्रेजी/हिन्दी में से एक विषय वं		i
			•	रूप में अध्ययन किया हो तथ		
				दूसरा परीक्षा का माध्यम रहा हे	 	
				अथवा		
	·			(ग)हिन्दी/अंग्रेजी से इतर किसी		•
	ļ			विषय में स्नातकोत्तर उपाधि	1	
				जबिक स्नातर स्तर पर	1 1	
	٠			अंग्रेजी/हिन्दी में से कोई एक		
				अनिवार्य विषय के रूप में तथा		
,	•			दूसरा वैकल्पिक विषय के रूप में		
	ŀ			रहा हो अथवा परीक्षा का माध्यम	}	
			ļ	रहा हो ।		
				(2) हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी	[
				से हिन्दी के रूप में अनुवाद को		
				मान्यता प्राप्त डिप्लोमा अथवा		
	į		1	प्रमाण पत्र		
	İ			वांछ्नीयः अंग्रेजी से हिन्दी तथा		
				हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद करने की योग्यता		
	——————————————————————————————————————	12		13	44	
0 4					14	٠
गी भर्ती		लागू नही	1	1.अध्यक्ष-अध्यक्ष	लागू नही	
				2.कार्यकारी निदेशक- सदस्य		•
	\ ₀			3. अनुसूचित जाति/जनजाति का		
) 1	एक एक वाह्य अधिकारी-सदस्य		

279 GI/13-5

1.	2	3	4	5
13 . सांख्यिकी सहायक	1	मध्य स्तर प्रबन्धन, तकनीकी	पे.बैंड-2 9,300- 34,800 पे.4200	लागू नही
6	7	8	9	10
लागू नही	तीस वर्ष से अधिक नही		शैक्षिणिक योग्यता नही	वाले
11	12	13	14	
	सांख्यिकी विषय के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त एवं १० वर्ष की सतत् सेवा वाले उच्च श्रेणी लिपिको में से बशर्ते गणित के साथ स्नातक उपाधि रखने वाले अभ्यार्थियों ने सांख्यिकी का एक पर्च के रूप में अध्ययन किया हो।	2.कार्यकारी निदेशक- सदस्य 3. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक वाह्य अधिकारी-सदस्य		
1	2	3	4	5
14 . सहायक	13	मध्य प्रबन्धन स्तर गै तकनीकी	र पे.बैंड २ 9,300- 34,800 पे.4200	गैर चयन
6	7	8	9	10
लागू नही	तीस वर्ष से अधिक नहीं	(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि	आयुः नही श्रीक्षणिकः	दो वर्ष

(2) प्रशासन/लेखा क्षेत्र योग्यता में योग्यता नहीं तर्व का अनुमव 14 14 14 14 14 14 14 1					
11 पदोन्नीत द्वारा जिसके न हो पदोन्नीतः उच्च श्रेणी सकने पर सीघी भर्ती द्वारा जिसके न हो पदोन्नीतः उच्च श्रेणी सकने पर सीघी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर सीघी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर सीघी भर्ती द्वारा जिसके हो । 1 2 3 4 5 5 विस्तान स्वरूप अधिकारी-सदस्य 3 अनुसूचित जाति/जनजाति का एक वास्य अधिकारी-सदस्य 4 5 14 अशुलिपिक (ग्रेड-II) 3 मध्य प्रबन्धन स्तर तैय पै बैंड २ १,300-34,800 ग्रेड पे 4,200 विस्तान स्वरूप स्व			_	योग्यता नही	
सकने पर सीघी भर्ती द्वारा किषिकों में से जिन्होंने ग्रेड में १० वर्ष तक नियमित सेवा की हो 2 3 4 5 14 .आशुितिपिक (ग्रेड-II) 3 मध्य प्रबन्धन स्तर गैर ते हैं ह २ तिस वर्ष से अधिक नहीं तिमत्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्ताक उपाधि तिमत्य को गित से अग्रेजी तिमत्य को गित से परीक्षा बोर्ड से अंग्रेजी तिमत्य को गित से परीक्षा तिमत्य को गित से परीक्षा तिमत्य को गित से परीक्षा तिमत्य को गित से जिन्हों तिमत्य को नियमित सेवा ते के हे तथा त्वस्ता परीक्षा अंग्रेजी तथा में ४० शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आणुितिप में 120 शब्द प्रति मिनट की गित से उत्तीर्ण की हो तथा विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्य	11	12		14	,
ग्रेड में १० वर्ष तक नियमित सेवा की हो । 2	पदोन्नीत द्वारा जिसके न हो	पदोन्नीतः उच्च श्रेणी	(1) कार्यकारी निदेशक -अध्यक्ष	लागू नही	
नियमित सेवा की हो एक वाह्य अधिकारी-सदस्य	सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	लिपिकों में से जिन्होंने	(2) सचिव-सदस्य		
1			(3) अनुसूचित जाति/जनजाति का		
14 .आशुितिपिक (ग्रेड-II) 3 मध्य प्रबचन स्तए तैर पे.बैंड २ 9,300-34,800 ग्रेड ऐ.4200 6 7 8 9 10 लागू नहीं तीस वर्ष से अधिक नहीं से स्नातक उपाधि (2) तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अंग्रेजी टेकण में ४० शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी आशुितिपिक में १२० शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी आशुितिपिक में १२० शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी आशुितिपिक में १२० शब्द प्रति मिनट की गति से परीक्षा उत्तीर्ण की हो । 11 12 13 14 लागू नहीं (1) कार्यकारी निदेशक -अध्यक्ष (2) सिविव-सदस्य (3) अनुसूचित जाति / जनजाति का एक वाह्य अधिकारी-सदस्य (3) अनुसूचित जाति / जनजाति का एक वाह्य अधिकारी-सदस्य (3) अनुसूचित जाति / जनजाति का एक वाह्य अधिकारी-सदस्य जाशुितिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो । 1 2 3 4 5	,	नियमित सेवा की हो ।	एक वाह्य अधिकारी-सदस्य		
तकनीकी 9,300- 34,800 प्रेड ऐ,4200 6 7 8 9 10 लागू नहीं तीस वर्ष से अधिक नहीं (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्मातक उपाधि (2) तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अंग्रेजी टकण में ४० शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी आशुलिपिक में १२० शब्द प्रति मिनट की गति से परीक्षा उत्तीर्ण की हो । 11 12 13 14 पर सीधी मर्ती द्वारा 11 15 येन आशुलिपि (प्रेड- पर सीधी मर्ती द्वारा 11 15 येन आशुलिपि (प्रेड- पर सीधी मर्ती द्वारा 12 13 14 तागू नही (2) सिवन-सदस्य (3) अनुसूचित जाति / जनजाति का एक वाह्य अधिकारी-सदस्य (3) अनुसूचित जाति / जनजाति का एक वाह्य अधिकारी-सदस्य (3) आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो । 1 2 3 4 5 16. उच्च श्रेणी लिपिक 43 किनिष्ठ प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक पे.बैंड-1 गैर चयन	1	2	3	4	
34,800 प्रेड प्रे.4200 10 10 10 10 10 10 10	14 .आशुलिपिक (ग्रेड-II)	3	•		गैर चयन
ह 7 8 9 10 लागू नही तीस वर्ष से अधिक नहीं (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि (2) तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अंप्रेजी नहीं वालों के लिए 2 वर्ष टेकण में ४० शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी आशुत्तिपिक में १२० शब्द प्रति मिनट की गति से परीक्षा उत्तीर्ण की हो । 11 12 13 14 लागू नहीं पागू में किन्होंने १० वर्ष की नियमित सेवा ग्रेड में की हो तथा। व्यवता परीक्षा अंग्रेजी टिप्पण में ४० शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुत्तिपि में 120 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुत्तिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो । 11 2 3 4 5 5 वि उच्च श्रेणी लिपिक 43 किनेष्ठ प्रबच्चन स्तर गैर तकनीक पे.बैंड:1 गैर चयन	_	,	तकनीकी	i	
ह 7 8 9 10 लागू नहीं तीस वर्ष से अधिक नहीं (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि (2) तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अंग्रेजी नहीं (2) तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अंग्रेजी नहीं (2) तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अंग्रेजी नहीं (2) तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अंग्रेजी नहीं (2) तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अंग्रेजी तहीं (2) तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अंग्रेजी आशुलिपिक में १२० शब्द प्रति मिनट की गति से परीक्षा उत्तीण की हो । 11 12 13 14 लागू नही (1) कार्यकारी निदेशक -अध्यक्ष लागू नही (2) सचिव-सदस्य (3) अनुसूचित जाति / जनजाति का एक वाह्य अधिकारी-सदस्य (3) अनुसूचित जाति / जनजाति का एक वाह्य अधिकारी-सदस्य (4) अनुसूचित जाति / जनजाति का एक वाह्य अधिकारी-सदस्य (5) शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीण की हो । 1 2 3 4 5 16. उच्च श्रेणी लिपिक 43 किनिष्ठ प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक पे.बैंड:1 गैर चयन		•	·	. *	
6 तीस वर्ष से अधिक नहीं (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि (2) तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अंग्रेजी तील के नहीं पठन आशुलिप (ग्रेड-प्रति मिनट एवं अंग्रेजी आशुलिपिक में १२० शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी आशुलिपिक में १२० शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी आशुलिपिक में १२० शब्द प्रति मिनट की गति से परीक्षा उत्तीर्ण की हो । 11 12 13 14 पर सीधी मर्ती द्वारा उन आशुलिप (ग्रेड-प्रति मिनट जी मति से जिन्होंने १० वर्ष की नियमित सेवा ग्रेड में की हो तथा त्व्वता परीक्षा अंग्रेजी टिप्पण में ४० शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिप में 120 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो । 1 2 3 4 5 16. उच्च श्रेणी लिपिक 43 किनेष्ठ प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक पे वैंड:1 गैर चयन	*•				
तीस वर्ष से अधिक नहीं तीस वर्ष से अधिक नहीं तीस वर्ष से अधिक नहीं से स्नातक उपाधि (2) तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अंग्रेजी टंकण में ४० शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी आशुलिपिक में १२० शब्द प्रति मिनट की गति से परीक्षा उत्तीर्ण की हो । 11 12 13 14 प्रोम्नीत, जिसके न हो सकने पर सीधी मर्ती द्वारा 11 12 13 14 (1) कार्यकारी निदेशक -अध्यक्ष (2) सबिव-सदस्य (3) अनुसूचित जाति / जनजाति के एक वाह्य अधिकारी-सदस्य (3) अनुसूचित जाति / जनजाति का एक वाह्य अधिकारी-सदस्य (3) अनुसूचित जाति / जनजाति का एक वाह्य अधिकारी-सदस्य (4) शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो । 1 2 3 4 5 16. उच्च श्रेणी लिपिक 43 किनिष्ठ प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक पे.बैंड:1 गैर चयन					40
से स्नातक उपाधि (2) तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अंग्रेजी टंकण में ४० शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी आशुलिपिक में १२० शब्द प्रति मिनट की गति से परीक्षा उत्तीर्ण की हो । 11 12 13 14 तागृ नहीं पर सीधी मर्ती द्वारा 11)में से जिन्होंने १० वर्ष की नियमित सेवा ग्रेड में की हो तथा दक्षता परीक्षा अंग्रेजी टिप्पण में ४० शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो । 1 2 3 4 5 16. उच्च श्रेणी लिपिक 43 सिमाट प्रवस्य स्तर गैर तकनीक पे.बैंड:1 गैर चयन	6	7	8 	9	
(2) तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अंग्रेजी नहीं लिए 2 वर्ष टंकण में ४० शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी आशुलिपिक में १२० शब्द प्रति मिनट की गति से परीक्षा उत्तीर्ण की हो । 11 12 13 14 प्रोम्नीत, जिसके न हो सकने उन आशुलिपि (ग्रेड- पर सीघी मर्ती द्वारा परीक्षा अंग्रेजी टिप्पण में ४० शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिप में 120 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो । 1 2 3 4 5 16. उच्च श्रेणी लिपिक 43 किनिष्ठ प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक पे बैंड:1 गैर चयन	लागू नही	तीस वर्ष से अधिक नहीं	1 1	. •	I .
टेकण में ४० शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी आशुलिपिक में १२० शब्द प्रति मिनट की गित से परीक्षा उत्तीर्ण की हो । 11 12 13 14 प्रोम्नीत, जिसके न हो सकने उन आशुलिपि (ग्रेड- पर सीधी भर्ती द्वारा परीक्षा अंग्रेजी तेष की नियमित सेवा ग्रेड में की हो तथा क्क्षाता परीक्षा अंग्रेजी टिप्पण में ४० शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिप में 120 शब्द प्रति मिनट की गित से उत्तीर्ण की हो । 1 2 3 4 5 16. उच्च श्रेणी लिपिक 43 किनिष्ठ प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक पे.बैंड:1 गैर चयन				_	_ 1
अंग्रेजी आशुलिपिक में १२० शब्द प्रति मिनट की गति से परीक्षा उत्तीर्ण की हो । 11 12 13 14 प्रोन्नीत, जिसके न हो सकने उन आशुलिपि (ग्रेड- पर सीधी मर्ती द्वारा					लिए 2 वर्ष
प्रति मिनट की गित से परीक्षा उत्तीर्ण की हो । 11 12 13 14 प्रोन्नीत, जिसके न हो सकने उन आशुलिपि (ग्रेड- III) में से जिन्होंने १० वर्ष की नियमित सेवा ग्रेड में की हो तथा दक्षता परीक्षा अंग्रेजी टिप्पण में ४० शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गित से उत्तीर्ण की हो । 1 2 3 4 5 16 उच्च श्रेणी लिपिक 43 किनिष्ठ प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक पे.बैंड:1 गैर चयन					
उत्तीर्ण की हो					
12 13 14 14 प्रेल्नीत, जिसके न हो सकने उन आशुलिपि (ग्रेल्ला पर सीधी मर्ती द्वारा प्राण्डे में से जिन्होंने १० वर्ष की नियमित सेवा ग्रेल्ला ग्रेला ग्रेल्ला ग्रेल्ला ग्रेल्ला ग्रेल्ला ग्रेल्ला ग्रेल्ला ग्रेला ग्रेल्ला ग्रेला ग्रेल्ला ग्रेला ग्रेल्ला ग्रेल्ला ग्रेल्ला ग्रेल्ला ग्रेला ग्रेला ग्रेला ग्रेला ग्रेल्ला ग्रेला ग्रेल्ला ग्रेला			=		
प्रोन्नीत, जिसके न हो सकने उन आशुलिपि (ग्रेड- पर सीधी मर्ती द्वारा		12		14	
पर सीघी भर्ती द्वारा III)में से जिन्होंने १० वर्ष की नियमित सेवा ग्रेड में की हो तथा दक्षता परीक्षा अंग्रेजी टिप्पण में ४० शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिप में 120 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो । 1 2 3 4 5 16. उच्च श्रेणी लिपिक 43 किनष्ठ प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक पे.बैंड:1 गैर चयन					
वर्ष की नियमित सेवा ग्रेड में की हो तथा क्सता परीक्षा अंग्रेजी टिप्पण में ४० शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिप में 120 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो । 1 2 3 4 5 16 उच्च श्रेणी लिपिक 43 किनष्ठ प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक पे.बैंड:1 गैर चयन		_		लागू नहीं	
ग्रेड में की हो तथा दसता परीक्षा अंग्रेजी टिप्पण में ४० शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो । 1 2 3 4 5 16 उच्च श्रेणी लिपिक 43 किनष्ठ प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक पे.बैंड:1 गैर चयन	पर सीघी भर्ती द्वारा				• •
दक्षता परीक्षा अंग्रेजी टिप्पण में ४० शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी " आशुलिप में 120 शब्द प्रति मिनट की गिति से उत्तीर्ण की हो । 1 2 3 4 5 16 उच्च श्रेणी लिपिक 43 किनष्ठ प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक पे.बैंड:1 गैर चयन				•	-
टिप्पण में ४० शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिप में 120 शब्द प्रति मिनट की गित से उत्तीर्ण की हो । 1 2 3 4 5 16 उच्च श्रेणी लिपिक 43 किनष्ठ प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक पे.बैंड:1 गैर चयन		,	का एक वाह्य अधिकारी-सदस्य		
मिनट और अंग्रेजी		-			
आशुलिप में 120 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो । 1 2 3 4 5 16 उच्च श्रेणी लिपिक 43 किनष्ठ प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक पे.बैंड:1 गैर चयन			p		
शब्द प्रति मिनट की गिति से उत्तीर्ण की हो । 1 2 3 4 5 16 उच्च श्रेणी लिपिक 43 किनष्ठ प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक पे.बैंड:1 गैर चयन					
गित से उत्तीर्ण की हो । 4 5 1 2 3 4 5 16 उच्च श्रेणी लिपिक 43 किनष्ठ प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक पे.बैंड:1 गैर चयन					
16 उच्च श्रेणी लिपिक 43 किनष्ठ प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक पे.बैंड:1 गैर चयन				•	
10 God Well Idildh 42	1		3	4	5
1 1 1 1	16. उच्च श्रेणी लिपिक	43 .	कनिष्ठ प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक	पे.बैंडः1	गैर चयन
	1			5,200-	

		T		Į-	PARI III
•				20,200	
	,			ग्रेड पे.	
				2400	
6		7	8	9	10
लागू नही		लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नहीं
11		12	13	14	
प्रोन्नीत द्वारा 1 17. आशुलिपिक III)	(ग्रेड-	अवर श्रेणी लिपिक/हिन्दी टंकक जिन्होंने 8 वर्ष तक नियमित सेवा की हो । अवर श्रेणी लिपिक एवं हिन्दी टंकक की विष्ठता का निर्धारण उनकी ग्रेड में प्रविष्टि की तिथि से होगा । 2	(3) अनुसूचित जाति / जनजाि एक वाह्य अधिकारी-सदस्य	लागू नही व पे.बैंड:1 5,200- 20,200 ग्रेड पे.	5 लागू नही
				2400	-
)	-	7	8	9	10
नागू नही			अनिवार्यः(1) 10+2 अथवा समक्स (2)तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति एवं अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति, से परीक्षा उत्तीर्ण की हो । वांछनीयः मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि	लागू नही	दो वर्ष
1		4.0	13		

सीची भर्ती द्वारा लागू नहीं (केवल स्थायीकरण हेतु) (1) कार्यकारी निदेशक -अध्यक्ष (2) सिव-सदस्य (3) अनुसृचित जाति / जनजाति का एक वाह्य अविकारी-सदस्य 1 2 3 4 5 5 18. अवर श्रेणी लिपिक 52 किनेच्च प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक पे मैं बंधन 15,200-20,200 प्रेड पे 1900 9 9 10 वो वर्ष की लागू नहीं सिवाया सम्बद्ध (2)तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अंग्रेजी की निम्न ग्रेड परीक्षा 30 श्रद्ध प्रति निमट की गति से उत्तेणि की हो । यान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्थातक उपाधि 1 1 12 13 14 लागू नहीं (1) कार्यकारी निदेशक -अध्यक्ष (2) सविव-सदस्य उद्देश्य कर्मी जिन्होंने (1) कार्यकारी निदेशक -अध्यक्ष (3) अनुसूचित जाति / जनजाति से जा की हो । 2 आई अध्यर्थी न मिलने पर विवित्या सीधी भर्ती द्वारा भरी जारी निदेशक -अध्यक्ष (3) अनुसूचित जाति / जनजाति से जारी मेरी परी द्वारा भरी जारी निदेशक -अध्यक्ष (3) अनुसूचित जाति / जनजाति से जारी मिलने पर विवित्या सीधी भर्ती द्वारा भरी जारी निदेशक -अध्यक्ष (3) अनुसूचित जाति / जनजाति जारी मिलने पर विवित्या सीधी भर्ती द्वारा भरी जारी मिलने सदस्य परी जारी मिलने पर विवित्या सीधी भर्ती द्वारा भरी जारी मिलने सदस्य परी जारी मिलने सुकर की आयु पूर्ण कर चुके हो, टंकण परीक्षा से छूट के पात्र होंगे !					
(1) कार्यकारी निदेशक -अध्यक्ष (2) सविव-सदस्य (3) अनुसृषित जाति / जनजाति का एक वास्य अधिकारी-सदस्य 1 2 3 4 5 18. अवर श्रेणी लिपिक 52 किनिच्छ प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक पे.बैंड-1 5,200-20,200 ग्रेड पे. 1900 9 10 लागू नही तीस वर्ष से अधिक नहीं सामक्ष (2)तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अंग्रेजी की निम्न ग्रेड परीक्षा 30 शब्द प्रित मिनट की गति से उत्तीण की हो । वांक्रमीयः मान्यता प्राप्त विश्वास वार्ड से सिमिणकः ये नहीं 11 12 13 14 वांग्रमीयः मान्यता प्राप्त विश्वास वार्ड स्था कभी जिन्हों ने 10 वर्ष की निवमत सेवा की हो ! 2. अर्ह अन्यर्थी न मिलने पर रिक्तियां सीची मर्ती द्वाच भरी जाएंगी ! 2. अर्ह अन्यर्थी न मिलने पर रिक्तियां सीची मर्ती द्वाच भरी जाएंगी ! 3. वे बहु उद्देश्य कभी जिन्होंने पर दिक्तियां सीची मर्ती द्वाच भरी जाएंगी ! 3. वे बहु उद्देश्य कभी जिन्होंने पर दिक्तियां सीची मर्ती द्वाच भरी जाएंगी ! 3. वे बहु उद्देश्य कभी जिन्होंने पर दिक्तियां सीची मर्ती द्वाच भरी जाएंगी ! 3. वे बहु उद्देश्य कभी जिन्होंने तिथि पर 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, टंकण परीक्षा से छूट के पात्र	सीघी भर्ती द्वारा	लागू नही	(केवल स्थायीकरण हेतु)	लागू नही	
(3) अनुस्वित जाति / जनजाति का एक वास्य अधिकारी-सदस्य 1 2 3 4 5 18. अवर श्रेणी लिपिक 52 किनिष्ठ प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक 1 देख: 1 5,200-20,200 प्रेढ पे. 1990 6 7 8 9 10 तीस वर्ष से अधिक नहीं समक्स (श्रेतकनीकी शिक्षा बोर्ड से अंग्रेजी की निम्न ग्रेड परीक्षा 30 सब्द प्रति मिनट की गति से उत्तेजी की हो । विश्वा की हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो			(1) कार्यकारी निदेशक -अध्यक्ष		. , .
1 2 3 कि. अंतर श्रेणी लिपिक 52 कि. अंतर श्रेणी लिपिक 52 कि. अंतर श्रेणी लिपिक 52 कि. अंतर श्रेणी लिपिक 52 कि. अंतर श्रेणी लिपिक 52 कि. अंतर श्रेणी लिपिक 52 कि. अंतर श्रेणी लिपिक 52 कि. अंतर श्रेणी लिपिक 52 कि. अंतर अंतर कि. अंत			(2) सचिव-सदस्य		
1 8. अवर श्रेणी लिपिक 52 किनिष्ठ प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक पे बैंड:1 5,200-20,200 ग्रेड पे. 1900 विलागू नहीं तीस वर्ष से अधिक नहीं सामक्स (2)तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अंग्रेजी की निम्न ग्रेड परीक्षा 30 सब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो । वांच्मीयः मान्यता प्राप्त विस्वविद्यालय से स्नातक उपाधि विश्व कि नियमित सेवा की हो । 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो । 2. अई अम्पर्थी न मिलने पर तिक्तियां सीधी मर्ती द्वारा भरी जाएंगी। 3. वे बहु उद्देश्य कर्मी जानिवि विश्व पर 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, टंकण परीक्षा से पूर्ण कर चुके हो, टंकण परीक्षा से पूर्ट के पात्र			(3) अनुसूचित जाति / जनजाति		
18. अवर श्रेणी लिपिक 52 किनिष्ठ प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक पे इंडः 1 5,200- 20,200 ग्रेड पे. 1900 6 7 8 अनिवार्यः(1) 10+2 अथवा सम्बद्धा (2)तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अधिक नहीं समक्स (2)तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अधिणकः यो नहीं अग्रेणी की निम्न ग्रेड परीक्षा 30 स्व प्रति मिनट की गित से उत्तीर्ण की हो । वांक्रमीत्वाः मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि 11 12 13 (1) कार्यकारी निदेशक -अध्यक्ष (2) सविद-सदस्य (3) अनुसृचित जाति / जनजाति एकं वाह्य अधिकारी-सदस्य तागु नहीं (3) अनुसृचित जाति / जनजाति एकं वाह्य अधिकारी-सदस्य तागु नहीं (3) अनुसृचित जाति / जनजाति एकं वाह्य अधिकारी-सदस्य तागु नहीं (3) अनुसृचित जाति / जनजाति एकं वाह्य अधिकारी-सदस्य संविद्य पर्या निम्नितं सार्य की निम्नितं सर्व की आयु पूर्ण कर चुके हो, टंकण परीक्षा से छूट के पात्र			का एक वाह्य अधिकारी-सदस्य		
हैं 200- 20,200 चेंड पे. 1900 6 7 8 9 10 तोस वर्ष से अधिक नहीं अनिवार्यः(1) 10+2 अथवा सामुः नहीं से अधेजों की निम्न ग्रेड परीक्षा बोर्ड से अंग्रेजों की निम्न ग्रेड परीक्षा उठ शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीण की हो । वांछनीयः मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि 11 12 13 14 सीधी मर्ती और प्रोन्नीतः 1. 10 वीं उत्तीण व बहुं उद्देश्य कर्मी निन्दोने 10 वर्ष की निव्यंनित पंत्र वें की निव्यंनित पंत्र कें वाह्य अधिकारी-सदस्य (3) अनुसूचित जाति / जनजाति एक वाह्य अधिकारी-सदस्य सिधी मर्ती द्वारा मरी जाएंगी। 3. वे बहु उद्देश्य कर्मी जे नियुक्ति विश्वि पर 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, टंकण परीक्षा से छूट के पात्र	1	2	3	4	5
वि 7 8 9 10 लागू नहीं तीस वर्ष से अधिक नहीं समक्स (श्रीतकनीकी शिक्षा बोर्ड से अंद्रिणीकः यो नहीं (श्रीत की हो । वास्त्रियः मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि 11 12 13 14 लागू नहीं (श्री की निम्न ग्रेड परीक्षा अठ शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो । वास्त्रियः मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि 14 (1) कार्यकारी निदेशक -अध्यक्ष (2) सचिव-सदस्य (3) अनुसूचित जाति / जनजाति एक वाह्य अधिकारी-सदस्य पक्ति वास्य अधिकारी-सदस्य सिधी मर्ती द्वारा भरी जाएंगी । 3. वे बहु उद्देश्य कर्मी जिन्युक्ति तिथि पर 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, टंकण परीक्षा से छूट के पात्र	18. अवर श्रेणी लिपिक	52	कनिष्ठ प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक	पे.बैंडः1	गैर चयन
ह विस्तार कर्ष से अधिक नहीं समक्स (2) तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सीक्षणिकः यो नहीं समक्स (2) तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अंग्रेजी की निम्न ग्रेड परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो । वांग्रनीयः मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि 11 12 13 14 वाग्र महीं और प्रोन्नीत 3 प्रोन्नीतः 1. 10 वीं उत्तीर्ण व बहु उदेश्य कर्मी जिन्होंने 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो । 2. अर्ह अम्थर्थी न मिलने पर रिक्तियां सीघी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी । 3. वे बहु उदेश्य कर्मी जो नेयुक्ति तिथि पर 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, टंकण परीक्षा से छूट के पात्र				5,200-	
6 7 8 9 10 लागू नहीं तीस वर्ष से अधिक नहीं समक्क्ष (2)तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अंग्रेजी की निम्न ग्रेड परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो । वांछनीयः मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि 11 12 13 14 सीधी मर्ती और प्रोन्नीत 3 प्रोन्नीतः 1. 10 वीं उत्तीर्ण व बहु उद्देश्य कर्मी जिन्होंने 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो । 2. अर्ह अम्प्यर्थी न मिलने पर रिक्तियां सीधी मर्ती द्वारा मरी जाएंगी । 3. वे बहु उद्देश्य कर्मी जो नियुक्ति तिथि पर 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, टंकण परीक्षा से छूट के पात्र				20,200	
तींस वर्ष से अधिक नहीं तींस वर्ष से अधिक नहीं समक्स (२)तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अंग्रेजी की निम्न ग्रेड परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो । वांछ्नीयः मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि 11 12 13 14 लागू नहीं एवं 1 के अनुपात में 10 वीं उत्तीर्ण व बहु उद्देश्य कर्मी जिन्होंने 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो । 2. अर्द् अम्पर्थी न मिलने पर रिक्तियं सीघी मर्ती द्वारा मरी जाएंगी । 3. वे बहु उद्देश्य कर्मी जे नियुक्ति तिथि पर 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, टंकण परीक्षा से छूट के पात्र				ग्रेड पे.	
तीस वर्ष से अधिक नहीं समक्स (२)तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अंग्रेजी की निम्न ग्रेड परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो । वांछ्मीयः मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि 11 12 13 14 तागू नहीं (२) सचिव-सदस्य (३) अनुसूचित जाति / जनजाति एवं 1 के अनुपात में जिल्होंने 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो । 2. आई अभ्यर्थी न मिलने पर रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी । 3. वे बहु उद्देश्य कर्मी जे नियुक्ति तिथि पर 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, टंकण परीक्षा से छूट के पात्र				1900	
समकक्ष (2)तकनीकी शिक्षा बोर्ड से प्रेत्रणिकः ये नहीं अंग्रेजी की निम्न ग्रेड परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो । वांछनीयः मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि 11 12 13 14 सीधी भर्ती और प्रोन्नीत 3 प्रोन्नीतः (1) कार्यकारी निदेशक –अध्यक्ष तागू नहीं (2) सचिव-सदस्य उद्देश्य कर्मी जिन्होंने 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो । 2. अर्ह अभ्यर्थी न मिलने पर रिक्तियं सीधी मर्ती द्वारा भरी जाएंगी । 3. वे बहु उद्देश्य कर्मी जो नियुक्ति तिथि पर 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, टंकण परीक्षा से छूट के पात्र	6			9.	
(2)तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अंग्रेजी की निम्न ग्रेड परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट की गित से उत्तीर्ण की हो । वांछ्नीयः मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि 11 12 13 14 सीधी मर्ती और प्रोन्नीतः 3 प्रोन्नीतः 1. 10 वीं उत्तीर्ण व बहु उद्देश्य कर्मी जिन्होंने 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो । 2. अर्ह अम्यर्थी न मिलने पर रिक्तियां सीधी मर्ती द्वारा मरी जाएंगी । 3. वे बहु उद्देश्य कर्मी जो नेयुक्ति तिथि पर 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, टंकण परीक्षा से छूट के पात्र	लागू नही	तीस वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्यः(1) 10+2 अथवा		· •
अंग्रेजी की निम्न ग्रेंड परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट की गित से उत्तीर्ण की हो । वांछ्नीयः मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि 11 12 13 14 सीघी भर्ती और प्रोन्नीत 3 प्रोन्नीतः 1. 10 वीं उत्तीर्ण व बहु उद्देश्य कर्मी जिन्होंने 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो । 2. अई अस्पर्यर्थी न मिलने पर रिक्तियां सीघी भर्ती द्वारा मरी जाएंगी । 3. वे बहु उद्देश्य कर्मी जो नियुक्ति तिथि पर 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, टंकण परीक्षा से छूट के पात्र			1	_	,
शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो । वांछनीयः मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि 11 12 13 14 सीधी मर्ती और प्रोन्नीत 3 प्रोन्नीतः 1. 10 वीं उत्तीर्ण व बहु उद्देश्य कर्मी जिन्होंने 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो । 2. अर्ह अम्यर्थी न मिलने पर रिक्तियां सीधी मर्ती द्वारा मरी जाएंगी । 3. वे बहु उद्देश्य कर्मी जो नियुक्ति तिथि पर 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, टंकण परीक्षा से छूट के पात्र			` '	नही	
उत्तीर्ण की हो । वांछनीयः मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि 11 12 13 14 सीधी भर्ती और प्रोन्नीतः 3 प्रोन्नीतः 1. 10 वीं उत्तीर्ण व बहु उद्देश्य कर्मी जिन्होंने 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो । 2. अर्द् अभ्यर्थी न मिलने पर रिक्तियां सीधी मर्ती द्वारा भरी जाएंगी । 3. वे बहु उद्देश्य कर्मी जो नियुक्ति तिथि पर 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, टंकण परीक्षा से छूट के पात्र					
वांछनीयः मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि 11 12 13 14 सीधी भर्ती और प्रोन्नीत 3 प्रोन्नीतः एवं 1 के अनुपात में 1. 10 वीं उत्तीर्ण व बहु उद्देश्य कर्मी जिन्होंने 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो । 2. अर्ह् अम्पर्थी न मिलने पर रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी। 3. वे बहु उद्देश्य कर्मी जो नियुक्ति तिथि पर 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, टंकण परीक्षा से छूट के पात्र					
विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि 11 12 13 14 सीधी भर्ती और प्रोन्नीत 3 प्रोन्नीतः एवं 1 के अनुपात में 1. 10 वीं उत्तीर्ण व बहु उद्देश्य कमीं जिन्होंने 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो । 2. अई अभ्यर्थी न मिलने पर रिक्तियां सीधी मर्ती द्वारा भरी जाएंगी । 3. वे बहु उद्देश्य कमीं जे नियुक्ति तिथि पर 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, टंकण परीक्षा से छूट के पात्र			·		
11 सीधी भर्ती और प्रोन्नीत 3 प्रोन्नीतः एवं 1 के अनुपात में 1. 10 वीं उत्तीर्ण व बहु उद्देश्य कर्मी जिन्होंने 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो । 2. अर्ह् अभ्यर्थी न मिलने पर रिक्तियां सीधी मर्ती द्वारा भरी जाएंगी । 3. वे बहु उद्देश्य कर्मी जे नियुक्ति तिथि पर 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, टंकण परीक्षा से छूट के पात्र					
सीघी भर्ती और प्रोन्नीत 3 प्रोन्नीतः एवं 1 के अनुपात में 1. 10 वीं उत्तीर्ण व बहु उद्देश्य कर्मी जिन्होंने 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो । 2. अई अम्यर्थी न मिलने पर रिक्तियां सीघी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी । 3. वे बहु उद्देश्य कर्मी जो नियुक्ति तिथि पर 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, टंकण परीक्षा से छूट के पात्र					
एवं 1 के अनुपात में 1. 10 वीं उत्तीर्ण व बहु उद्देश्य कर्मी जिन्होंने 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो । 2. अर्ह् अभ्यर्थी न मिलने पर रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी । 3. वे बहु उद्देश्य कर्मी जो नियुक्ति तिथि पर 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, टंकण परीक्षा से छूट के पात्र	11	12	13	14	
उद्देश्य कर्मी जिन्होंने 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो । 2. अर्ह् अभ्यर्थी न मिलने पर रिक्तियां सीघी मर्ती द्वारा भरी जाएंगी । 3. वे बहु उद्देश्य कर्मी जो नियुक्ति तिथि पर 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, टंकण परीक्षा से छूट के पात्र	सीधी भर्ती और प्रोन्नीत 3	प्रोन्नीतः	(1) कार्यकारी निदेशक -अध्यक्ष	लागू नहीं	
10 वर्ष की नियमित सेवा की हो । 2. अर्ह् अभ्यर्थी न मिलने पर रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी । 3. वे बहु उद्देश्य कर्मी जो नियुक्ति तिथि पर 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, टंकण परीक्षा से छूट के पात्र	एवं 1 के अनुपात में	1. 10 वीं उत्तीर्ण व बहु	(2) सचिव-सदस्य		10
10 वर्ष की नियमित सेवा की हो । 2. अर्ह् अभ्यर्थी न मिलने पर रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी । 3. वे बहु उद्देश्य कर्मी जो नियुक्ति तिथि पर 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, टंकण परीक्षा से छूट के पात्र		उद्देश्य कर्मी जिन्होंने	(3) अनुसूचित जाति / जनजाति		
2. अर्ह् अभ्यर्थी न मिलने पर रिक्तियां सीघी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी । 3. वे बहु उद्देश्य कर्मी जो नियुक्ति तिथि पर 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, टंकण परीक्षा से छूट के पात्र		10 वर्ष की नियमित	एक वाह्य अधिकारी-सदस्य		
मिलने पर रिक्तियां सीघी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी। 3. वे बहु उद्देश्य कर्मी जो नियुक्ति तिथि पर 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, टंकण परीक्षा से छूट के पात्र		सेवा की हो ।			
सीघी मर्ती द्वारा भरी जाएंगी। 3. वे बहु उद्देश्य कर्मी जो नियुक्ति तिथि पर 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, टंकण परीक्षा से छूट के पात्र		1			
जाएंगी। 3. वे बहु उद्देश्य कर्मी जो नियुक्ति तिथि पर 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, टंकण परीक्षा से छूट के पात्र		Í	·		
3. वे बहु उद्देश्य कर्मी जो नियुक्ति तिथि पर 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, टंकण परीक्षा से छूट के पात्र					
जो नियुक्ति तिथि पर 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, टंकण परीक्षा से छूट के पात्र					
45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, टंकण परीक्षा से छूट के पात्र		जो नियुक्ति तिथि पर			
कर चुके हो, टंकण परीक्षा से छूट के पात्र					
परीक्षा से छूट के पात्र				·	
होंगे ।		_			, -
		होंगे ।			

				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1.	2	3	4	5
19. क्षेत्र सहायक	158	कनिष्ठ प्रबन्धन स्तर	पे.बैंड:1 5,200- 20,200 ग्रेड पे. 1900	गैर चयन
6	7 .	8:	9	10
लागू नही	तीस वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्यः(1) 10+2 अथवा समक्क्ष (2)तम्बाकू रोपण एवं ग्रेडिंग का ज्ञान वांछनीयः मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि	शैक्षणिकः यो	दो वर्ष
11	12	13	14	
सीधी भर्ती और प्रोन्नीत 3 एवं 1 के अनुपात में	प्रोन्नीतः 1. शेक्षणिक योग्यता प्राप्त बहु-उद्देशीय कर्मियों जिन्होंने पद पर 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो में से । यदि अहर्ता प्राप्त अम्यर्थी उपलब्ध ने हो, रिक्तियां सीधी मर्ती द्वारा मरी	(3) अनुसूचित जाति / जनजाति	लागू नही	
1	2	3	4	5
20 . चालक (साधरण ग्रेड)	10	कनिष्ठ प्रबन्धन स्तर, गैर तकनीक	पे.बैंड-1 5200- 20,200 ग्रेड पे.1900	चयन ;
6	7	8	9	10
लागू नही	30 वर्ष से अधिक नही	अनिवार्यः 1.10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष 2. हल्के मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए । 3. हल्के मोटर वाहन चलाने का	आयु नहीं	दो वर्ष

		न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव हो ।		
11	12	13	14	
1:1 के अनुपात द्वारा यदि	कर्मियों में से इच्छुक अभ्यार्थियों का कार चलान में दक्षता परीक्षण	अनुसूचित जाति/जनजाति का एक वाह्य अधिकारी-सदस्य	लायू नही	
1	2	3	4	5
21. गेस्टेटनर प्रचालक	1	कनिष्ठ प्रबन्धन स्तर, गैर तकनीक	पे.बैंड-1 5200- 20,200 ग्रेड पे.1900	गैर चयन
6	7	8	9	10
लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
11	12	13	14	
प्रोन्नीत द्वारा	की नियमित सेवा वाले उन बहु-उद्देशीय कर्मियों	 कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष सचिव-सदस्य अनुसूचित जाति/ जनजाति का एक वाह्य अधिकारी-सदस्य 	लागू नही	, ,
1	2	3	4	5
22. बहु-उद्देशीय कर्मी	140	तकनीकी	पे.बॅंड-1 5200- 20,200 पे.1800	ःलागू नही
6	7	8	9	10 ,
लागू नही	30 वर्ष से अधिक नही	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा	लागू नही	दो वर्ष

	समकक्ष		
12	13	14	
लागू नही	कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष सचिव-सदस्य अनुसूचित जाति/ जनजाति का एक वाह्य अधिकारी-सदस्य	लागू नही ।	
2	3	4	5
45	कनिष्ठ प्रबन्धन स्तर, गैर तकनीकी	5200- 20,200	गैर चयन
7	8	9	10
लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
12	13	14	
जिन्होंने संबंद्ध ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा	 सचिव-सदस्य 3. 	लागू नही	
2	3	4	5
2	कनिष्ठ प्रबन्धन स्तर् गैर तकनीकी	पे.बैंड-2 5200- 20,200 ग्रेड पे.1900	लागू नही
7	8	9	10
तीस वर्ष से अधिक नही	समकक्ष उत्तीर्ण, हिन्दी टंकण की गति 25 शब्द प्रति मिनट होगना अनिवार्य हैं। वांछनीयः 1. तकनीक शिक्षा बोर्ड से अंग्रेजी टंकण 30 शब्द प्रति मिनट की		
	तागू नही 2 45 7 तागू नही 12 प्रोन्नीत उन सहायकों से जिन्होंने संबद्ध ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो । 2 2	12 13 1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष 2. सिव-सदस्य 3. अनुसूचित जाति/ जनजाति का एक वाह्य अधिकारी-सदस्य 2 3 45 किनिष्ठ प्रबन्धन स्तर् गैर तकनीकी 7 8 लागू नही 12 13 प्रोत्नीत जन सहायकों से जिन्होंने संबंद्ध ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3	12 13 14

		स्नातक		
11	12	13	14	
प्रोन्नीत द्वारा जिसके न हो	उन नियमित बहु-	1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष	लागू नही	†
सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	उद्देशीय कर्मियों से जा	2. सचिव-सदस्य 3.		١,
	कॉलम 8 में सीधी मर्ती	अनुसूचित जाति/ जनजाति का		
	हेतु निधारित योग्यताए	एक वाह्य अधिकारी-सदस्य		
	रखते हों।			
1	2	3	4	5
25. पद्धति विश्लेषक	1	वरिष्ठ प्रबन्धन स्तर् तकनीक	पे.बैंड-3	चयन
	-		15,600-	,,
			39,100	
			ग्रेड पे.	
			5400	
6	7	8	9	10
लागू नही	35 वर्ष से अधिक नहीं	अनिवार्यः	आयुः नही	दो वर्ष
-	_	(1) साँख्यिकी/गणित(सांख्यिकी)/	शैक्षाविक	1
		ऑपरेशन रिसर्च/भौतिकी अथवा	योग्यता-हाँ	
		अर्थशास्त्र(सांख्यिकी	41 4(1) (1)	
		सहित)/वाणिज्य (सांख्यिकी		
		सहित)में स्नातकोत्तर उपाधि		
	٠.	अथवा		
		इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर विज्ञान में		
r		डिग्री		
		2. डाटा प्रासेसिंग का 3 वर्ष का	ľ	
		अनुभव जिसमें से कम से कम 1		.
		वर्ष का अनुभव इलेक्ट्रॉनिक	ĺ	
		कंप्यूटर पर वास्तविक प्रोगामिग में		
		होना चाहिए ।	.	
		वांछनीयः(1)इंजीनियरिंग में मास्टर		
į		डिग्री या उल्लिखित किसी भी		
	1	विषय में डॉक्टोरल डिग्री ।		
		(2) कम्प्यूटर		1
		प्रोग्रार्मिग/सिस्टम/डिजाइन/		
		विश्लेषण में औपचारिक प्राशिक्षण ।		
	·	(3) एक या अधिक प्रोग्रामिंग		
		भाषाओं का ज्ञान भर्ती के समय		
1 ² 6.4	ł	उल्लेख किया जाए ।		
7	——————————————————————————————————————			

1	12	13	14	
ोन्नीत द्वारा,जिसके ने हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	वर्ष की नियमित सेवा	1. अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. कार्यकारी निदेशक-सदस्य 3. अनुसूचित जाति/ जनजाति का एक वाह्य अधिकारी-सदस्य	लागू नही	
	2		4	5
26. प्रोग्रामर	1	मध्य प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक	पे.बैंड-2 9300- 34,800 ग्रेड पे.4800	लागू नही
6	7	8	9	10
लागू नही	तीस वर्ष से अधिक नही	अनिवार्यः गणित/सांख्यिकी/ ऑपरेशन रिसर्य/वाणिज्य अथवा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि तथा कम्प्यूटर का ज्ञान स्नातकोत्तर डिप्लोमा न्यूनतम 3 वर्ष का संबंधित अनुभव	लागू नही	दो वर्ष
11	12	13	14	,
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नही	(केवल स्थायीकरण हेतु) 1. अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. कार्यकारी निदेशक-सदस्य 3. अनुसूचित जाति/ जनजाति का एक वाह्य अधिकारी-सदस्य	लागू नही	
1	2	3	4	5
27. निदेशक (नीलामी)	1	वरिष्ठ प्रबन्धन स्तर, प्रतिनियुक्ति पद	पे.बैंड-3 15,600- 39,100 ग्रेड पे. 7600	लागू नही
6	7	8	9	10
लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
11	12	13	14	
गैर-सी.एस स.पद के तह प्रतिनियुक्ति । भारत सरक के वे उप-सचिव/निदेश	र के उप सचिव/निदेशव	र भारत सरकार के नियमों के तहत र सी.एस.वी. द्वारा	लागू नही	

स्तर के अधिकारी जो	से सी.एस.बी. द्वारा की		<u> </u>	
सी.एस.एस.(केन्द्रीय स्टाफिंग		T ·		
स्कीम)के तहत भारत सरकार	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
में उप सचिव/निदेशक स्तर		<i>y</i> .	Í	
पर नियुक्ति हेतु अई हैं, इस]	
पर गैर-सी.एस.एस. के	1			
नियुक्त किए जा सकते हैं।		·]
1	2	3	4	5
		3	4	3
28. हिन्दी अधिकारी	1	मध्य प्रबन्धन स्तर, गैर तकनीक	पे.बैंड-2	चयन
			9,300-	
			34,800]
6	7	8	9 .	10
लागू नही	35 वर्ष से अधिक नही	अनिवार्यः(1)हिन्दी में स्नातकोत्तर	न्या उरी	दो वर्ष
(11)	उठ पप रा जापपर गुहा	_	लागू गहा	
		·		(सीधी भर्ती
		स्नातक स्तर पर अंग्रेजी भी एक		वालों हेतु)
	·	विषय रहा हो अथवा	·	
		स्नातक स्तर पर हिन्दी विषय के		
		साथ अंग्रेजी में स्नातकोत्तर या		
		समकक्ष अथवा	·	
	•	किसी भी विषय में स्नातकोत्तर या		
		समकक्ष(हिन्दी माध्यम से)तथा		
	-	स्नातक स्तर पर हिन्दी एक विषय		
,		रहा हो अथवा		
		अग्रेजी माध्यम से किसी भी विषय		
	·	में स्नातकोत्तर या समकक्ष तथा		
		स्नातक स्तर पर अंग्रेजी एवं विषय	ļ	
	·	रहा हो		
		(2) हिन्दी में शब्दावली		, [
		कार्य/अंग्रेजी से हिन्दी या हिन्दी से	ļ	
		अंग्रेजी अनुवाद में 5 वर्ष का		
		अनुभव । अनुवाद वरीयतः तकनीक		
	1	या वैज्ञानिक सहित्य में होना		
		चाहिए ।		
		या		
		हिन्दी अध्यापन, शोध/प्रत्रकारिता में	1	
	į.	5 वर्ष का अनुभव		
		वांछनीयः(1) संस्कृत और/अथवा	}	
1914		तेलुगू भाषा का ज्ञान ।	ł	
				

		INDIA: EXTRAURDINARY	[]	PART IIISEC.
		(2) प्रशासनिक अनुमव (3) प्रारूपण व ट्रिप्पण अथवा हिन्दी कक्षा/कार्यशाला आयोजन का अनुमव	. }	
11	12	13	14	
प्रोन्नीत द्वारा जिसके न हो सकने पर त्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा	नियमित सेवा वाले वरिष्ठ अनुवादकों में से।	1. अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. कार्यकारी निदेशक-सदस्य 3. अनुसूचित जाति/ जनजाति का एक वाह्य अधिकारी-सदस्य	लागू नही	
1	2	3	4	5
29. संगणक प्रचालक (ग्रेड- बी)	27	कनिष्ठ प्रबन्धन स्तर गैर तकनीक	पे.बैंड-1 5200- 20,200 ग्रेड पे. 2800	चयन
6	7	8	9	10
लागू नही	तीस वर्ष से अधिक नही	अनिवार्यः (1)मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि (2)टंकण का ज्ञान (3)कम्प्युटर पर 8000 कुंजी प्रसरण/प्रति घंटा की गति वांछनीयः (1) (2)	आयु नहीं योग्यताःहाँ	दो वर्ष
i			14	
प्रोन्नीत द्वारा जिसके न हो सकने पर सीघी भर्ती द्वारा	प्रोन्नीतः निर्घारित अहर्ता घारित करने वाले श्रेणी	(स्थायीकरण हेतु) 1. कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष	लागू नही	

P				
	लिपिकों/क्षेत्र सहायकं	2. सचिव-सदस्य		L ₀
1	में से	3. अनुसूचित जाति/ जनजाति का	1	
		एक वाह्य अधिकारी-सदस्य		
1	2	3	4	5
			•	3
30. केयर टेकर	1	मध्य प्रबन्धन स्तर गैर तकनीकी	पे.बैंड-2	लागू नही
			9300-	
			34,800	
			ग्रेड पे.	
			4200	
6	7	8	9	10
लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
11	12	13 .		
·	12	,	14 ·	I
प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्तिः केन्द्र	लागू नही	लागू नही	
	सरकार/राज्य		4	
	सरकार/केन्द्र अथवा	·	i	
	राज्य सरकार के			
	सार्वजनिक उपक्रमों या			
	स्वायत्त शासी निकायों			•
	के अधिकारी जो			
	(क)(i)नियमित आधार	·		
~	पर सदृश्य पर हो अथवा			, .
	(ii) नियमित आघार पर			
•	(II) नियानत आयार पर पे.बैंड-1 में 5200-			
	20,200 के स्केल में		ļ	
	2400 ग्रेड पे.में न्यूनतम			İ
	10 वर्ष की सेवा कर			
	चुके हो।	ľ		
	(ख)जिन्हें केयर टेकिंग		ĺ	
	जेसे सफाई,अग्नि			
	सुरक्षा, फर्नीचर तथा			
	फर्निशिंग सहित			ľ
	कार्यालय भवन की देख भाल कार्यालय उपस्कर			<u> </u>
	तथा उपकरणों का			
	रखरखवा,बैंठकों तथा			
				,
	<u> </u>			
	व्यवस्था,समूह 'घं तथा			
	दैनिक वेतन भोगी			\ \ \

कर्मियों के प्रबन्धन का अनुभव हों । वाछनीयः सफाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अग्नि सुरक्षा या सिविल अभियंत्रण में प्रशिक्षण/प्रतिनियुक्ति सविध सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 1 2 3 4 5 31. स्टाफ कार चालक विशेष के नहीं होगी । 1 2 3 4 5 31. स्टाफ कार चालक विशेष के नहीं होगी । 6 7 8 8 9 10 लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं वाले स्टाफ कार चालकों (ग्रेड-गा) प्रान्नीत द्वारा बशर्ते वे बोर्ड द्वारा आयोजित ट्रेंड परीक्षा उत्तीर्ण कर ले । (2)(1)द्वारा निर्धारत संख्या में रिवित पूर्ति न
अनुमव हों । वांछनीयः सफाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य,अग्नि सुखा या सिविल अभियंत्रण में प्रशिक्षण/प्रतिनियुक्ति सबि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 1 2 3 31. स्टाफ कार चालक 11 किन्छ प्रबन्धन स्तर, गैर पे.बँड-1 5200-20,200 फेड पे. 2800 6 7 8 8 9 10 लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं नियमित सेवा वाले स्टाफ कार चालकों (फेड-II) प्रान्तीत द्वारा अभिकारी-सदस्य अधिकारी-सदस्य
वांछनीयः सफाई, सार्वजिनक स्वास्थ्य, अग्नि सुरक्षा या सिविल अभियंत्रण में प्रशिक्षण/प्रतिनियुक्ति सविध सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 1 2 3 3 4 5 31. स्टाफ कार चालक (ग्रेड-I) किन्छ प्रबन्धन स्तर् गैर ते हैंड-1 गैर चयन 5200- 20,200 ग्रेड पे. 2800 6 7 8 9 10 लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं नियमित सेवा वाले स्टाफ कार चालकों (ग्रेड-II) प्रान्नीत द्वारा बशर्ते वे बोर्ड द्वारा आयोजित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण कर ले। (2)(1)द्वारा निर्धारत
सफाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अग्नि सुरक्षा या सिविल अभियंत्रण में प्रशिक्षण/प्रतिनियुक्ति सवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 1 2 3 3 4 5 31. स्टाफ कार चालक (ग्रेड-1) किन्छ प्रबन्धन स्तर् गैर पे. बँड-1 गैर चयन 5200-20,200 प्रेड पे. 2800 9 6 7 8 9 10 लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं वाले स्टाफ कार चालकों (ग्रेड-11) प्रान्नीत द्वारा बशर्ते वे बोर्ड द्वारा आयोजित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण कर ले। (2)(1)द्वारा निर्धारत
स्वास्थ्य,अस्मि सुरक्षा या सिविल अभियंत्रण में प्रशिक्षण/प्रतिनियुक्ति सविध सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 1 2 3 4 5 31. स्टाफ कार चालक (ग्रेड-1) किन्छ प्रबन्धन स्तर गैर पे.बँड-1 5200-20,200 ग्रेड पे. 2800 6 7 8 8 9 10 लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं वाले स्टाफ कार चालकों (ग्रेड-11) प्रान्नीत द्वारा अधिकारी-सदस्य 3. अनुसूचित जाति/ जनजाति का एक वाह्य अधिकारी-सदस्य (वाह्य अधिकारी-सदस्य उत्तीर्ण कर ले । (२)(1)द्वारा निर्धारत
सिविल अभियंत्रण में प्रशिक्षण/प्रतिनियुक्ति सविध सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नही होगी । 1 2 3 4 5 31. स्टाफ कार चालक (ग्रेड-1) किन्छ प्रबन्धन स्तर् गैर पे.बँड-1 कैर चयन (ग्रेड-1) किन्छ प्रबन्धन स्तर् गैर चयन (ग्रेड-1) किन्छ प्रवन्धन स्तर् गेर चयन (ग्रेड-1) किन्छ पे. च्राल्च पे. च्राल्च पे. च्राल्च किन्यमित सेवा वाले स्टाफ कार चालकों (ग्रेड-11) प्रान्नीत द्वारा ब्राल्च वे बोर्ड द्वारा आयोजित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण कर ले । (२)(1)द्वारा निर्धारत निर्धारत स्तरस्य
प्रशिक्षण/प्रतिनियुक्ति सर्विध सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नही होगी । 1 2 3 4 5 31. स्टाफ कार चालक (ग्रेड-1) 1
सविध सामान्यतः ३ वर्ष से अधिक नहीं होगी । 1 2 3 4 5 31. स्टाफ कार चालक (ग्रेड-1) 11 कनिष्ठ प्रबन्धन स्तर् गैर पे.बँड-1 रिट00-20,200 ग्रेड पे. 2800 6 7 8 लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं ग्रेड-गर्भानेति द्वारा प्रोन्नीति द्वारा अधिकारी-सदस्य 3. अनुसूचित जाति/ जनजाति का एक वाह्य अधिकारी-सदस्य अध्यकारी-सदस्य अध्यक्य अध्यकारी-सदस्य अध्यक्य अध्यक्य अध्यक्य अध्यकारी-सदस्य अध्यकारी-सदस्य अध्यक
से अधिक नहीं होगी
1 2 3 4 5 31. स्टाफ कार चालक (ग्रेड-1) 11 किन्छ प्रबन्धन स्तर गैर पे. बैंड-1 5200-20,200 20,200 ग्रेड पे. 2800 5200-20,200 ग्रेड पे. 2800 6 7 8 9 10 लागू नही लागू नही लागू नही लागू नही लागू नही लागू नही 11 12 13 14 लागू नही लागू नही 2. सचिव-सदस्य 3. अनुसूचित जाति/ जनजाति का एक वाह्य अधिकारी-सदस्य लागू नही लागू नही लागू नही पक वाह्य अधिकारी-सदस्य 3 अनुसूचित जाति/ जनजाति का एक वाह्य अधिकारी-सदस्य उत्तर्ण कर ले । (2)(1)द्वारा निर्धारत विवार निर्धारत् वाह्य अधिकारी-सदस्य
1
31. स्टाफ कार चालक (ग्रेड-I) 11 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 14 11 12 13 14 14 11 12 13 14 14 11 12 13 14 14 11 12 13 14 14 14 15 16 17 18 18 19 10 11 10 11 12 13 14 14 15 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18
(ग्रेड-I) तिकनाका 20,200 ग्रेड पे. 2800 6 7 8 लागू नही लागू नही लागू नही तागू नही तागू नही तागू नही तागू नही तागू नही तागू नही 11 12 13 14 तागू नही ग्रोन्नीत द्वारा प्रोन्नीत द्वारा प्रोन्नीत द्वारा प्रोन्नीत द्वारा प्रोन्नीत द्वारा प्रोन्नीत द्वारा ग्रोग्ड-II) प्रान्नीत द्वारा त्वार्गे वे बोर्ड द्वारा आयोजित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण कर ले । (2) (1) द्वारा निर्धारत
क्रीड पे. 2800 9 10 10 10 10 10 10 1
2800 9 10 10
6 7 8 9 10 लागू नही लागू नही लागू नही लागू नही लागू नही 11 12 13 14 प्रोन्नीत द्वारा प्रोन्नीत:1. 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले स्टाफ कार चालकों (ग्रेड-II) प्रान्नीत द्वारा बशर्ते वे बोर्ड द्वारा आयोजित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण कर ले । 2. सिचव-सदस्य लागू नही 3. अनुसूचित जाति/ जनजाति का एक वाह्य अधिकारी-सदस्य एक वाह्य अधिकारी-सदस्य
6 7 8 लागू नही लागू नही लागू नही लागू नही 11 12 13 14 प्रोन्नीत द्वारा प्रोन्नीत:1. 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले स्टाफ कार चालकों (ग्रेड-II) प्रान्नीत द्वारा बशर्त वे बोर्ड द्वारा आयोजित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण कर ले । 3. अनुसूचित जाित/ जनजाित का एक वाह्य अधिकारी-सदस्य
लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं नियं वाले स्टाफ कार चालकों (ग्रेड-II) प्रान्नीत द्वारा अयोजित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण कर ले। (2)(1)द्वारा निर्धारत
11 12 13 14 11 प्रोन्नीत:1. 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले स्टाफ कार चालकों (ग्रेड-II) प्रान्नीत द्वारा बशर्ते वे बोर्ड द्वारा आयोजित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण कर ले। (2)(1)द्वारा निर्धारत
प्रोन्नीत द्वारा प्रोन्नीत:1. 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले स्टाफ कार चालकों (ग्रेड-II) प्रान्नीत द्वारा बशर्ते वे बोर्ड द्वारा आयोजित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण कर ले। (2)(1)द्वारा निर्धारत
प्रोन्नीत द्वारा नियमित सेवा वाले स्टाफ कार चालकों (ग्रेड-II) प्रान्नीत द्वारा बशर्ते वे बोर्ड द्वारा आयोजित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण कर ले। (2)(1)द्वारा निर्धारत
स्टाफ कार चालकों 3. अनुसूचित जाति/ जनजात का (ग्रेड-II) प्रान्नीत द्वारा वशर्ते वे बोर्ड द्वारा आयोजित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण कर ले। (2)(1)द्वारा निर्धारत
(ग्रेड-II) प्रान्नीत द्वारा बशर्ते वे बोर्ड द्वारा आयोजित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण कर ले । (2)(1)द्वारा निर्धारत
बशर्ते वे बोर्ड द्वारा आयोजित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण कर ले । (2)(1)द्वारा निर्धारत
बशर्ते वे बोर्ड द्वारा आयोजित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण कर ले । (2)(1)द्वारा निर्धारत
उत्तीर्ण कर ले । (2)(1)द्वारा निर्धारत
उत्तीर्ण कर ले । (2)(1)द्वारा निर्धारत
(2)(1)द्वारा निर्धारत
संख्या में रिक्ति पूर्ति न
होने पर 13 वर्ष की
नियमित सेवा वाले वे
स्टाफ कार चालक
(साधारण ग्रेड)जो बोर्ड
द्वारा आयोजित द्रेड
परीक्षा उत्तीर्ण कर ले,
प्रोन्नीत किए जा कसते
<u> </u>
3 4 5
किनिष्ठ प्रबन्धन स्तर गैर पे.बैंड-1 गैर चयन
32. स्टाफ कार यालक 10 तकनीकी 5200-
(ग्रेड-II) 20,200
ग्रेड पे.
2400

6	7	8	9	10
लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
11	12	13	14	
प्रोन्नीत द्वारा	वाले उन स्टाफ का		लागू नही	
	यालक सावारण ग्रंड के से जो बोर्ड द्वार आयोजित ट्रेड परीक्ष उत्तीर्ण कर ले ।	र्वे 3. अनुसूचित जाति/ जनजाति क एक वाह्य अधिकारी-सदस्य		
1	2	3	4	5
33. विशेष ग्रेड चालक	1	मध्य प्रबन्धन स्तर गैर तकनीकी	पे.बैंड-2 9300- 34,800 ग्रेड पे.	गैर चयन
6	7	8	9	10
लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
11	12	13	14	
प्रोन्नीत द्वारा	वाले उन स्टाफ कार चालकों (ग्रेड-I)- में	 कार्यकारी निदेशक-अध्यक्ष सचिव-सदस्य अनुसूचित जाति/ जनजाति का एक वाह्य अधिकारी-सदस्य 	लागू नही	
1	2	3	4	5
34. आशुलिपिक (ग्रेड-I)	1	मध्य प्रबन्धन स्तर गैर तकनीकी	पे.बैंड-2 9300- 34,800 ग्रेड पे. 4200	गैर चयन
6	7	8	9	10
लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
11	12		14	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
प्रोन्नीत द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	नियमित सेवा वाले आशुलिपिक (ग्रेड- II)	1. अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. कार्यकारी निदेशक-सदस्य 3. अनुसूचित जाति/ जनजाति का एक वाह्य अधिकारी-सदस्य	लागू नही	

			
(ii)(1)की अनुपलब्धता			
की स्थिति में ऐसे			
आश्लिपिक (ग्रेडII)में			
से, जिनकी आश्रुलिपिक			
ग्रेड-(II)एवं आशुलिपिक			
ग्रेड(III) में कुल सेवा			
१८(111) म कुल सपा			
प्रतिनियुक्तिः केन्द्र/राज्य			
. •			
सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों के उन			ı
अधिकारियों में से जो			
पे.बैंड 2 में 9300-			
''			
34,800 स्केल में 4200	,		
ग्रेड पे.के साथ 5 वर्ष			
का अनुभव रखते हो		İ	
अथवा सदृश्य पद पर 3	·		
वर्ष का कार्यानुभव रखते			
हों । (प्रतिनियुक्ति की			
अवधि 3 वर्ष से अधिक			
नहीं होगी)		ļ	ļ

असित त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

[विज्ञापन []]/4/असाः/153/12]

नोट: (I) आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग लाहल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पांगी उप प्रभाग एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों को प्रदान की गई आवेदन पत्र की अंतिम प्राप्ति की अंतिम तिथि आयु निर्धारण के लिए विचारणीय नहीं होगी।

(II) रोजगार कार्यालयों द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों हेतु आयु निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख वह तरीख होगी जिस दिन तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजेने को कहा जाएगा ।

TOBACCO BOARD, GUNTUR MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2013

No. 2/5/2011-EP (Agri.-VI).— In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 read with sub-sections (1) and (2) of section 33 of the Tobacco Board Act, 1975, (4 of 1975) and in supersession of the Tobacco Board (Recruitment) Regulations, 2002, published in the Gazette of India, Part III – Section 4, vide No. 8 (4)/ 98-EP (Agri.VI) dated the 19th September, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such

supersession the Tobacco Board hereby makes the following Regulations, the same having been approved by the Central Government as required by subsection (3) of section 33 of the said Act, namely:-

- 1. Short title and commencement:- These 'Regulations' may be called the Tobacco Board (Recruitment) Regulations, 2013.
- 2. They shall come in to force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 1. Definitions: In these Regulations, unless the context otherwise requires:-
 - (a) "Board" means the Tobacco Board established under Section 4 of the Tobacco Board Act, 1975.
 - (b) "Board's employees" means any person employed under the Board other than the Chairman appointed under clause (a) of subsection 4 of section 4, the Executive Director appointed under sub-section 1 of section 6, and Secretary appointed under subsection 2 of section 6, of the Tobacco Board Act, 1975 and the Officers on deputation to the Board.
 - [c] "Pay" means the pay as defined under the Fundamental Rules and Supplementary Rules of the Central Government.

[d] Classification of posts :-

- (i) Senior Level Management: All posts carrying a pay or a pay band with a maximum of Rs. 39,100/- and above.
- Middle Level Management: All posts carrying a pay or a pay and with a maximum of Rs. 34,800/- and above up to Rs.39, 099/-.
 - (iii) Junior Level Management: All posts carrying a pay or a pay band with a maximum of Rs. 20,200/-.
- [e] "Appointing Authority" in relation to a Board's employee means the authority empowered to make appointment to the posts as detailed below namely:-
- Chairman: (i) For posts under 'Senior Level Management' other than key posts identified in prior consultation with the Government, the maximum of scale of pay of which does not exceed Rs.39,100/- per mensem in the case of non technical and

879 GI/13-9

Rs.39,100/-per mensem in the case of technical and for posts the maximum of scale of pay of which exceeds Rs.39,100/- per mensem in the case of non technical and Rs.39,100/- per mensem in the case of technical, with the approval of the Board.

(ii) For posts under 'Middle Level Management'

Executive Director:- For posts under 'Junior Level Management'; subject to the overall authority of the Chairman.

- [f]"Schedule" means the Schedule to these Regulations.
- [g] "Service" means the service under the Tobacco Board.
- [h] "Direct Recruitment" means recruitment by calling the candidates from Employment Exchange / inviting applications through advertisement / entertaining applications from the eligible Board's employees:

Provided that a written test may be prescribed wherever deemed necessary by the Chairman as part of the process of direct recruitment. The Board's employees, if recruited will be treated as direct recruits for the purposes of recruitment and will be governed by the Central Government rules regarding counting of past service.

- [i] "Deputation" means borrowing the services of employees of Central Government or State Governments or Public Sector Undertakings or Autonomous bodies etc.
- [j] "Government" means the Central Government.
- 3. **Application** These Regulations shall apply to all the posts in the Tobacco Board mentioned in the schedule to the regulations except that of the Chairman, Executive Director, Secretary and any other post specified by Central Government.
- 4. **Initial constitution** All the persons holding the posts specified in the schedule aforesaid on regular basis, on the date of commencement of these regulations, shall be treated to have been appointed under these regulations and the continuous service rendered by them so far, shall be counted for the purpose of seniority in the respective grades.
- 5. **Disqualifications:** No person -
 - (i) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (ii) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any persons, shall be eligible for appointment to the service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. **Seniority-** Seniority of a Board's employee in any grade shall be determined in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time.
- 7. Seniors being considered by Departmental Promotion CommitteeIn cases where a junior who has completed the eligibility service
 prescribed for promotion is being considered by the Departmental
 Promotion Committee, all officers senior to him in the grade shall also be
 considered notwithstanding the fact that they have not put in the
 requisite service, subject however to the condition that they have
 satisfactorily completed the probation, if any, prescribed in the grade
 and are clear from the vigilance angle.
- 8. **Period of probation-** A person appointed to a post by direct recruitment or by promotion shall be on probation for the period indicated in the schedule:

Provided that the Appointing Authority may extend the period of probation for such period as it deems fit for reasons to be recorded in the order directing the extension.

9. Termination or completion of probation:

- (1) The Appointing Authority may extend the period of probation of a probationer, if his/her work or conduct in that post is found to be unsatisfactory. The Appointing Authority may terminate the person appointed by direct recruitment to a post other than key posts identified with prior consultation with Central Government or revert a Board's employee appointed to a post by promotion to his / her previous post during or at the end of extended period of probation, if his/ her work or conduct in that post is found to be unsatisfactory even after the completion of extended period of probation.
- (2) If the work and conduct of a person appointed by direct recruitment is found to be satisfactory during the period of the prescribed probation or extended period of probation, the Appointing Authority shall, as soon as the Prescribed period of probation is over, or during the extended period of probation or after its completion, as the case may be, declare that he/she has completed his / her probation satisfactorily and confirm him/her to the post, other than key posts identified with prior consultation with the Central Government.
- 10. **Medical certificate of fitness** A Medical certificate of fitness from the Medical Officer of the rank of Civil Surgeon for Senior Level Management and Middle Level Management posts and Assistant Civil Surgeon for Junior Level Management posts shall be required from every person at the time of his entry into service.

- 11. **Pension Benefits** The employees of the Board shall be entitled to pension and retirement benefits as per the Central Government Rules as amended from time to time.
- 12. Reservations, Relaxations etc., in respect of certain categories of persons Nothing in these Regulations shall effect reservations, relaxations, of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.
- 13. Constitution of Departmental Promotion Committees The Chairman shall constitute Departmental Promotion Committees for various categories of employees of the Board as per schedules or guidelines issued by the Central Government from time to time.
- 14. Other conditions of service The conditions of service of the employees of the Board in respect of matters for which no provision is made in these regulations shall be the same as are applicable to the employees of the central Government of corresponding category. However the upper age limit for entry into the service of the Board shall be as per in the Schedule and the lower age limit shall be eighteen years. So far as conduct and disciplinary matters are concerned the Board's employees shall be governed by the Central Civil Service (Conduct) Rules, 1964 and Central Civil Services (Classification Control and Appeal) Rules, 1965 respectively as amended from time to time.
- 15. **Creation of posts** Subject to the provisions of sub-section 4 of section 6 of the Tobacco Board Act, 1975, read with regulation 15 of the Tobacco Board (General) Regulation, 1984 and the Delegation of Financial Powers Rules of the Central Government, as amended from time to time, the Board or the Chairman shall be competent to create posts.
- 16. **General** The employees of the Board shall be subject to all the provisions of the Tobacco Board Act, 1975 and the Rules and Regulations made there under in so far as they relate to conditions of their service and such other conditions as may be imposed by the Board or the Central Government from time to time.
- 17. **Power to Relax:** Where the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, for reasons to be recorded in writing and after obtaining the approval of the Central Government relax any of the provisions of these Regulations with respect to any class or category of persons.

TOBACCO BOARD :: GUNTUR TOBACCO BOARD (RECRUITMENT) REGULATIONS, 2013 SCHEDULE

						•
Name of the Post	No. of Posts	Classifi	Down Down	7		
	7. 1. 000	cation		Whether		Age limit f
	İ	cauon	- Jour and	selection		direct recrui
†			Grade Pay	post or	added years o	of
		1	,	non	service	
•		}		Selection	admissible	
	1			Post	under rule 30	_s)
				1	of the C.C.S.	1
ļ		1	1	1	(Pension)	ŀ
1		 	 		Rules, 1972	
1. Regional Manager	2	3	4	5	6	7
Promer manager	8	Senior	Pay Band: 3;	Selection	Not	Not
	ł	Level	Scale		Applicable	1
	j	Managem	Rs.15600-		· · ibbricable	exceeding
}		ent,	39100:			forty Years
1		Technical	Grade Pay:	ļ		
[•	Rs.6,600			
Educational and other	nolificati				ł	
Educational and other q	ualifications req	uired for	Whether a	ge and	Period of Proba	tion if any
an ecc 1	ceruits		educatio	nal		on it dily
			qualificat			
		ļ	prescribed for	r direct		
			recruits will a	apply in		v.
			case of pror	notee.		
8						
Essentials:		ļ	9	ĺ		
				1	10	
M.Sc.(Ag) Five years experience	ence in Prod		Age : No Qualification: N	lo	Two Ye	
2) Five years experied attention, Marketing attention, Marketing attended	tobacco and the years not less in a response	duction, esearch cobacco is than consible	Age : No Qualification: N	n / hich ex	If a DPC Cists what is its UI	rcumstance s in which PSC is to be onsulted in
2) Five years experience experience extension, Marketing and conducting auctions of products. Out of, these find the experience years should be supervisory capacity. Method of recruitment whether by direct ecruitment or deputation transfer and percentage of the vacancies to be filed by various	nd Market Retobacco and to the years not less in a response in a respons	duction, esearch cobacco is than consible	Age : No Qualification: N	n / hich ex	If a DPC cists what is its omposition co	rcumstance s in which PSC is to be onsulted in making
1) M.Sc.(Ag) 2) Five years experied attension, Marketing attension, Marketing attended and actions of products. Out of, these find the expers should be approximately. Method of recruitment whether by direct ecruitment or deputation transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods	nd Market Retobacco and to the years not less in a response in a respons	duction, esearch cobacco is than consible	Age : No Qualification: N	n / hich ex	If a DPC cists what is its omposition co	rcumstance s in which PSC is to be onsulted in
2) Five years experied Extension, Marketing at conducting auctions of products. Out of, these finds three years should be supervisory capacity. Method of recruitment whether by direct ecruitment or deputation transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11	nd Market Re tobacco and to we years not les in a respect In case of deputation promotions / de	duction, esearch cobacco is than consible	Age: No Qualification: N	n / hich ex	If a DPC Cists what is its omposition co	rcumstance s in which PSC is to be onsulted in making ccruitment
2) Five years experied Extension, Marketing at conducting auctions of products. Out of, these finds three years should be supervisory capacity. Method of recruitment whether by direct ecruitment or deputation transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11 Promotion failing	nd Market Re tobacco and to we years not les in a response In case of a deputation promotions / de	duction, esearch cobacco is than consible recruitment transfer eputation	Age: No Qualification: No nt by promotion grades from wi / transfer to be	n / hich exe made.	If a DPC cists what is its omposition re	rcumstance s in which PSC is to be onsulted in making ecruitment
2) Five years experied attension, Marketing attension, Marketing attended and conducting auctions of products. Out of, these five five years should be upervisory capacity. Method of recruitment whether by direct ecruitment or deputation transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11 Promotion failing in the production of the promotion case of deputation promotions / de	duction, esearch cobacco is than consible recruitment transfer eputation	Age: No Qualification: No nt by promotion grades from will / transfer to be	n / hich e made.	If a DPC cists what is its omposition confidence of the confidence	rcumstances in which PSC is to be onsulted in making ecruitment	
2) Five years experied Extension, Marketing at conducting auctions of products. Out of, these fix here years should be upervisory capacity. Method of recruitment whether by direct ecruitment or deputation transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11 Promotion failing linch by deputation ling both by direct	In case of deputation promotions / de	huction, esearch cobacco is than consible recruitment transfer eputation	Age: No Qualification: No nt by promotion grades from wide / transfer to be Grading Officer e in the post	hich exade.	If a DPC cists what is its omposition re 13 Chairman – Not App	rcumstance is in which PSC is to be consulted in making eccruitment
2) Five years experied attension, Marketing attension, Marketing attended and conducting auctions of products. Out of, these five five years should be upervisory capacity. Method of recruitment whether by direct ecruitment or deputation transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11 Promotion failing in the production of the promotion case of deputation promotions / de Superintendent five years regu combined leng	duction, esearch cobacco is than consible recruitment transfer eputation 12 n: t/Senior (lar serviceth of se	Age: No Qualification: No nt by promotion grades from wi / transfer to be An Grading Officer e in the post.	hich exe made. Iction 1.0 with C The 2.E	If a DPC cists what is its UI omposition recomposition rec	rcumstances in which PSC is to be onsulted in making ecruitment	
2) Five years experied Extension, Marketing at conducting auctions of products. Out of, these fix here years should be upervisory capacity. Method of recruitment whether by direct ecruitment or deputation transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11 Promotion failing linch by deputation ling both by direct	In case of deputation promotions / de Superintendent five years regu combined leng Auction Superintendent five years regu combined leng Auction Superintendent five years regulary five ye	duction, esearch cobacco is than consible recruitment transfer eputation 12 in: t/Senior (lar service) the of senitendent	Age: No Qualification: No Purple of the promotion of the promotion of the post. All Grading Officer of the post. The post of the post of the post of the post. The post of the post of the post of the post. The post of t	hich exe made. Iction 1.0 with 0.1 The 2.E as as	If a DPC cists what is its omposition composition recomposition labeled and the composition of the compositi	rcumstances in which PSC is to be onsulted in making ecruitment
2) Five years experied Extension, Marketing at conducting auctions of products. Out of, these fix here years should be upervisory capacity. Method of recruitment whether by direct ecruitment or deputation transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11 Promotion failing linch by deputation ling both by direct	In case of deputation promotions / de Superintendent five years regu combined leng Auction Superintendent five years regu combined leng Auction Superintendent five years regulary five ye	duction, esearch cobacco is than consible recruitment transfer eputation 12 in: t/Senior (lar service) the of senitendent	Age: No Qualification: No Purple of the promotion of the promotion of the post. All Grading Officer of the post. The post of the post of the post of the post. The post of the post of the post of the post. The post of t	n / hich exade. Iction 1.Co with C The 2.E e as D ading M	If a DPC cists what is its omposition composition recomposition composition recomposition and the composition composition recomposition recomp	rcumstances in which PSC is to be onsulted in making ecruitment
2) Five years experied Extension, Marketing at conducting auctions of products. Out of, these fix here years should be upervisory capacity. Method of recruitment whether by direct ecruitment or deputation transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11 Promotion failing linch by deputation ling both by direct	In case of deputation promotions / de Superintendent five years not les in a response	duction, esearch cobacco is than consible recruitment transfer eputation to lar service the of sentendent ecount	Age: No Qualification: No Audification:	n / hich exe made. contaction 1.00 with Contaction 2.E le as M the 3.T	If a DPC cists what is its omposition real to the composition of the c	rcumstances in which PSC is to be onsulted in making ecruitment
2) Five years experied attension, Marketing attension, Marketing attended and actions of products. Out of, these five years should be upervisory capacity. Method of recruitment whether by direct ecruitment or deputation transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11 Promotion failing in the by deputation ling both by direct cruitment.	In case of deputation promotions / de Superintendent five years regu combined leng Auction years regulation for will be seniority for	duction, esearch cobacco is than consible recruitment transfer eputation to lar service the of sentendent ecount	Age: No Qualification: No Audification:	n / hich exe e made. continuous 1.0 with 2.E ading M the 3.Ty gional O	If a DPC cists what is its omposition recomposition recomp	rcumstances in which PSC is to be onsulted in making ecruitment
2) Five years experied extension, Marketing at conducting auctions of croducts. Out of, these five years should be upervisory capacity. Method of recruitment whether by direct ecruitment or deputation transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11 Promotion failing in the properties of the vacancies are the conduction failing both by direct cruitment.	In case of deputation promotions / de Superintendent five years not les in a response	duction, esearch cobacco is than consible recruitment transfer eputation to lar service the of sentendent ecount	Age: No Qualification: No Audification:	hich exacts of the as ading the as adinal of the as adinal of the as adinal of the as adinal of the as adinal of the as adinal of the as adinal of the as adinal of the as adinal of the as adinal of the as adinal of the as adinal of the as adinal of the agents of the a	If a DPC cists what is its omposition real and the composition of the	rcumstances in which PSC is to be onsulted in making ecruitment

	Т	HE GAZETTE	OF INDIA: EXT	RAORDINA	ARY	[PART III—S
	St Av U w ca in h p	tate Governments autonomous indertakings ith five years arrying the pa a PB-3 with (aving qualifications	Officers under ment or Cer Bodies, Pub holding analog regular services y scale of Rs. 15 Grade Pay of Recation and the direct recruits tation not ordinal	olic Seconds posts in the posts, 5,600 -39, s.5,400/- experier in col. N	or belonging Scheduled Scheduled Scheduled Tribe – Member	to i
Name of the Post	No. of Posts	Classifi- cation	Pay Band, Scale and Grade Pay	post or	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
2. Manager (Finance & Accounts) Educational require	and other qued for direct re	,Non- Technical ralifications	Pay Band: 3; Scale Rs.15600- 39100; Grade Pay: Rs.6,600 Whether age educational qua prescribed for recruits will ap of promo	ge and alifications or direct ply in case	Not Applicable Period of Probati	Not applicable on if any
	8		9		10	
			No		Not App	licable
recruitment o	Not applicable cruitment who or deputation stage of the va- ed by various	ether by direct / transfer and acancies	In case of recr	eputation / des from lotions / ansfer to b	what is its composition	Circumstar ces in whice UPSC is to be consulted in making recruitmen
	11		12		13	14
Promotion fai	ling which by	deputation	3. Promot Manager (Acco	ion: Deput	y 1. Chairman – Chairman 2. Executive	Not Applicable

ł	be count to determine	belonging to	*
	the seniority for the	Scheduled	
	promotion to Manager	Caste/	1
	(Finance & Accounts)	Scheduled	[
		Tribe -	
	Deputation: By	Member	
	deputation of Audit/		- 1
	Accounts Officers from		1
	Indian Audit and Accounts		į
	department or Officers in		1
}	Accounts and Audit		f
ļ	holding analogous scale of	}	·
	pay from Central / State		
	Government / Public		[
	undertakings or Central /		
	State autonomous bodies		
	in regular service on		
	equivalent post or with	.	
	seven years service in Pay		
	Band: 3; Scale Rs.15600-		
	39100 with Grade Pay of		
	Rs.5,400. (Period of		ļ
	deputation normally not		}
	ordinarily exceeding three		
	years).		

Name of the Deat	37 65	T	1			2
Name of the Post	No. of Posts	Classifi-	1 -5 -5-10, 50000	Whether	Whether benefit	Age limi
		cation	and Grade Pay	selection	of added years of	for direct
			ļ	post or	service	recruits
				non	admissible under	
				Selection	rule 30 of the	
i				Post	C.C.S. (Pension)	
		1			Rules, 1972	
1	2	3	4	5	6	7
3. Manager	1	Senior	Pay Band: 3;	Not	Not Applicable	Not
(Trading Wing)		Level	Scale Rs.15600-		Not Applicable	exceeding
			39100; Grade Pay:	Фрисцые		forty years.
		ment,	Rs.6,600			iorty years.
		Non-	,			
		Technical				
Educational and of	her qualifications		Whatheres		Desired of D. 1. 41	••
for di	rect recruits	required			Period of Probation	n if any
101 41	rect rectuits	j	educational quali			
			prescribed for dire			
		ļ	will apply in c			
			promotes	•		
	8		9		10	
Essential:			No		Two Years	
 Master's Degree in 	Agricultural Econ	omics or			1 10 1001	J.
Commerce.]				
Five years expe	rience in domes	tic and)		
International Marketi	ng of Tobacco of	which at		1		
least three years ex	perience in a res	ponsible				
supervisory capacity.		-		i		

Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition	Circumsta nces in which UPSC is to be consulted in making recruitmen t
11	12	13	14
By Direct Recruitment	Not applicable	1. Chairman - Chairman 2. Executive Director - Member 3. Two outside Officers of the rank of Director of which one officer should belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe - Member	Not Applicable

Name of the Post	No. of Posts	Classifi- cation	Pay Band, Scale and Grade Pay	Whether selection	Whether benefit of added years of service	Age limit for direct recruits
				post or non Selection Post	admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	reciuits
1	2	3	4	5	6	7
	55 and other qual i for direct recr	Level Managem ent Grade, Technical fications	Pay Band: 3; Scale Rs.15600- 39100; Grade Pay: Rs.5,400 Whether age and qualifications publications point of promesage and prom	i educational rescribed for l apply in case	Not Applicable Period of Probation	Not applicable on if any
:	8		9		10	
, , ,	lot applicable		Not appl	icable	Not applic	eable
Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods		In case of recruitment by promotion / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made.		If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitmen	

11	12	13	14
Promotion failing which by Deputation	Promotion: From amongst	 	14
•	L		
	Assistants with eight years	- Chairman	Applicable
	regular service in the grade.		
	Deputation : Officers of the	Director -	
•	Central / State Governments,		
	Central / State Public Sector	,	
		Member	
	Bodies, holding.	4. One	
		outside Officer	
•	1.(i) Analogous posts on regular basis;	belonging to	
•	1 '	Scheduled	
	OR (iii) Part in the	Caste/	
	(ii) Post in the pay scale of Rs.	Scheduled	
	9300-34800 in PB-2 with	Tribe – Member	j
	Grade Pay of Rs.4,200/- or		
	equivalent with eight years	İ	·
	regular service in the grade;	. [
	2. Having experience in		j
	Production/Extension/		· .
	Marketing and Market Research		
	in tobacco or tobacco products		ŀ
	and conducting auctions of		. [
	tobacco.		.
	(Period of deputation shall	,	
	ordinarily not exceeding three years)		1

Mome -Cul - D +	T					
Name of the Post		Classifi- cation	Pay Band, Scale and Grade Pay	Whether selection post or non Selection Post	added years of service admissible under rule 30 of	direct recruit
1 5. Denuty	2	3	4	5	6	7
Manager (Accounts)		Non- Technica l	Pay Band: 3; Scale Rs.15600- 39100; Grade Pay: Rs.5,400	Selection	Not applicable	Not applicable
Educational and o	irect recruits	required	Whether educate qualific prescribed recruits will case of prescriben	tional ations for direct I apply in	Period of Probation	if any
	8		9		10	
Not	applicable		No		Not applic	able

—————————————————————————————————————	In case of recruitment	If a DPC exists	Circumstance
Method of recruitment whether by direct	by promotion /	what is its	s in which
recruitment or deputation / transfer and	by promotion / transfer	composition	UPSC is to be
percentage of the vacancies	deputation / transfer	composition	consulted in
to be filed by various methods	grades from which		making
	promotions /		recruitment
	deputation / transfer to		recrutations
	be made.		14
11	12	13	14
	Promotion:Superinten	1. Chairman -	Not Applicable
By Promotion failing which by deputation	dent /Accountant or	Chairman	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		2. Executive	
	its equivalent post with	Director -	
	regular service of at	Member	
	least eight years in		
	0101101	ì	
	cadre with grade pay of	4. One outside	
	Rs.4,200	Officer	į
	Deputation:By		
	deputation of Audit		
	Officers/ Accounts		
	Officers with five years		
	service in their grade		
	from Indian Audit and	Tribe - Member	
	Accounts		
	Departments.		
	OR		
	Officers in Accounts /	1	
	Audit holding	· [
	analogous scale of pay	1	1
	from Central / State		1
	Governments / Public		
	Undertakings		
	OR		
	Central / State		
	Autonomous Bodies.		
	(Period of deputation	l	
	normally not exceeding	g	
	three years l		

Name of the Post	No. of Post	s Classifi	- Pay Band, Scale	Whether	Whether benef	
	1	cation	J =,	selection		
1	ŀ			post or	of service	s direct recruits
				non	admissible	
				Selection		اء.
				Post	the C.C.S.	DI
				1030		_
					(Pension) Rules	5,
1	2	3	4	5	6	7
6. Assistant	33	Senior	Pay Band: 3;	0-1		
Manager(Accounts)		Level	Scale Rs.15600	Selection	Not applicable	Not applicable
			39100; Grade Pay:	1		
	i	ent Non-	Rs.5,400		!	
		Technical			1	
					1	
Educational and or	her qualific	ations	Whether age and	ducation of	Dowled - S.D. J. (1	
required for d	irect recruits	S	Whether age and equalifications pre	outational scribed for	premod of Probab	ion if any
			direct recruits wi	ll anniu in		1
			case of prom			1.447
8			9	iotes.	10	
Not app	licable		Not applica	hle		•
Method of recruitmen	it whether h	v direct			Not app	
recruitment or deputa	ation / trans	y uncci	In case of recruit	ment by		Circumstances
percentage of t	he vacancie	onci autu	promotion / depu	utation /		in which UPSC
to be filed by var	rious method	de	transfer grades fro	om which	composition	is to be
	ous memor	40	promotions / dep	utation /	e e	consulted in
			transfer to be	made.		making
11	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					recruitment
			12		13	14
By promotion failing w	nich by dep	utation	Promotion:		1. Chairman -	Not applicable
			Superintendent/Acco	ountant or		
		ļ.	ts equivalent post w	ith regular	Chairman	
		je hi	service of at least e	ignt years	2. Executive	+
		10	n either or combine with grade pay of Rs.	4 200	Director -	1
		ir	Deputation:	· 1	Member	
		lo lo	of the Centr		3. Secretary -	
		İG	overnments. Centra	al / State	Member	
		P	Sovernments, Central Tublic Sector Und	dertakings	. One outside	.
		a	nd Autonomous	Rodies	officer	
			olding-	ļc	pelonging to	
mat.		1	. (i) Analogous p	rvata ulii	Scheduled	
			regular basis,		Caste/	<u> </u>
			OR		cheduled	1.
•			(ii) Post in the pa		ribe- Member	
	•	.	Rs.9300-34800	in PB-2	1	
			with Grade	Pay of	1	Ī
		1	Rs.4,200/- or e	quivalent		ĺ
			with eight years		į	
		_	service in the grade		ľ	ļ
		2.			ļ	1
			dministration, Estat			
			nd Accounts matters		ſ	
		(F	eriod of deputated in the deputated in the deputation of the deput and deput and deput are deput at the deput	ion not		
,	·	ŊI	unianny exceed infe	e years)	· .	

Name of the Post No. of Posts Classifi Pay Band, Scale cation and Grade Pay selection post or non Section Post of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972 1 2 3 4 5 6 7 Statistical Officer. 1 Senior Level Classifi Pay Band: 3; Selection Post of Post of Age limit for direct recruits Selection Post of Age Imi	<u></u>						
Cation C	No. Cabo Dook	No of Doots	Clossifi	Poy Bond Scale	Whether	Whether benefit	Age limit for
Post or adulation Post of promotion Post	Name of the Post	No. of Posts				_1	
The company of the	•		Cation	and Grade ray		•	
Selection Post C.C.S. (Pension) Rules, 1972 7	:	•			•		
Post C. C. S. (Pension) Rules, 1972 7 Pay Band: 3; Selection Rules, 1972 To applicable Pay Ra. 15600-Mariage						*	
1 2 3 4 5 6 7 Statistical Officer. Biducational and other qualifications required for direct recruits all statistics as one of the subject. Desirable: Three years experience in collection and analysis of statistical Degree in Statistics or Mathematics/ Commercial Economics with Statistical Institute, Calcutta or Indian Agricultural Statistical Research Institute, Nev Dethi Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11 By promotion failing which by direct recruitment By promotion failing which by direct recruitment of the promotion failing which by direct recruitment or deputation / transfer to be made. 11 By promotion failing which by direct recruitment by making recruitment investigator with cight years regular service in the grade. 11 By promotion failing which by direct recruitment by making recruitment by making recruitment of the promotion of the promot						C.C.S. (Pension)	
Statistical Officer. 1 Senior Level Manage 39100; Grade ment, Technic al ment, Techni						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Statistical Officer. 1 Senior Level Manage 39100; Grade ment, required for direct recruits Pay. Rs. 5,400 Sale Rs. 15600 Sale Rs. 15600 Sale Rs. 15600 Pay. Rs. 5,400 Pay. Rs. 5,400 Pay. Rs. 5,400 Period of Probation if any educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotee. 9 10	1	2	3	4	5	6	7
Scale Rs.15600- Solid Rs.1			+	Pay Band: 3:	Selection	Not applicable	Not exceeding
Rducational and other qualifications required for direct recruits Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotee. 8	·	•	1				thirty five years.
Bducational and other qualifications required for direct recruits will apply in case of promotee. 8		•	Manage				
Bducational and other qualifications required for direct recruits Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotee. 9	·			7			
Reducational and other qualifications required for direct recruits will apply in case of promotee. 8 9 Two years Age: No Qualification: No Bestrable: Three years experience in collection and analysis of statistical Institute, Calcetta or Indian Agricultural Statistics Research Institute, New Delhi Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11 By promotion failing which by direct recruitment Promotion: Senior Investigator with eight years regular service in the grade. 12 13 14 Not applicable Caste/ Scheduled Caste/ Scheduled Tribe —	f		l .				
required for direct recruits educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotee. 8 9 10 Two years Age: No Qualification: No Mathematics/ Commercial Economics with Statistics as one of the subject. Destrable: Three years experience in collection and analysis of statistical data. Preference will be given to those possessing Diploma from Indian Statistical Institute, Calcutta or Indian Agricultural Statistics Research Institute, New Delhi Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11 By promotion failing which by direct recruitment 11 By promotion failing which by direct recruitment 12 13 14 Not applicable Chairman - Chairman - Chairman - Chairman - Chairman - Chairman - Secretary - Member - 4. One outside Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Caste/ Scheduled Tribe -	:		aı				
required for direct recruits educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotee. 8 9 10 Two years Age: No Qualification: No Mathematics/ Commercial Economics with Statistics as one of the subject. Destrable: Three years experience in collection and analysis of statistical data. Preference will be given to those possessing Diploma from Indian Statistical Institute, Calcutta or Indian Agricultural Statistics Research Institute, New Delhi Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11 By promotion failing which by direct recruitment 11 By promotion failing which by direct recruitment 12 13 14 Not applicable Chairman - Chairman - Chairman - Chairman - Chairman - Chairman - Secretary - Member - 4. One outside Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Caste/ Scheduled Tribe -	Educational and	d other qualificat	ions	Whether ag	e and	Period of Probatio	n if any
prescribed for direct recruits will apply in case of promotee. 8 9 10 Essential: 1. Post Graduate Degree in Statistics or Mathematics/ Commercial Economics with Statistics as one of the subject. Destrable: Three years experience in collection and analysis of statistical data. Preference will be given to those possessing Diploma from Indian Statistical Institute, Calcutta or Indian Agricultural Statistics Research Institute, New Delhi Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11 1 12 13 14 By promotion failing which by direct recruitment Promotion: Senior Investigator with eight years regular service in the grade. 12 13 14 Not applicable Caste/ Scheduled Caste/ Scheduled Tribe —							Ÿ
Resential: 1. Post Graduate Degree in Statistics or Mathématics/ Commercial Economics with Statistics as one of the subject. Destrable: Three years experience in collection and analysis of statistical data. Preference will be given to those possessing Diploma from Indian Statistical Institute, Calcutta or Indian Agricultural Statistical Institute, Calcutta or Indian Agricultural Statistical Institute, Calcutta or Indian Agricultural Statistical Institute, Promotion / deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods The percentage of the vacancies to be filed by various methods 11 12 13 14 By promotion failing which by direct recruitment Promotion: Senior I. Chairman - Chairma	, cquireu io	. wilder root and					. ,
BESSENTIAL: 1. Post Graduate Degree in Statistics or Mathematics/ Commercial Economics with Statistics as one of the subject. Desirable: Three years experience in collection and analysis of statistical data. Preference will be given to those possessing Diploma from Indian Statistical Institute, Calcutta or Indian Agricultural Statistics Research Institute, New Delhi Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11 12 13 14 Not applicable Craited Promotion: In case of recruitment by promotion / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made. 11 12 13 14 Not applicable Craited One outside Officer belonging to Scheduled Craste/ Scheduled Tribe —		· . •		_ <u> </u>			
Essential: 1. Post Graduate Degree in Statistics or Mathematics/ Commercial Economics with Statistics as one of the subject. Destrable: Three years experience in collection and analysis of statistical data. Preference will be given to those possessing Diploma from Indian Statistical Institute, Calcutta or Indian Agricultural Statistics Research Institute, New Delhi Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11 By promotion failing which by direct recruitment 12 13 14 Promotion: Senior Inchairman - Chairman					-		
1. Post Graduate Degree in Statistics or Mathematics/ Commercial Economics with Statistics as one of the subject. Destrable: Three years experience in collection and analysis of statistical data. Preference will be given to those possessing Diploma from Indian Statistical Institute, Calcutta or Indian Agricultural Statistics Research Institute, New Delhi Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11		8		9		10)
Post Graduate Degree in Statistics or Mathématics/ Commercial Economics with Statistics as one of the subject. Destrable: Three years experience in collection and analysis of statistical data. Preference will be given to those possessing Diploma from Indian Statistical Institute, Calcutta or Indian Agricultural Statistics Research Institute, New Delhi Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods In case of recruitment by promotion / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made. In case of recruitment by promotion / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made. In case of recruitment In case of re	Essential:			Age: No		Two y	ears
Mathematics / Commercial Economics with Statistics as one of the subject. Desirable: Three years experience in collection and analysis of statistical data. Preference will be given to those possessing Diploma from Indian Statistical Institute, Calcutta or Indian Agricultural Statistics Research Institute, New Delhi Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11		Degree in Stati	stics or				<u> </u>
Desirable: Three years experience in collection and analysis of statistical data. Preference will be given to those possessing Diploma from Indian Statistical Institute, Calcutta or Indian Agricultural Statistics Research Institute, New Delhi Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11	Mathematics/ Comr	nercial Economic	s with				
and analysis of statistical data. Preference will be given to those possessing Diploma from Indian Statistical Institute, Calcutta or Indian Agricultural Statistics Research Institute, New Delhi Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods In case of recruitment by promotion / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made. In case of recruitment In case of recruitment In case of recruitment In case of recruitment In case of recruitment In case of recruitment If a DPC exists what is its composition is to be consulted in making recruitment In case of recruitment In case of recruitment If a DPC exists what is its composition In case of recruitment If a DPC exists what is its composition In case of recruitment If a DPC exists what is its composition In case of recruitment In case of recruitment If a DPC exists what is its composition In case of recruitment If a DPC exists what is its composition In case of recruitment If a DPC exists what is its composition In case of recruitment If a DPC exists what is its composition In case of recruitment In case of recruitment If a DPC exists what is its composition In case of recruitment If a DPC exists what is its composition In case of recruitment In case of recru	Statistics as one of the	e subject.					ŀ
and analysis of statistical data. Preference will be given to those possessing Diploma from Indian Statistical Institute, Calcutta or Indian Agricultural Statistics Research Institute, New Delhi Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods In case of recruitment by promotion / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made. In case of recruitment In case of recruitment In case of recruitment In case of recruitment In case of recruitment In case of recruitment If a DPC exists what is its composition is to be consulted in making recruitment In case of recruitment In case of recruitment If a DPC exists what is its composition In case of recruitment If a DPC exists what is its composition In case of recruitment If a DPC exists what is its composition In case of recruitment In case of recruitment If a DPC exists what is its composition In case of recruitment If a DPC exists what is its composition In case of recruitment If a DPC exists what is its composition In case of recruitment If a DPC exists what is its composition In case of recruitment In case of recruitment If a DPC exists what is its composition In case of recruitment If a DPC exists what is its composition In case of recruitment In case of recru		· .	11 .41				
be given to those possessing Diploma from Indian Statistical Institute, Calcutta or Indian Agricultural Statistical Research Institute, New Dethi Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods In case of recruitment by promotion / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made. In case of recruitment If a DPC exists what is its composition If a DP	Desirable: Three year	rs experience in c	onection				
Indian Statistical Institute, Calcutta or Indian Agricultural Statistics Research Institute, New Delhi Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11	and analysis of statis	sucai data. Prefer nossessing Dinlor	na from				
Agricultural Statistics Research Institute, Delhi Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods In case of recruitment by promotion / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made.							
Delhi							
recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11 By promotion failing which by direct recruitment Promotion: Not applicable Caste Scheduled Caste Scheduled Tribe Scheduled Scheduled Tribe Scheduled Tribe Scheduled Scheduled Tribe Scheduled Tribe Scheduled Scheduled Tribe Scheduled Tribe Scheduled Scheduled Scheduled Tribe Scheduled Scheduled Scheduled Tribe Scheduled Scheduled Scheduled Tribe Scheduled Scheduled Scheduled Scheduled Scheduled Scheduled Scheduled Tribe Scheduled Sche			*				
recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11 By promotion failing which by direct recruitment Promotion: Senior Investigator with eight years regular service in the grade. Promotion: Senior Investigator with eight years regular service in the grade. 3. Secretary - Member 4. One outside Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe -	Method of recruit	ment whether by	direct	In case of recru	itment by	If a DPC exists	
percentage of the vacancies to be filed by various methods to be filed by various methods to be filed by various methods transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made. 11 12 13 14 Promotion: Senior Investigator with eight years regular service in the grade. 2. Executive Director – Member 3. Secretary – Member 4. One outside Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe – Tribe –						what is its	1
deputation / transfer to be made. 11 12 13 14 By promotion failing which by direct recruitment Promotion: Senior Investigator with eight years regular service in the grade. Executive Director – Member 3. Secretary – Member 4. One outside Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe –				_		composition	i
be made. 11 12 13 14 By promotion failing which by direct recruitment Promotion: Senior Investigator with eight years regular service in the grade. 2. Executive Director – Member 3. Secretary – Member 4. One outside Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe –	to be filed b	y various method	ls		,		
By promotion failing which by direct recruitment Promotion: Senior Investigator with eight years regular service in the grade. Investigator with eight years regular service in the grade.							
By promotion failing which by direct Investigator with eight years regular service in the grade. Promotion: Senior Investigator with eight years regular service in the grade. 2. Executive Director – Member 3. Secretary – Member 4. One outside Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe –					ie.	 	
Investigator with eight years regular service in the grade. Investigator with eight years regular service in the grade. Investigator with eight years regular service in the grade. Investigator with eight years chairman 2. Executive Director – Member 3. Secretary – Member 4. One outside Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe –							
regular service in the grade. 2. Executive Director – Member 3. Secretary – Member 4. One outside Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe –		ng which by	direct			1	Not applicable
Director – Member 3. Secretary – Member 4. One outside Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe –	recruitment	٠					
Member 3. Secretary – Member 4. One outside Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe –				regular service ii	i uic grade	t	
3. Secretary – Member 4. One outside Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe –	,						
Member 4. One outside Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe –							
4. One outside Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe –	}					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe –							
belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe –							
Scheduled Caste/ Scheduled Tribe –						1	
Caste/ Scheduled Tribe –							
Scheduled Tribe –						i	
Tribe –							
						1	
Member						Member	1

Name of the Post	No. of Posts	Classifi-				
o. a.o. r oge	No. of Posts	cation	Pay Band, Scale and	Whether	DOLLONG	0
		Cauon	Grade Pay	selection		for direct
	1		Grade Fay	post or non	service admissible	
				Selection	under rule 30 of th	e
				Post	C.C.S. (Pension) Rules, 1972	
. 1	2	3	4	5	6	7
8. Personal	1 .	Middle Leve	Pay Band: 2;	Selection	Not applicable	<u> </u>
Secretary to		Management	Scale Rs.9,300-	COLCULOIT	not applicable	Not applicabl
Chairman		Non-	34,800; Grade			1
		Technical	Pay: Rs.4,600		,	
Educational and oth	ner qualification	ns required	Whether ag	o and	Posital CP 1	<u> </u>
for dir	ect recruits	oqunou	education		Period of Probation	ii any
			qualifications p		ĺ	
			for direct recr	uits will		
			apply in ca		,	
			promote		,	
	8	:	9		10	
Not a	applicable		Not applica	ıble	Not applicable	
Method of recruitr	nent whether i	y direct	In case of recrui	tment by	If a DPC exists	C:
recruitment or dep	outation / tran	sfer and	promotion / de	putation	what is its	Circumstanc es in which
percentage	of the vacancie	s	/ transfer grad	es from	composition	UPSC is to
to be filed by	various metho	ods	which promot		-opostdom	be consulted
			deputation / tra			in making
	 	1	be made			recruitment
	11		12		13	14
By P	romotion	1	Promotion: Stene	ographer 1	. Chairman –	Not
		<u> </u>	Grade-I) with thr	ee years		Applicable
		r	egular service.	İ2	. Executive	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		ſ		1	Director -	
	. •				Member	1
		ļ		3	. Secretary -	ļ
					Member	ļ
		1		4	. One outside	
•				1	Officer belonging	
			•	-	to Scheduled	
	-			1	Caste/	
					Scheduled Tribe]
		i_		<u> </u>	- Member	

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Name of the Post	No. of Posts	Classifi-	Pay Band,	Whether	Whether benefit of	Age limit for direct
• .		cation	Scale and	selection	added years of service admissible	recruits
			Grade Pay	post or non	under rule 30 of the	ieciulis
				Selection	C.C.S. (Pension)	
				Post	Rules, 1972	
1	2	3	4	5	6	7
9. Field Officer/	88	Middle Level	Pay Band: 2;	Non-	Not applicable	Not exceeding
Technical			Scale Rs.9,300-			thirty years
Assistant			34,800; Grade			
		Technical	Pay: Rs.4,200		!	
	11.01		**** . 1	1	D. J. J. CD. Letien i	C
Educational and oth	ier qualificatio rect recruits	ns required	Whether as	,	Period of Probation i	i any
loi dii	lect recruits		qualifications			
			for direct reci			
			apply in ca			
			promot			
	8		9		. 10	
Essential: 1. B.Sc.(Agriculture). Destrable: Knowledge of tobacco	cultivation & g	rading	Age: No Qualification: 10	th Passed	Two years for dire	ect recruit
Method of recruit			In case of recruitment by		If a DPC exists	Circumstanc
recruitment or de		•	promotion / d		what is its	es in which
	of the vacanc		/ transfer gra		composition	UPSC is to
	y various meth		which prome	otions /		be consulted
	-		deputation / t	ransfer to		in making
		·	be mad	de.		recruitment
	11. "		12		13	14
Promotion/Direct Reco	ruitment in the	ratio of 1:1	Promotion	: From	1. Chairman –	Not
			amongst Sen		Chairman	applicable
			Assistants v		2. Executive	
			years regular			
				st.	Member	
					3. Secretary – Member	
					4. One outside	
					Officer belonging	
					to Scheduled	
					Caste/	
					Scheduled Tribe	
					– Member	

Cation Carlon Grade Pay Cardinal Pay Cardinal Pay Cardina							
Cation Grade Pay Scale and Grade Pay non Selection Post of the C.C.S.	Name of the Post	No. of Posts	Classifi	Pay Band,	Whether	Whether benefit	Age limit for
Superintendent 2 3 4 5 6 7			cation	Scale and	selection		
Superintendent 2 3 4 5 6 7				Grade Pay	post or	service admissible	e
10. Accountant / Superintendent Superintendent 33 Middle Level Managem 24,800; Grade ent , Non-Technical Pay Rs.4,200 Pay: Rs	1.		-		non		
10. Accountant / Superintendent Continue					Selection	the C.C.S.	
1		·	ļ		Post		
Managem Superintendent Superintend		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		
Superintendent Level Scale Rs.9,300 Managem 34,800; Grade ent , Non-Technical Pay: Rs.4,200 Pay: Rs.4,200 Period of Probation if any	·		 		5	6	7
Educational and other qualifications required for direct recruits Beducational and other qualifications required for direct recruits Beducational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes. Beducational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes. Beducational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes. Beducational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes. Beducational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes. Beducational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes. Beducational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes. Beducational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes. Beducational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes. Beducational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes. Beducational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes. If a DPC exists what is its composition which promotions / deputation / transfer to be made. Promotion: 11 Promotion: 12 13 14 Not applicable Chairman - Ch		33	1		Selection	Not applicable	Not exceeding
Educational and other qualifications required for direct recruits Begin and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes. Begin and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11 Promotion and Direct recruitment. The appointment through promotion and directly grades failing which ministerial Assistants with combined regular service in respective grades failing which ministerial Assistants and Upper Division Clerk. Pay: Rs.4,200 Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will promote and prescribed for direct recruitment whether by direct recruitment whether by direct recruitment of promotion / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made. 11 Promotion: 12 13 14 Not applicable Officer belonging to Scheduled Caste / Scheduled Ca	Saletimendent			Scale Rs.9,300-			
Educational and other qualifications required for direct recruits will apply in case of promotes. 8	1		ent Ivianagem			[·
Educational and other qualifications required for direct recruits Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes. S				1 ay. No.7,200			
deducational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes. 8 9 10 Degree of a Recognized University No Two years Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods of the promotion / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made. 11 12 13 14 Promotion and Direct recruitment. The appointment through promotion and direct recruitment will be in the ratio of 2:1. Promotion: (i) 90% s with three years regular service in respective grades failing which Ministerial Assistants with combined regular service of ten years as Assistant and Upper Division Clerk. (ii) 10% of Stenographers (Grade-II) with three years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-II) with ten years combined regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-III) with ten years combined regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-III) with ten years combined regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-III) with ten years combined regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-III) with ten years combined regular service							
deducational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes. 8 9 10 Degree of a Recognized University No Two years Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods of the promotions / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made. 11 12 13 14 Promotion and Direct recruitment. The appointment through promotion and direct recruitment will be in the ratio of 2:1. Promotion: (i) 90% s with three years regular service in respective grades failing which Ministerial Assistants with combined regular service of ten years as Assistant and Upper Division Clerk. (ii) 10% of Stenographers (Grade-II) with three years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-II) with ten years combined regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-III) with ten years combined regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-III) with ten years combined regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-III) with ten years combined regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-III) with ten years combined regular service			}				
deducational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes. 8 9 10 Degree of a Recognized University No Two years Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods to be filed by various methods 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Educational and	d other qualifica	tions	Whether ag	ge and	Period of Probation	n if anv
method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11 Promotion and Direct recruitment. The appointment through promotion and directly interesting which ministerial Assistants with combined regular service of ten years as Assistant and Upper Division Clerk. Degree of a Recognized University	required fo	r direct recruits	•	educational qua	difications		
Degree of a Recognized University Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11 12 Promotion and Direct recruitment. The appointment through promotion and direct (ii) 90% s with three years regular service of ten years as Assistant and Upper Division Clerk. Promotion: (ii) 10% of Stenographers (Grade-II) with three years regular service in failing which Stenographers (Grade-II) with three years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-II) with three years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-II) with three years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-II) with three years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-II) with three years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-II) with three years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-II) with three years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-II) with three years regular service				prescribed fo	r direct		
Degree of a Recognized University No Two years Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11 12 13 14 Promotion and Direct recruitment. The appointment through promotion and directiff which ministerial Assistants with combined regular service of ten years as Assistant and Upper Division Clerk. Promotion Clerk. 11 12 13 14 Not applicable officer belonging to Scheduled Caste / Scheduled Tribe - Member (ii) 10% of Stenographers (Grade-II) with three years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-II) with three years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-II) with three years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-II) with three years regular service of ten belonging to Scheduled Tribe - Member				recruits will app	oly in case	•	
Degree of a Recognized University Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11 Promotion and Direct recruitment. The appointment through promotion and directive recruitment will be in the ratio of 2:1. Promotion: (i) 90% s with three years regular service in respective grades failing which Ministerial Assistants with combined regular service of ten years as Assistant and Upper Division Clerk. (ii) 10% of Stenographers (Grade-II) with three years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-II) with three years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-III) with three years combined regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-III) with three years combined regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-III) with three years combined regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-III) with tree years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-III) with tree years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-III) with tree years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-III) with tree years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-III) with tree years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-III) with tree years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-III) with tree years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-III) with tree years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-III) with tree years regular service in the grade, failing which tree years regular service in the grade, failing which tree years regular service in the grade, failing which years combined regular service in the grade, failing the promotion of transfer to transfer to transfer to transfer to transfer transfer tree what is its composition. Upper Service in the gra				of promo	tes.		
Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11 12 Promotion and Direct recruitment. The appointment through promotion and direct (i) 90% s with three years regular service in respective grades failing which Ministerial Assistants with combined regular service of ten years as Assistant and Upper Division Clerk. Assistants with combined regular service of ten years as Assistant and Upper Division Clerk. Assistants with combined regular service of ten years as Assistant and Upper Division Clerk. Assistants with combined regular service of ten years as Assistant and Upper Division Clerk. Assistants with combined regular service of ten years as Assistant and Upper Division Clerk. Assistants with combined regular service of ten years regular service of ten belonging to Scheduled Caste / Scheduled Tribe – Member	D			9_		10	
recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11 12 Promotion and Direct recruitment. The appointment through promotion and direct recruitment will be in the ratio of 2:1. Promotion: (i) 90% s with three years regular service in respective grades failing which Ministerial Assistants with combined regular service of ten years as Assistant and Upper Division Clerk. (ii) 10% of Stenographers (Grade-II) with three years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-II) with three years combined regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-II) with three years combined regular service of the years regular service of the selection of Scheduled Caste/Scheduled Tribe - Member (ii) 10% of Stenographers (Grade-II) with three years combined regular service	Degree of a Re	cognized Universit	ty	No	· [Two year	ars
recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11	16-41-1 C						
percentage of the vacancies to be filed by various methods 11 Promotion and Direct recruitment. The appointment through promotion and direct recruitment will be in the ratio of 2:1. Promotion and Upper Division Clerk. Promotion fransfer and transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made. Promotion fransfer grades from which promotions / deputation / transfer grades from which promotion / deputation / transfer grades from which promotion / deputation / transfer grades from which promotion / deputation / transfer grades from which promotion / deputation / transfer grades from which promotion / deputation / transfer grades from which promotion / deputation / transfer grades from which promotion / deputation / transfer grades from which promotion / deputation / transfer grades from which promotion / deputation / transfer grades from which promotion / deputation / transfer grades from which promotion / deputation / transfer grades from which promotion / deputation / transfer grades from which promotion / deputation / transfer grades from which promotion / deputation / transfer grades from which promotion / deputation / transfer grades from which grades in grades from which grades from which grades from which grades from which grades from which grades from which grades from which grades from which grades from which grades from which grades from which grades from grades from grades from grades from which grades from which grades from grades from grades from grades from grades from grades from grades from grades from grades from grades from grades from grades from grades from grades from grades from grades from grade	Method of recruits	nent whether by				If a DPC exists	Circumstance
which promotions / deputation / transfer to be made. 11 12 13 14 Promotion: The appointment through promotion and direct in respective grades failing which Ministerial Assistants with combined regular service of ten years as Assistant and Upper Division Clerk. (ii) 10% of Stenographers (Grade-II) with three years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-II) with three years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-II) with then years combined regular service.	recruitment or dep	outation / transf	er and	promotion / dep	outation /		s in which
deputation / transfer to be made. 11 12 13 14 Promotion and Direct recruitment. The appointment through promotion and direct recruitment will be in the ratio of 2:1. Promotion: 1. Chairman - Chairman - Chairman and Director - Member assistants with combined regular service of ten years as Assistant and Upper Division Clerk. (ii) 90% s with three years regular service in the grade, failing which assistants with combined officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe - Member (ii) 10% of Stenographers (Grade-II) with three years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-II) with ten years combined regular service	percentage (of the vacancies	Ì			composition	UPSC is to be
Promotion and Direct recruitment. The appointment through promotion and direct respective grades failing which Ministerial Assistants with combined regular service of ten years as Assistant and Upper Division Clerk. Director - Member Chairman Cha	to be med by	various method	s	which promot	tions /		consulted in
Promotion and Direct recruitment. The appointment through promotion and direct recruitment will be in the ratio of 2:1. Promotion: The appointment through promotion and direct (i) 90% s with three years regular service in respective grades failing which Ministerial Assistants with combined regular service of ten years as Assistant and Upper Division Clerk. Promotion: 1. Chairman — Chairman 2. Executive Director — Member 3. Secretary — Member 4. One outside Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe — Member (ii) 10% of Stenographers (Grade-II) with three years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-II) with ten years combined regular service						į	making
Promotion and Direct recruitment. The appointment through promotion and direct (i) 90% s with three years regular service in respective grades failing which Ministerial Assistants with combined regular service of ten years as Assistant and Upper Division Clerk. (ii) 90% s with three years regular service in respective grades failing which Ministerial Assistants with combined regular service of ten years as Assistant and Upper Division Clerk. (ii) 10% of Stenographers (Grade-II) with three years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-II) with ten years combined regular service		11			·		recruitment
The appointment through promotion and direct (i) 90% s with three years recruitment will be in the ratio of 2:1. regular service in respective grades failing which Ministerial Assistants with combined regular service of ten years as Assistant and Upper Division Clerk. Liphard Assistants with combined regular service of ten years as Assistant and Upper Division Clerk. Liphard Assistants with combined regular service of ten years as Assistant and Upper Division Clerk. Liphard Assistants With combined regular service of ten years as Assistant and Upper Division Clerk. Liphard Assistants With tree years years as Assistant and Upper Division Clerk. Liphard Assistants With tree years years as Assistant and Upper Division Clerk. Liphard Assistants With tree years years as Assistant and Upper Division Clerk. Liphard Assistants With tree years years as Assistant and Upper Division Clerk. Liphard Assistants With tree years years years as Assistant and Upper Division Clerk. Liphard Assistants With tree years years years years as Assistant and Upper Division Clerk. Liphard Assistants With tree years		,	ľ	12		13	14
The appointment through promotion and direct (i) 90% s with three years recruitment will be in the ratio of 2:1. regular service in respective grades failing which Ministerial Assistants with combined regular service of ten years as Assistant and Upper Division Clerk. Liphard Assistants with combined regular service of ten years as Assistant and Upper Division Clerk. Liphard Assistants with combined regular service of ten years as Assistant and Upper Division Clerk. Liphard Assistants With combined regular service of ten years as Assistant and Upper Division Clerk. Liphard Assistants With tree years years as Assistant and Upper Division Clerk. Liphard Assistants With three years years as Assistant and Upper Division Clerk. Liphard Assistants With tree years years as Assistant and Upper Division Clerk. Liphard Assistants With tree years years years as Assistant and Upper Division Clerk. Liphard Assistants With three years years years as Assistant and Upper Division Clerk. Liphard Assistants With tree years y	Promotion and Direct	recruitment.		Promotion:		Ol- ·	
regular service in respective grades failing which Ministerial Assistants with combined regular service of ten years as Assistant and Upper Division Clerk. Constant Consta	The appointment throu	igh promotion at	nd direct	i) 90% s with the	ee vears		ot applicable
which Ministerial Assistants with combined regular service of ten years as Assistant and Upper Division Clerk. Upper Division Clerk. (ii) 10% of Stenographers (Grade-II) with three years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-II) with ten years combined regular service	recruitment will be in	the ratio of 2:1.					
Assistants with combined regular service of ten years as Assistant and Upper Division Clerk. Wember 3. Secretary – Member 4. One outside Officer belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe – Member (ii) 10% of Stenographers (Grade-II) with three years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-II) with ten years combined regular service					failing		
regular service of ten years as Assistant and Upper Division Clerk. Member 4. One outside Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe – Member (ii) 10% of Stenographers (Grade-II) with three years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-II) with ten years combined regular service							}
years as Assistant and Upper Division Clerk. Wember 4. One outside Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe - Member (ii) 10% of Stenographers (Grade-II) with three years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-II) with ten years combined regular service		"					
Upper Division Clerk. 4. One outside Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe - Member (ii) 10% of Stenographers (Grade-II) with three years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-II) with ten years combined regular service	•		I.	eguar service Pare se Appieto	01 (011)		
Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe – Member (ii) 10% of Stenographers (Grade-II) with three years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-II) with ten years combined regular service		•	it:	pper Division Cla	rk. 4		
belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe – Member (ii) 10% of Stenographers (Grade-II) with three years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-II) with ten years combined regular service				rra ambien of			1
Scheduled Caste/ Scheduled Tribe – Member (ii) 10% of Stenographers (Grade-II) with three years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-II) with ten years combined regular service					1		
Caste/ Scheduled Tribe - Member (ii) 10% of Stenographers (Grade-II) with three years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-II) with ten years combined regular service							ĺ
(ii) 10% of Stenographers (Grade-II) with three years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-II) with ten years combined regular service						Caste/	
(ii) 10% of Stenographers (Grade-II) with three years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-II) with ten years combined regular service						1	
years regular service in the grade, failing which Stenographers (Grade-II) with ten years combined regular service						Tribe - Member	
failing which Stenographers (Grade-II) with ten years combined regular service			(i	i) 10% of Stenogr	aphers (Gra	ade-II) with three	1
with ten years combined regular service				years regul	lar service	in the grade,	,
			.	with ten vec	irs combine	pners (Grade-II)	
as Stenographer (Grade-II) and						Grade-II) and	
Stenographer (Grade-III).							
					,	<u></u>	

						
Name of the Post		Classifi- cation	Pay Band, Scale and Grade Pay	Whether selection post or non Selection Post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	3		•
11. Senior Investigator	1	Level Managem	Pay Band: 2; Scale Rs.9,300- 34,800; Grade Pay: Rs.4,200	Selection	Not applicable	Not applicable
Educational and required for	d other qualifier direct recrui		Whether age educational qua prescribed for dire will apply in o promote	lifications ect recruits case of	Period of Probation i	f any
:	8		9		10	
Not	applicable		Not applica	able	Not applical	ble
		nsfer and ies)	outation / rom which putation /	If a DPC exists what is its composition	Circumstan ces in which UPSC is to be consulted in making recruitment
	11		12		13	14
Promotion failing w		ion	Promotion: Assistant with t	hree years the grade. ons holding in the three years	Chairman – Chairman Executive Director – Member Secretary –	Not applicable

Name of the Post No. of Posts Classiff. Pay Band, Sale and Grade Pay Sale And Grade Pay Sale And Sale Pay Sale And Sale Pay Sale And Sale Pay Sale And Sale Pay Sale And Sale Pay Sale Pay Sale And Sale Pay Sale Pay Sale And Sale Pay Sale Pay	I Mame of the n						
Age limit Scale and Grade Pay In Cation Scale and Grade Pay In Cation Scale and Grade Pay In Cation Scale and Grade Pay In Cation Scale and Grade Pay In Cation Scale and Grade Pay In Cation Scale and Grade Pay In Cation Scale and Grade Pay In Cation Scale and Grade Pay In Cation Scale and Grade Pay In Cation Scale and Grade Pay In Cation Scale Rep. 9300 Applicable Managem 34,800: Grade ent., Pay: Re. 4,200 Applicable Managem 34,800: Grade ent., Pay: Re. 4,200 Applicable Managem 34,800: Grade ent., Pay: Re. 4,200 Applicable for direct recruits In Cation Scale Rep. 9300 Applicable Managem 34,800: Grade ent., Pay: Re. 4,200 Applicable for direct recruits will apply in case of promotes. In Cation Scale Rep. 9300 Applicable for direct recruits will apply in case of promotes. In Cation Scale Rep. 9300 Applicable for direct recruits will apply in case of promotes. In Cation Scale Rep. 9300 Applicable for direct recruits will apply in case of promotes. In Cation Scale Rep. 9300 Applicable for direct recruits will apply in case of promotes. In Cation Scale Rep. 9300 Applicable for direct recruits will apply in case of promotes. In Cation Scale Rep. 9300 Applicable for the case of promotes of promotes. In Cation Scale Rep. 9300 Applicable for the case of promotes of promotes. In Cation Scale Rep. 9300 Applicable for the case of a recognised university in grade for the case of a recognised university in grade for the case of a recognised university in grade for the case of a recognised university in grade for the case and promote of the case and promote of the case and promote of the case and promote of the case and promote of the case and promote of the case and promote of the case and promote of the case and promote of the case and promote of the case and promote of the case and promote of the case and promote of the case and promote of the case and promote of the case and promote of the case and promote of the case of recruitment by fr a DPC exists Circumstances what is its in which UPSC is to be co	or trie Pos	st No. of Posts	Class	ie l			
Sake and Grade Pay solvent and add years of post of mon Steetion and add years of post of addinated post of addinated post of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972 12. Seafor Translator 1	.	3000		J - wy Daila.	Whethe	r W/h - 41	
Grade Pay post or non Selection and Service Selection and	1		cano	on Scale and		1	1 APA TITLIT
Section Selection Service admissible under rule 30 of the C.C.s. (Pension) Rules, 1972 12. Sender I Middle Pay Band: Seale Rs 9,300-Applicable Managem 34,800: Grade ent. Pay: Rs.4,200 Free Freehincal Fechnical Fechn	1	ł		Grade Pav		- Ottotit OI	I (TITACE man-
Selection admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) 1 2 3 4 5 6 7 Rules, 1972 12. Senior Translator 1 Middle	}	1.	- 1	1		added years	of
1 2 3 4 5 5 6 7	1			1		service	
1 2 3 4 5 6 7 Translator	1	1	1			admissible	.
1 2 3 4 5 6 7 Translator 1 Middle Pay Band: 2: Scale Rs 9,300- Applicable Educational and other qualifications required for direct recruits will apply in case of promotes. 8 Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes. 8 9 10 Not Applicable Two years. Period of Probation if any educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes. 8 9 10 Not Applicable Two years. Possential: (1) (i) Master's Degree of a recognized University in Examination at Degree level OR (ii) Master's Degree of a recognized university in Examination and Degree level OR (iii) Master's Degree of a recognized University in Examination and Degree level OR (iii) Master's Degree of a recognized University in Examination and Degree level OR (iii) Master's Degree of a recognized University in Examination and Degree level OR (iii) Master's Degree of a recognized University in Sand State of the third of English in the Hindi Seaghish with Hindi as compulsory elective subject or as medium of examination and Degree level. OR (iii) Master's Degree of a recognized University in Sand State of the Wall of the	1		-	1	Post	under rule 3	in
12. Sealor 12. Sealor 13. Sealor 14. Sealor 15. Sealor 16. Middle Level Manageman, 800: Grade Pay: Rs. 4,200 Not Applicable Not Applicable Period of Probation if any Period of Probati	1	1	1	1	1	of the C.C.a	0
12. Senior 1	ļ	<u></u>			i	/Do-	•
Translator Middle Level Scale Rs.9,300 Applicable Not applicabl		2			1	(rension)	
Computer Computer				4	 	Rules, 1972	1
Level Scale Re.9,300 Applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not policity Period of Probation if any prescribed for direct recruits will apply in case Period of Probation if any prescribed for direct recruits will apply in case Period of Probation if any prescribed for direct recruits will apply in case Period of Probation if any prescribed for direct recruits will apply in case Period of Probation if any prescribed for direct recruits will apply in case Period of Probation if any prescribed for direct recruits will apply in case Period of Probation if any prescribed for direct recruits will apply in case Period of Probation if any prescribed for direct recruits will apply in case Period of Probation if any prescribed for direct recruits will apply in case Period of Probation if any prescribed for direct recruits will apply in case Period of Probation if any prescribed for direct recruits will apply in case Period of Probation if any prescribed for direct recruits will apply in case Period of Probation if any prescribed for direct recruits will apply in case Period of Probation if any prescribed for direct recruits will apply in case Period of Probation if any prescribed for direct recruits will apply in case Period of Probation if any prescribed for direct recruits will apply in case Period of Probation if any prescribed for direct recruits will apply in case Period of Probation if any prescribed for direct recruits will apply in case Period of Probation if any prescribed for direct recruits will apply in case Period of Probation if any prescribed for direct recruits will apply in case Period of Probation if any prescribed for direct recruits will apply in case Period of Probation if any prescribed for direct recruits will apply in case Period of Probation if any prescribed for direct recruits will apply in case Period of Probation if any prescribed for direct recruits will apply in case Period of Probation if any prescribed for di	Translator	, .	Middle	Pay Bond, O.		6	7
Educational and other qualifications required for direct recruits Educational and other qualifications required for direct recruits Educational and other qualifications required for direct recruits Educational and other qualifications required for direct recruits will apply in case of promotes. Essential: (1) (i) Master's Degree of a recognized University in English with English with English with English with Hindi as compulsory elective subject or as medium of English medium and English / Hindi as compulsory elective subject or as medium of examination at Degree level. (iii) Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi / English with Hindi as compulsory / elective subject or as medium of examination and the grain and English as compulsory / elective subject or the than Hindi / English as compulsory / elective subject or the direct and the grain and examination from Hindi to English and succession of the two as medium of examination and the grain and examination from Hindi to English and succession of the two as medium of examination and percentage of the vacancies to be filed by various methods In case of recruitment by Iff a DPC exists Circumstances what is its in which UPSC consolidation / transfer to be made. In case of recruitment by Iff a DPC exists Circumstances what is its in which UPSC consolidation / transfer to be made. In case of recruitment by Iff a DPC exists Circumstances what is its in which UPSC consolidation / transfer to be made. In case of recruitment by Iff a DPC exists Circumstances what is its in which UPSC consolidation / transfer to be made. In case of recruitment by Iff a DPC exists Circumstances what is its in which UPSC consolidation / transfer to be made. In case of recruitment by Iff a DPC exists Circumstances what is its in which UPSC consolidation / transfer to be made. In case of recruitment by Iff a DPC exists Circumstances what is its in which UPSC consolidation / transfer to be made. In case of recruitment by Iff a DPC exists Circum	1 1		Level	Scale Pa C 200	Not	Not applicable	
Educational and other qualifications required for direct recruits Educational and other qualifications required for direct recruits Sesential: (I) (i) Master's Degree of a recognized University in limid / English with English / Hindi as compulsory / elective subject or as medium of examination at Degree level. OR (iii) Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi / English with Hindi as compulsory / elective subject or as medium of examination at Degree level. AND (iii) Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi / English with Hindi as compulsory / elective subject or as medium of examination at Degree level. AND (iii) Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi / English with Hindi as compulsory / elective subject or as medium of examination and there as compulsory / elective subject or as medium of examination and there as compulsory / elective subject or as medium of examination and the recruitment of the properties of the two subject or as medium of examination and the recruitment of the properties of the recruitment of the promotion of the promotion / deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods In case of recruitment by lif a DPC exists Circumstances what is its in which UPSC consulted in making recruitment in making recruitment in making recruitment in making recruitment in making recruitment in the promotion of the promotions / deputation / transfer to be made. Not applicable Not applicable Not applicable AND Oraccondated in the ducational qualifications period of Probation if any period of Probation if any period of probable in the period of probable in the period of probable in the period of probable in the period of probable in the period of probable in the period of probable in the period of probable in the period o	- 1		Managen	n 34 800 C	Applicable	I P-odoic	Not
Educational and other qualifications required for direct recruits Besential: (1) (i) Master's Degree of a recognized University in Hindi 2 English with English / Hindi as compulsory elective subject or as medium of Examination at Degree level (ii) Master's Degree of a recognized university in any subject other than Hindi / English with Hindi as compulsory elective subject or as medium of examination at Degree level. (iii) Master's Degree of a recognized university in any subject other than Hindi / English with Hindi as compulsory / elective subject or as medium of examination at Degree level. (iii) Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi / English with Hindi and English as compulsory / elective subject or dither as compulsory / elective subject or dither as compulsory / elective subject or dither as compulsory / elective subject or dither as compulsory / elective subject or dither as compulsory / elective subject at Degree vevel. AND (iii) Recognized Diploma or Certificate course in anslation from Hindi to English and vice-versa Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer grades from which grades from which grades from the grades from which grades from the grades from which grades from the grades from the grades from which grades from the grades from the grades	· ·		ent .	Pay: Po 4 000			exceeding thirty
Educational and other qualifications required for direct recruits Mind	1 1			49. No.4,200	i		Years.
Educational and other qualifications required for direct recruits Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes.	1						1
educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes. 8 8 (I) (i) Master's Degree of a recognized University in finidi / English with English / Hindi as compulsory elective subject or as medium of examination at Degree level (II) (ii) Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi / English with Hindi as compulsory / elective subject or as medium of examination at Degree level. (III) Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi / English with Hindi as compulsory / elective subject or as medium of examination and English as compulsory / elective subject or as medium of examination and English as compulsory / elective subject or as medium of examination and then as compulsory / elective subject or as medium of examination and then as compulsory / elective subject or as medium of examination and then as compulsory / elective subject or as medium of examination and then as compulsory / elective subject or as medium of examination and then as compulsory / elective subject or as medium of examination and then as compulsory / elective subject or as medium of examination and the recruitment of the two as medium of examination and the recruitment of the two as medium of examination and the recruitment by a composition of examination and the recruitment by a composition of the promotion of	Educational			1 . 1	1		
educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes. 8 8 (I) (i) Master's Degree of a recognized University in finidi / English with English / Hindi as compulsory elective subject or as medium of examination at Degree level (II) (ii) Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi / English with Hindi as compulsory / elective subject or as medium of examination at Degree level. (III) Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi / English with Hindi as compulsory / elective subject or as medium of examination and English as compulsory / elective subject or as medium of examination and English as compulsory / elective subject or as medium of examination and then as compulsory / elective subject or as medium of examination and then as compulsory / elective subject or as medium of examination and then as compulsory / elective subject or as medium of examination and then as compulsory / elective subject or as medium of examination and then as compulsory / elective subject or as medium of examination and then as compulsory / elective subject or as medium of examination and the recruitment of the two as medium of examination and the recruitment of the two as medium of examination and the recruitment by a composition of examination and the recruitment by a composition of the promotion of	- aucanonal and of	her qualifications	recuring			i	
Besential: (1) (i) Master's Degree of a recognized University in Compulsory elective subject or as medium of examination at Degree level OR (ii) Master's Degree of a recognized university in any subject other than Hindi / English with Hindi as compulsory / elective subject or as medium of examination at Degree level OR (iii) Master's Degree of a recognized university in any subject other than Hindi / English with Hindi as compulsory / elective subject or as medium of examination at Degree level. OR (iii) Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi / English with Hindi as compulsory / elective subject or as medium of examination at Degree level. OR (iii) Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi / English with Hindi as compulsory / elective subject or as medium of examination and begree level. AND (iii) Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi / English with Hindi as compulsory / elective subject or as medium of examination and begree level. AND (iii) Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi / English with Hindi as compulsory / elective subject or as medium of examination and begree level. AND (iii) Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi / English with Hindi as compulsory / elective subject or as medium of examination and begree level. AND (iii) Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi / English with Hindi as compulsory / elective subject or as medium of examination and begree level. AND (iii) Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi / English with Hindi as compulsory / elective subject or as medium of examination and begree level. In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its on the individual of examination and vice-versa. In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its on the individual of examination and vice-versa	for di	rect recruits	cdansa	Whether age	and I	Poris d. C.	
Besential: (1) (i) Master's Degree of a recognized University in Scompulsory elective subject or as medium of examination at Degree level (ii) Master's Degree of a recognized university in any subject other than Hindi / English with Hindi as compulsory / elective subject or as medium of examination at Degree level. (Iii) Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi / English with Hindi as examination at Degree level. (Iii) Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi / English with Hindi as examination at Degree level. (III) Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi / English with Hindi as examination and English as compulsory / elective subject or ither of the two as medium of examination and then as compulsory / elective subject or as medium of examination and then as compulsory / elective subject or ither of the two as medium of examination and then as compulsory / elective subject or as medium of examination and then as compulsory / elective subject or as medium of examination and then as compulsory / elective subject or as medium of examination and the subject or of the two as medium of examination and then as compulsory / elective subject or as medium of examination and the subject or the than Hindi / English with Hindi as examination and the subject or the two as medium of examination and the subject or the two as medium of examination and the subject or the two as medium of examination and the subject or the two as medium of examination and the subject or the two as medium of examination and the subject or the two as medium of examination and the subject or the two as medium of examination and the subject or the two as medium of examination and the subject or the two as medium of examination and the subject or the two as medium of examination and the subject or the two as medium of examination and the subject or the two as medium of examination and the subject or the two as medium of examination and the sub		4460	j	cuucanonal qual	ification -	errod of Probat	tion if any
Essential: (1) (i) Master's Degree of a recognized University in Hindi as compulsory elective subject or as medium of examination at Degree level OR (ii) Master's Degree of a recognized university in any subject other than Hindi / English with Hindi as reamination at Degree level OR (iii) Master's Degree of a recognized university in any subject other than Hindi / English with Hindi as reamination at Degree level. OR (iii) Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi / English with Hindi as reamination at Degree level. OR (iii) Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi / English with Hindi as reamination at Degree level. AND OR (iii) Recognized Diploma or Certificate course in anslation from Hindi to English and vice-versa Postrable: Ability to translate from English to and and vice-versa. Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made. Direct Recruitment Not applicable In case of recruitment by lif a DPC exists Circumstances what is its composition in making recruitment to be made. In case of recruitment by lif a DPC exists Circumstances what is its composition in making recruitment to be made. Not applicable 1. Chairm an —Chairman Not applicable 2. Executive Director —	1 .	4		Prescribed for	dia	•	
Sesential:	<u> </u>		1	recruite will	direct		
Sesential:				of will abbi	y in case		
Not Applicable Two years	Essential:	8		or promote	s.		
And as A	(1) (i) Master 1 =		 -	9			
compusory elective subject or as medium of examination at Degree level OR (iii) Master's Degree of a recognized university in any subject other than Hindi / English with Hindi as compulsory / elective subject or as medium of examination at Degree level. OR (iii) Master's Degree of a recognized university in any subject other than Hindi / English with Hindi and English as compulsory / elective subject or ither of the two as medium of examination and there as compulsory / elective subject or ither of the two as medium of examination and there as compulsory / elective subject or ither of the two as medium of examination and there as compulsory / elective subject or ither of the two as medium of examination and there as compulsory / elective subject or ither of the two as medium of examination and there as compulsory / elective subject or ither of the two as medium of examination and there as compulsory / elective subject or ither of the two as medium of examination and there as compulsory / elective subject or ither of the two as medium of examination and there as compulsory / elective subject or ither of the two as medium of examination and there as compulsory / elective subject or ither of the two as medium of examination and there as compulsory / elective subject or ither of the two as medium of examination and there as compulsory / elective subject or ither of the two as medium of examination and there as compulsory / elective subject or ither of the two as medium of examination and there as compulsory / elective subject or ither of the two as medium of examination and there as compulsory / elective subject or ither of the two as medium of examination and there as compulsory / elective subject or ither of the two as medium of examination and there as compulsory / elective subject or ither of the two as medium of examination and there as compulsory / elective subject or ither of two as medium of examination and there as compulsory / elective subject or ither of the two as medium of examination and there as	Hindi / Degree c	of a recognized Unive		Not Applicat	le		
(iii) Master's Degree of a recognized university in any subject other than Hindi / English with Hindi as compulsory / elective subject or as medium of examination at Degree level. OR OR (iii) Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi / English with Hindi and English as compulsory / elective subject or it was medium of examination and ther as compulsory / elective subject at Degree of an accognized University in any subject other than Hindi / English with Hindi index of the two as medium of examination and there as compulsory / elective subject at Degree of the vac and the recompulsory / elective subject at Degree of the vac and the recompulsory / elective subject at Degree of the vac and the recompulsory / elective subject or it was made in the recompulsory / elective subject or it was medium of examination and the recompulsory / elective subject or it was made in the recompulsory / elective subject or it was made in the recompulsory / elective subject or as medium of examination and the recompulsory / elective subject or as medium of examination and the recompulsory / elective subject or as medium of examination and the recompulsory / elective subject or as medium of examination and the recompulsory / elective subject or as medium of examination and the recompulsory / elective subject or as medium of examination and the recompulsory / elective subject or as medium of examination and the recompulsory / elective subject or as medium of examination and the recompulsory / elective subject or as medium of examination and the recompulsory / elective subject or as medium of examination and the recompulsory / elective subject or as medium of examination and the recompulsory / elective subject or as medium of examination and the recompulsory / elective subject or as medium of examination and the recompulsory / elective subject or elective subject or elective subject or elective subject or elective subject or elective subject or elective subject or elective subject or elective subject	compulation with	th English / Ui-	asity in			Two yea	ars .
(ii) Master's Degree of a recognized university in any subject other than Hindi / English with Hindi as compulsory / elective subject or as medium of examination at Degree level. OR (iii) Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi / English with Hindi and English as compulsory / elective subject or either of the two as medium of examination and ther as compulsory / elective subject at Degree wither as compulsory / elective subject at Degree wither as compulsory / elective subject at Degree wither as compulsory / elective subject at Degree wither as compulsory / elective subject at Degree wither as compulsory / elective subject at Degree wither as compulsory / elective subject at Degree wither as compulsory / elective subject at Degree wither as compulsory / elective subject or examination and there are consulted in what is its composition with promotions / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made. 11	evoning elective si	ubject or as	iui as	•	f		1
(ii) Master's Degree of a recognized university in any subject other than Hindi / English with Hindi as compulsory / elective subject or as medium of examination and Degree level. OR (iii) Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi / English with Hindi and English as compulsory / elective subject or either of the two as medium of examination and there of the two as medium of examination and there as compulsory / elective subject at Degree evel. AND Recognized Diploma or Certificate course in anslation from Hindi to English and vice-versa Pairable: Ability to translate from English to an anslation from Hindi to English and vice-versa Pairable: Ability to translate from English to die and vice-versa. Method of recruitment whether by direct recruitment of deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition in which UPSC is to be consulted in making recruitment by making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition in which UPSC is to be consulted in which upscribed in which upscribed in wh	examination at Degree le	evel of as mean	um of		1	•	
English medium and English / Hindi as compulsory / elective subject or as medium of examination at Degree level. OR	ł	_	í				1
English medium and English / Hindi as compulsory / elective subject or as medium of examination at Degree level.	(11) Master's Degree of						
English medium and English / Hindi as compulsory / elective subject or as medium of examination at Degree level.		i recominad	. 1		- 1		1
examination at Degree level. OR (iii) Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi / English with Hindi and English as compulsory / elective subject or examination and there is a compulsory / elective subject at Degree evel. AND Recognized Diploma or Certificate course in anslation from Hindi to English and vice-versa Pariable: Ability to translate from English to ndi and vice-versa. Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods The case of recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition is to be composition is to be consulted in making recruitment by making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition in making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition in making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition in the promotion of the promot	subject other than h	a recognized univers	sity in				
(iii) Master's Degree level. OR OR any subject other than Hindi / English with Hindi and English as compulsory / elective subject or other as compulsory / elective subject or other as compulsory / elective subject at Degree of the two as medium of examination and other as compulsory / elective subject at Degree of the two as medium of examination and other as compulsory / elective subject at Degree of the two as medium of examination and other as compulsory / elective subject at Degree of the two as medium of examination and other as compulsory / elective subject or other as compulsory / elective subject or other as compulsory / elective subject or other as compulsory / elective subject or other as compulsory / elective subject or other as compulsory / elective subject or other as compulsory / elective subject or other as compulsory / elective subject or other as compulsory / elective subject or other as compulsory / elective subject or other as compulsory / elective subject or other tan English or other as compulsory / elective subject or other tan English or other as compulsory / elective subject or other tan English or other as compulsory / elective subject or other as compulsory /	// English modice	/ Dirkingti With	Hindi				
OR any subject other than Hindi / English with Hindi and English as compulsory / elective subject or other of the two as medium of examination and there as compulsory / elective subject at Degree AND Recognized Diploma or Certificate course in anslation from Hindi to English and vice-versa Partiable: Ability to translate from English to andi and vice-versa. Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition is to be transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made. In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition is to be consulted in making recruitment 11 Not applicable 1. Chairm an -Chairman Not applicable 2. Executive Director -	compulsory / election	nd English / Hine	Hindi				
master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi / English with Hindi and English as compulsory / elective subject or the two as medium of examination and there as compulsory / elective subject at Degree dither as compulsory / elective subject at Degree dither as compulsory / elective subject at Degree dither as compulsory / elective subject or the two as medium of examination and there as compulsory / elective subject or dither as compulsory / elective subject or dithered as medium of examination and there as compulsory / elective subject or dithered as medium of examination and there as compulsory / elective subject or dithered as medium of examination and there as compulsory / elective subject or dithered as medium of examination and there as compulsory / elective subject or dithered as medium of examination and there as compulsory / elective subject or dithered as medium of examination and there as compulsory / elective subject or dithered as medium of examination and there as compulsory / elective subject or dithered as medium of examination and there as compulsory / elective subject or dithered as medium of examination and there as compulsory / elective subject or dithered as medium of examination and there as compulsory / elective subject or dithered as medium of examination and there as compulsory / elective subject or dithered as medium of examination and there as compulsory / elective subject or dithered as medium of examination and there as compulsory / elective subject or dithered as medium of examination and there as compulsory / elective subject or dithered as medium of examination and there as compulsory / elective subject or dithered as medium of examination and there as compulsory / elective subject or dithered as medium of examination and there as compulsory / elective subject or dithered as medium of examination and there as compulsory / elective subject or dithered as medium of examination and there as medium of examination and there as medium of examination and the	compulsory / election	nd English / Hine	Hindi				
And English as compulsory / elective subject or either of the two as medium of examination and either as compulsory / elective subject at Degree either of the two as medium of examination and exel. AND Recognized Diploma or Certificate course in anslation from Hindi to English and vice-versa Pairable: Ability to translate from English to midi and vice-versa. Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition is to be consulted in making recruitment to be made. In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment to be made. In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment to be made. In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment to be made. In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment to be made. In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment to be made. In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment to be made. In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances in which UPSC is to be consulted in which UPSC is to be consulted in which UPS	/ English medium an compulsory / elective s examination at Degree lev	nd English / Hindulphic or as medicated.	Hindi di as ım of				
And English as compulsory / elective subject or either of the two as medium of examination and either as compulsory / elective subject at Degree either of the two as medium of examination and exel. AND Recognized Diploma or Certificate course in anslation from Hindi to English and vice-versa Pairable: Ability to translate from English to midi and vice-versa. Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition is to be consulted in making recruitment to be made. In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment to be made. In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment to be made. In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment to be made. In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment to be made. In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment to be made. In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment to be made. In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances in which UPSC is to be consulted in which UPSC is to be consulted in which UPS	// English medium an compulsory / elective sexamination at Degree lev	nd English / Hindubject or as mediu vel.	Hindi di as ım of				
AND Recognized Diploma or Certificate course in anslation from Hindi to English and vice-versa Pairable: Ability to translate from English to and it and vice-versa. Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its in which UPSC is to be consulted in making recruitment or deputation / transfer to be made. Not applicable Not applicable In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its own which promotions / deputation / transfer to be made. In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exist Circumstances what is its in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exist Circumstances what is its in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exist Circumstances what is its in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exist Circumstances what is its in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exist Circumstances what is its in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exist Circumstances what is its in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exist Circumstances what is its in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exist Circumstances what is its in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exist Circumstances what is its in which UPSC is to be consulted in making the promotion of the promotion of the promotion of the promotion of the promotion of the promotion of the promotion	// English medium an compulsory / elective sexamination at Degree lev (iii) Master's Degree of a gary subject other the	nd English / Hind subject or as media rel. R recognized University	Hindi di as im of				
AND Recognized Diploma or Certificate course in anslation from Hindi to English and vice-versa Pairable: Ability to translate from English to andi and vice-versa. Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its in which UPSC is to be consulted in making recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its in which UPSC is to be consulted in making and consulted in making produces where the produces where the produces where the produces where the produces where the produces where the produces where the produces where the produces where the produces where the produces where the produc	// English medium an compulsory / elective sexamination at Degree lev (iii) Master's Degree of a any subject other than High and English as a compulsion.	nd English / Hind subject or as medic rel. PR recognized Universi indi / English with I	Hindi di as Im of ity in				
AND Recognized Diploma or Certificate course in anslation from Hindi to English and vice-versa Pasirable: Ability to translate from English to indi and vice-versa. Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods In case of recruitment by lf a DPC exists Circumstances what is its composition is to be consulted in making recruitment In case of recruitment by lf a DPC exists Circumstances what is its composition is to be consulted in making recruitment In case of recruitment by lf a DPC exists Circumstances what is its composition is to be consulted in making recruitment In case of recruitment by lf a DPC exists Circumstances what is its composition is to be consulted in making recruitment In case of recruitment by lf a DPC exists Circumstances what is its composition in which UPSC is to be consulted in making recruitment In case of recruitment by lf a DPC exists Circumstances what is its composition in which UPSC is to be consulted in making recruitment In case of recruitment by lf a DPC exists Circumstances what is its composition in which UPSC is to be consulted in making recruitment In case of recruitment by lf a DPC exists Circumstances what is its composition in which UPSC is to be consulted in making recruitment In case of recruitment by lf a DPC exists Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment In case of recruitment by lf a DPC exists Circumstances what is its composition in which UPSC is to be consulted in making recruitment In case of recruitment by lf a DPC exists Circumstances what is its composition in which UPSC is to be consulted in making recruitment. In case of recruitment by lf a DPC exists Circumstances what is its composition in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	// English medium an compulsory / elective sexamination at Degree lev (iii) Master's Degree of a lany subject other than Hi light as compulsorither of the true and English as compulsorither of the true and English as compulsorither of the true and English as compulsorither of the true and English as compulsorither of the true and English as compulsorither of the true and English as compulsorither of the true and English as compulsorither of the true and English as compulsorither of the true and English and English as compulsorither of the true and English and Engl	and English / Hind subject or as meditivel. PR recognized Universitindi / English with I ory / elective subjective subjective	Hindi di as am of am of am of am of am of am of am of am of am am of am am am am am am am am am am am am am	·			
AND Recognized Diploma or Certificate course in anslation from Hindi to English and vice-versa Pariable: Ability to translate from English to indi and vice-versa. Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition is to be consulted in making recruitment or deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made. In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition is to be consulted in making recruitment or deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made. In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition is to be consulted in making recruitment or deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made. In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition is to be consulted in making recruitment or deputation / transfer grades from which upper leading in whi	// English medium an compulsory / elective sexamination at Degree lev (iii) Master's Degree of a lany subject other than Hi light as compulsorither of the true and English as compulsorither of the true and English as compulsorither of the true and English as compulsorither of the true and English as compulsorither of the true and English as compulsorither of the true and English as compulsorither of the true and English as compulsorither of the true and English as compulsorither of the true and English and English as compulsorither of the true and English and Engl	and English / Hind subject or as meditivel. PR recognized Universitindi / English with I ory / elective subjective subjective	Hindi di as am of am of am of am of am of am of am of am of am am of am am am am am am am am am am am am am	·			
Recognized Diploma or Certificate course in anslation from Hindi to English and vice-versa Pesirable: Ability to translate from English to indicated and vice-versa. Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11	// English medium an compulsory / elective sexamination at Degree lev (iii) Master's Degree of a lany subject other than Hi light as compulsorither of the true and English as compulsorither of the true and English as compulsorither of the true and English as compulsorither of the true and English as compulsorither of the true and English as compulsorither of the true and English as compulsorither of the true and English as compulsorither of the true and English as compulsorither of the true and English and English as compulsorither of the true and English and Engl	and English / Hind subject or as meditivel. PR recognized Universitindi / English with I ory / elective subjective subjective	Hindi di as am of am of am of am of am of am of am of am of am am of am am am am am am am am am am am am am	·			
Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods In case of recruitment by promotion / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made. In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition is to be consulted in making recruitment It is to be consulted in making recruitment	// English medium an compulsory / elective sexamination at Degree level. (iii) Master's Degree of a large subject other than Hi large set and English as compulsory / elected.	and English / Hind subject or as meditivel. PR recognized Universitindi / English with I ory / elective subjective subjective	Hindi di as am of am of am of am of am of am of am of am of am am of am am am am am am am am am am am am am	·			
Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods In case of recruitment by promotion / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made. In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition is to be consulted in making recruitment It lates to be a secutive by promotion / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made. It lates to deputation / transfer to be made. It lates to deputation / transfer to be made. It lates to deputation / transfer to be made. It lates to deputation / transfer to be making recruitment lates to be consulted in making recruitment lates to be made. It lates to deputation / transfer to be made. It lates to deputation / transfer to be making recruitment lates to be consulted in making recruitment lates to be consulted in making recruitment lates to be made. It lates to deputation / transfer to be made. It lates to deputation / transfer to be consulted in making recruitment lates to be consulted in making recruitment lates to be made. It lates to deputation / transfer to be made. It lates to deputation / transfer to be made. It lates to deputation / transfer to be making recruitment lates to deputation / transfer to be making recruitment lates to deputation / transfer to be making recruitment lates to deputation / transfer to be making recruitment lates to deputation / transfer to be making recruitment lates to deputation / transfer to be making recruitment lates to deputation / transfer to be making recruitment lates to deputation / transfer to lates to deputation / transfer to lates to deputation / transfer to lates to deputation / transfer to lates to deputation / transfer to lates to deputation / transfer to lates to deputation / transfer to lates to deputation / transfer to lates to deputation / transfer to lates to deputation /	/ English medium an compulsory / elective sexamination at Degree lev (iii) Master's Degree of a any subject other than Hi and English as compulsory / elections as compulsory / elected.	nd English / Hind subject or as media rel. R recognized Universi indi / English with I ory / elective subject ium of examination ective subject at De	Hindi di as im of ity in Hindi ct or and egree	·			
Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made. In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition is to be consulted in making recruitment It is to be consulted in making recruitment Not applicable Not applicable In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances what is its composition is to be consulted in making recruitment It is to be consulted in making recruitment It is to be consulted in making recruitment It is to be consulted in making recruitment It is to be consulted in making recruitment It is to be consulted in making recruitment It is to be consulted in making recruitment It is to be consulted in making recruitment It is to be consulted in making recruitment It is to be consulted in making recruitment It is to be consulted in making recruitment It is to be consulted in making recruitment It is to be consulted in making recruitment It is to be consulted in making recruitment It is to be consulted in making recruitment It is to be consulted in making recruitment It is to be consulted in making recruitment It is to be consulted in making recruitment It is to be consulted in making recruitment It is to be consulted in making recruitment	compulsory / elective si examination at Degree lev (iii) Master's Degree of a any subject other than Hi and English as compulsory / election as compulsory / elected. AND	nd English / Hind subject or as media vel. R recognized Universition in the interest of the i	Hindi di as im of ity in Hindi ct or and egree				
Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11	compulsory / elective si examination at Degree lev (iii) Master's Degree of a any subject other than Hi and English as compulsory / election as compulsory / elected. AND	nd English / Hind subject or as media vel. R recognized Universition in the interest of the	Hindi di as im of ity in Hindi ct or and egree				
Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods 11	compulsory / elective siexamination at Degree level. AND Recognized Diploma of anslation from Hindi to Er	ind English / Hind English / Hind English / Hind Procedured University of the Company / English with I fory / Elective subjection of examination ective subject at Description of the Control of Certificate course anglish and vice-versal	Hindi di as im of ity in Hindi ct or and egree				
percentage of the vacancies to be filed by various methods 11 Direct Recruitment percentage of the vacancies to be filed by various methods If a DPC exists circumstances what is its composition is to be consulted in making recruitment Not applicable Promotion / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made. Not applicable If a DPC exists Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment I 1 13 14 Not applicable Executive Director –	compulsory / elective sexamination at Degree level. Master's Degree of a sexamination at Degree of a sexamination at Degree of a sexamination at Degree of a sexamination and English as compulsory of the two as meditather as compulsory / elected. AND Recognized Diploma of anslation from Hindi to English as compulsory / elected.	ind English / Hind English / Hind English / Hind Procedured University of the Company / English with I fory / Elective subjection of examination ective subject at Description of the Control of Certificate course anglish and vice-versal	Hindi di as im of ity in Hindi ct or and egree				
percentage of the vacancies to be filed by various methods 11 Direct Recruitment percentage of the vacancies to be filed by various methods If a DPC exists circumstances what is its composition is to be consulted in making recruitment Not applicable Promotion / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made. Not applicable If a DPC exists Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment I 1 13 14 Not applicable 2. Executive Director –	compulsory / elective sexamination at Degree level. Master's Degree of a sary subject other than Hi and English as compulsory / election as compulsory / election. AND Recognized Diploma of anslation from Hindi to English as compulsory / election.	ind English / Hind English / Hind English / Hind Procedured University of the Company / English with I fory / Elective subjection of examination ective subject at Description of the Control of Certificate course anglish and vice-versal	Hindi di as im of ity in Hindi ct or and egree				
percentage of the vacancies to be filed by various methods 11 Direct Recruitment percentage of the vacancies to be filed by various methods If a DPC exists circumstances what is its composition is to be consulted in making recruitment Not applicable Promotion / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made. Not applicable If a DPC exists Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment I 1 13 14 Not applicable Executive Director –	compulsory / elective sexamination at Degree level. Master's Degree of a samy subject other than Hi and English as compulsorither of the two as medither as compulsory / elective. AND Recognized Diploma of anslation from Hindi to English as compulsory.	and English / Hind subject or as medically as the control of the c	Hindi di as im of ity in Hindi ct or and egree				
percentage of the vacancies to be filed by various methods 11 Direct Recruitment percentage of the vacancies to be filed by various methods promotion / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made. 12 Not applicable promotion / deputation / transfer som what is its composition is to be consulted in making recruitment 12 13 14 Not applicable 2. Executive Director –	compulsory / elective sexamination at Degree level. Master's Degree of a many subject other than Hi and English as compulsoither of the two as medither as compulsory / elective. AND Recognized Diploma of anslation from Hindi to English to English as compulsory / elective. AND Recognized Diploma of anslation from Hindi to English and vice-versa.	and English / Hind subject or as medically as the control of the c	Hindi di as im of ity in Hindi ct or and egree				
to be filed by various methods transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made. It ansfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made. It ansfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made. It ansfer grades from which upsc is to be consulted in making recruitment It ansfer grades from which upsc is to be consulted in making recruitment It ansfer grades from which upsc is to be consulted in making recruitment It ansfer grades from which upsc is to be consulted in making recruitment It ansfer grades from which upsc is to be consulted in making recruitment It ansfer grades from which upsc is to be consulted in making recruitment It also is to be consulted in making	compulsory / elective siexamination at Degree level. Master's Degree of a carry subject other than Hi and English as compulsoither of the two as medither as compulsory / elective. AND Recognized Diploma of carry and in the English is compulsory / election. AND Recognized Diploma of carry and in the English is compulsory. Method of recruitment	and English / Hind subject or as medically as the control of the c	Hindi di as im of ity in Hindi ct or and egree	Se of most			
transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made. 11 Not applicable transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made. Not applicable transfer grades from which upsc is to be consulted in making recruitment 12 13 14 Not applicable 2. Executive Director –	compulsory / elective sexamination at Degree level. Master's Degree of a sexamination at Degree of a sexamination at Degree of a sexamination at Degree of a sexamination and English as compulsory / election of the two as meditather as compulsory / election of the two as meditather as compulsory / election of the two as meditather as compulsory / election of the two as meditather as compulsory / election of the two as meditather as compulsory / election of the two as meditation from Hindi to English elections and the two as meditation from Hindi to English elections and the two as meditation from Hindi to English elections are sexaminated and vice-versa.	and English / Hind subject or as media rel. PR recognized Universi indi / English with I ory / elective subject ium of examination ective subject at De or Certificate course inglish and vice-versa atte from English to	Hindi di as am of ity in Hindi ct or and egree	se of recruitment	by If a DP	C exists C:	
deputation / transfer to be made. Direct Recruitment Not applicable Not applicable Director - Not be made. 12 13 14 Not applicable Executive Director -	compulsory / elective sexamination at Degree level. Master's Degree of a sexamination at Degree of a sexamination at Degree of a sexamination at Degree of a sexamination at Degree of a sexamination at Degree of a sexamination at the sexamination at the sexamination from Hindi to English as compulsory / elected. AND Recognized Diploma of anslation from Hindi to English at the seximable: Ability to translation and vice-versa. Method of recruitment recruitment or deputate percentage of the	and English / Hind subject or as media rel. PR recognized Universified / English with I ory / elective subjectium of examination ective subject at Description of the course or Certificate courses or Certificate courses and from English to	Hindi di as im of ity in Hindi ct or and egree in In cas	se of recruitment	by If a DP	C exists Circum	nstances
Direct Recruitment Not applicable Not applicable Direct Recruitment Not applicable Direct Recruitment Not applicable Direct Recruitment Not applicable Director -	compulsory / elective sexamination at Degree level. Master's Degree of a sexamination at Degree of a sexamination at Degree of a sexamination at Degree of a sexamination at Degree of a sexamination at Degree of a sexamination at the sexamination at the sexamination from Hindi to English as compulsory / elected. AND Recognized Diploma of anslation from Hindi to English at the seximable: Ability to translation and vice-versa. Method of recruitment recruitment or deputate percentage of the	and English / Hind subject or as media rel. PR recognized Universified / English with I ory / elective subjectium of examination ective subject at Description of the course or Certificate courses or Certificate courses and from English to	Hindi di as Im of ity in Hindi ct or and egree in In cas prome trai	nsfer grades from	, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	is its in which	ch UPSC
Direct Recruitment Not applicable Not applicable 1. Chairm an -Chairman Not applicable 2. Executive Director -	compulsory / elective sexamination at Degree level. Master's Degree of a large subject other than Hi land English as compulsory / elective as compulsory / election as com	and English / Hind subject or as media rel. PR recognized Universified / English with I ory / elective subjectium of examination ective subject at Description of the course or Certificate courses or Certificate courses and from English to	Hindi di as Im of ity in Hindi ct or and egree in In cas promo trai	nsfer grades from ich promotions /	comp	osition is t	ch UPSC to be
Direct Recruitment Not applicable 1. Chairm an -Chairman Not applicable 2. Executive Director -	compulsory / elective sexamination at Degree level. Master's Degree of a sexamination at Degree of a sexamination at Degree of a sexamination at Degree of a sexamination at Degree of a sexamination at Degree of a sexamination at the sexamination at the sexamination from Hindi to English as compulsory / elected. AND Recognized Diploma of anslation from Hindi to English at the seximable: Ability to translation and vice-versa. Method of recruitment recruitment or deputate percentage of the	and English / Hind subject or as media rel. PR recognized Universified / English with I ory / elective subjectium of examination ective subject at Description of the course or Certificate courses or Certificate courses and from English to	Hindi di as Im of ity in Hindi ct or and egree in In cas promo trai	nsfer grades from ich promotions /	comp	osition is t	ch UPSC to be
Not applicable 1. Chairm an -Chairman 2. Executive Director -	compulsory / elective sexamination at Degree level. (iii) Master's Degree of a lary subject other than Hi land English as compulsory / elective of the two as meditation as compulsory / elective land. AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	and English / Hind subject or as media rel. PR recognized Universified / English with I ory / elective subjectium of examination ective subject at Description of the course or Certificate courses or Certificate courses and from English to	Hindi di as Im of ity in Hindi ct or and egree in In cas promo trai	nsfer grades from ich promotions / tation / transfer	comp	osition is to consu	ch UPSC to be ulted in
Not applicable 1. Chairm an -Chairman 2. Executive Director -	compulsory / elective sexamination at Degree level. (iii) Master's Degree of a large subject other than Hi land English as compulsory / elective as compulsory / election	and English / Hind subject or as media rel. PR recognized Universified / English with I ory / elective subjectium of examination ective subject at Description of the course or Certificate courses or Certificate courses and from English to	Hindi di as Im of ity in Hindi ct or and egree in In cas promo trai	nsfer grades from ich promotions / tation / transfer be made.	comp	Osition is to consumal	ch UPSC to be ulted in king
an -Chairman Not applicable 2. Executive Director -	compulsory / elective sexamination at Degree level. (iii) Master's Degree of a large subject other than Hi land English as compulsory / elective as compulsory / election	and English / Hind subject or as media rel. PR recognized Universified / English with I ory / elective subjectium of examination ective subject at Description of the course or Certificate courses or Certificate courses and from English to	Hindi di as im of ity in Hindi ct or and egree in In cas prome tran whi deput	nsier grades from ich promotions / tation / transfer be made.	to	Osition is to consumal recrui	ch UPSC to be alted in king itment
an -Chairman Not applicable 2. Executive Director -	compulsory / elective sexamination at Degree level. (iii) Master's Degree of a large subject other than Hi land English as compulsory / elective as compulsory / election	and English / Hind subject or as media rel. PR recognized Universified / English with I ory / elective subjectium of examination ective subject at Description of the course or Certificate courses or Certificate courses and from English to	Hindi di as im of ity in Hindi ct or and egree in In cas prome tran whi deput	nsier grades from ich promotions / tation / transfer be made.	to compo	Distinct in which is to consumal recruits	ch UPSC to be alted in king itment
Director -	compulsory / elective sexamination at Degree level. (iii) Master's Degree of a large subject other than Hi land English as compulsory / elective as compulsory / election	and English / Hind subject or as media rel. PR recognized Universified / English with I ory / elective subjectium of examination ective subject at Description of the course or Certificate courses or Certificate courses and from English to	Hindi di as im of ity in Hindi ct or and egree in In cas prome tran whi deput	nsier grades from ich promotions / tation / transfer be made.	to compo	Distion is to consumal recruits 1.1 m which is to consumal recruits 1.1 m main recruits 1.1 m m m m m m m m m m m m m m m m m m	ch UPSC to be alted in king itment
Director –	compulsory / elective sexamination at Degree level. (iii) Master's Degree of a large subject other than Hi land English as compulsory / elective as compulsory / election	and English / Hind subject or as media rel. PR recognized Universified / English with I ory / elective subjectium of examination ective subject at Description of the course or Certificate courses or Certificate courses and from English to	Hindi di as im of ity in Hindi ct or and egree in In cas prome tran whi deput	nsier grades from ich promotions / tation / transfer be made.	to composition in the compositio	osition is to consumal recruits 1.3 is in which is to consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is	ch UPSC to be alted in king itment
	compulsory / elective sexamination at Degree level. (iii) Master's Degree of a large subject other than Hi land English as compulsory / elective as compulsory / election	and English / Hind subject or as media rel. PR recognized Universified / English with I ory / elective subjectium of examination ective subject at Description of the course or Certificate courses or Certificate courses and from English to	Hindi di as im of ity in Hindi ct or and egree in In cas prome tran whi deput	nsier grades from ich promotions / tation / transfer be made.	to composition in the compositio	osition is to consumal recruits 1.3 is in which is to consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is the consumal recruits 1.3 is in which is	ch UPSC to be alted in king itment
	compulsory / elective sexamination at Degree level. (iii) Master's Degree of a large subject other than Hi land English as compulsory / elective as compulsory / election	and English / Hind subject or as media rel. PR recognized Universified / English with I ory / elective subjectium of examination ective subject at Description of the course or Certificate courses or Certificate courses and from English to	Hindi di as im of ity in Hindi ct or and egree in In cas prome tran whi deput	nsier grades from ich promotions / tation / transfer be made.	to composition in the compositio	osition is to consumal recruis 1.3 is in which is to consumal recruis 1.3 is in which is to consumal recruis 1.5 is in which is to consumal recruis 1.5 is in which is to consumal recruis 1.5 is in which is to consumal recruis 1.5 is in which is to consumal recruis 1.5 is in which is to consumal recruis 1.5 is in which is to consumal recruis 1.5 is in which is to consumal recruis 1.5 is to consuma	ch UPSC to be alted in king itment

		THE G	AZETTE OI	FINDIA : EXTRAC			
				1	3.	Secretary -	
						ember	}
:		•		}		One outside	1
						fficer	,
						elonging to	
	•				1	cheduled	
						Caste/	-
						Scheduled	
					1 -	ribe –	
						Member	1 Vimit for
				Pay Band, Scale	Whether	Whether	Age limit for direct recruits
Na	me of the Post	No. of Posts		and Grade Pay	celection	benefit of	l i
III			cation	allu Grado . 45	post or	added years of	}
	Ì				non	service	\
	ļ	!			Selection	admissible	1.
	Ţ		1		Post	under rule 30	
	,	i		l		of the C.C.S.	1
	ļ		1			(Pension)	1
ŀ	1					Rules, 1972	7
			3	4	5	6	
	1	2				Not applicable	Not Exceeding
		1	Middle	Pay Band: 2;	Not		thirty Years
13	3. Statistical	1	T avail	Scale Rs.9,300	applicable	l	
1	Assistant		Managem	34,800; Grade Pay			
			ent,	Rs.4,200			
-		\	Technical				if ony
				Whether age an	d education	al Period of Pro	Dation if any
	Educational a	nd other quali	incations	↓ analifications I	ileactioed to	* 1	
	required	for direct recr	uits	direct recruits	will apply II	ı	
	·			case of pr	omotes	_	10
, \				9			10
Ī	- 	8				Two years for	r Direct Recruits
. \				Age: No		1 wo years 19	
ŀ	Essential: (i) A Bachelor's	Degree in Stat	istics or a	Fducational	los.		
į	in a Bachelul s	DORIGO IN A		Qualifications:	.08		
. }						Y .	
. }			statistics as				
. }	Master's Degree Economics or Co	ommerce with	_{statistics} as subjects				
. }	Master's Degree Economics or Co one of (ii) three years	ommerce with	_{statistics} as subjects				
. }	Master's Degree Economics or Co one of (ii) three years	e in Matte ommerce with s the experience in	statistics as subjects Analysis of				
. }	Master's Degree Economics or Co one of (ii) three years statistical data Desirable: Diplo	ommerce with some the experience in oma from India	statistics as subjects Analysis of an Statistica Agricultura	1			
. }	Master's Degree Economics or Co one of (ii) three years statistical data Desirable : Diplo Institute, Kolkat	ommerce with some the experience in oma from India ta or Indian on Indian on Indian on Institute. Ne	statistics as subjects Analysis of an Statistica Agricultura w Delhi.	1		ov iff a DPC e	xists Circumstance
. }	Master's Degree Economics or Co one of (ii) three years statistical data Desirable : Diple Institute, Kolkat Statistics Resear	ommerce with some the experience in oma from India ta or Indian och Institute, Ne	statistics as subjects Analysis of an Statistica Agricultura w Delhi. ther by dire	l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	ecruitment l	/ what is	
. }	Master's Degree Economics or Co one of (ii) three years statistical data Desirable: Diple Institute, Kolkat Statistics Resear Method of rec	e in Mathe ommerce with s the experience in oma from India ta or Indian och Institute, Ne cruitment wheter or deputation /	statistics as subjects Analysis of an Statistica Agricultura w Delhi. ther by direct transfer a	f . In case of r	ecruitment t	what is	its in which UP
. }	Master's Degree Economics or Co one of (ii) three years statistical data Desirable: Diple Institute, Kolkat Statistics Resear Method of rec recruitment o	the experience in oma from India ta or Indian ch Institute, Necruitment wheter deputation /	statistics as subjects Analysis of an Statistica Agricultura w Delhi. ther by direct transfer a	In case of r promotion	ecruitment t / deputation des from wh	ich composi	tion is to be consulted
. }	Master's Degree Economics or Co one of (ii) three years statistical data Desirable: Diple Institute, Kolkat Statistics Resear Method of rec recruitment o	the experience in oma from India ta or Indian ch Institute, Necruitment wheter deputation /	statistics as subjects Analysis of an Statistica Agricultura w Delhi. ther by direct transfer a	In case of r promotion transfer gra	ecruitment to deputation des from who deputation	ich composi n /	its in which UP is to be consulted making
. }	Master's Degree Economics or Co one of (ii) three years statistical data Desirable: Diple Institute, Kolkat Statistics Resear Method of rec recruitment o	e in Mathe ommerce with s the experience in oma from India ta or Indian och Institute, Ne cruitment wheter or deputation /	statistics as subjects Analysis of an Statistica Agricultura w Delhi. ther by direct transfer a	In case of r promotion transfer gra	ecruitment t / deputation des from wh	what is composi	its in which up is to be consulted making recruitme
. }	Master's Degree Economics or Co one of (ii) three years statistical data Desirable: Diple Institute, Kolkat Statistics Resear Method of rec recruitment o percen to be file	the experience in oma from India ta or Indian ch Institute, Necruitment wheter deputation / tage of the vaced by various in the control of th	statistics as subjects Analysis of an Statistica Agricultura by Delhi. Ther by direct transfer a cancies methods	In case of r promotion transfer gra promotions transfer	ecruitment to deputation des from who deputation to be made.	what is composin /	its in which UP is to be consulted making recruitme
. }	Master's Degree Economics or Co one of (ii) three years statistical data Desirable: Diple Institute, Kolkat Statistics Resear Method of rec recruitment o percen to be file	the experience in oma from India ta or Indian ch Institute, Necruitment wheter deputation / tage of the vaced by various in the control of th	statistics as subjects Analysis of an Statistica Agricultura by Delhi. Ther by direct transfer a cancies methods	In case of r promotion transfer gra promotions transfer	ecruitment to deputation des from who deputation to be made.	what is composin /	its in which UP is to be consulted making recruitme 14 utive Not applicab
. }	Master's Degree Economics or Co one of (ii) three years statistical data Desirable: Diplo Institute, Kolkat Statistics Resear Method of rec recruitment o percen to be file	the experience in oma from India ta or Indian och Institute, Netruitment whether deputation / stage of the vaced by various to failing which	statistics as subjects Analysis of an Statistica Agricultura by Delhi. ther by direct transfer a cancies methods by Deput	In case of r promotion transfer grapromotions transfer	ecruitment to deputation des from who deputation to be made. 12 Upper Diagre graduat	what is composing / what is composing / land composing /	its in which UP is to be consulted making recruitme 14 utive Not applicab
. }	Master's Degree Economics or Co one of (ii) three years statistical data Desirable: Diplo Institute, Kolkat Statistics Resear Method of rec recruitment o percen to be file	the experience in oma from India ta or Indian och Institute, Netruitment whether deputation / stage of the vaced by various to failing which	statistics as subjects Analysis of an Statistica Agricultura by Delhi. ther by direct transfer a cancies methods by Deput	In case of r promotion transfer grapromotions transfer ation Promotion Clerks who	ecruitment to des from who des from who deputation to be made. 12 Upper Direct are graduat Mathematics	what is composing / wision 1. Executes in with Chair	its in which UP is to be consulted making recruitme 14 utive Not applicabetor – rman
. }	Master's Degree Economics or Co one of (ii) three years statistical data Desirable: Diplo Institute, Kolkat Statistics Resear Method of rec recruitment o percen to be file	the experience in oma from India ta or Indian ch Institute, Necruitment wheter deputation / tage of the vaced by various in the control of th	statistics as subjects Analysis of an Statistica Agricultura by Delhi. ther by direct transfer a cancies methods by Deput	In case of r promotion transfer grapromotions transfer ation Promotion Clerks who statistics or	ecruitment to des from who des from who deputation to be made. 12 Upper Divare graduat Mathematics one of the su	what is composing / line composing / lin	its in which UP is to be consulted making recruitme 14 utive Not applicabetor – rman etary –
. }	Master's Degree Economics or Co one of (ii) three years statistical data Desirable: Diplo Institute, Kolkat Statistics Resear Method of rec recruitment o percen to be file	the experience in oma from India ta or Indian och Institute, Netruitment whether deputation / stage of the vaced by various to failing which	statistics as subjects Analysis of an Statistica Agricultura by Delhi. ther by direct transfer a cancies methods by Deput	In case of r promotion transfer grapromotions transfer ation Promotion Clerks who statistics or statistics as and possess	ecruitment by deputation des from who deputation to be made. 12 Upper Diare graduat Mathematics one of the super ten years r	what is composing the composition of the compositio	its in which UP is to be consulted making recruitme 14 utive Not applicabetor – rman etary – heer
. }	Master's Degree Economics or Co one of (ii) three years statistical data Desirable: Diplo Institute, Kolkat Statistics Resear Method of rec recruitment o percen to be file	the experience in oma from India ta or Indian och Institute, Netruitment whether deputation / stage of the vaced by various to failing which	statistics as subjects Analysis of an Statistica Agricultura by Delhi. ther by direct transfer a cancies methods by Deput	In case of r promotion transfer grapromotions transfer ation Promotion Clerks who statistics or statistics as and possess	ecruitment he deputation des from whe deputation to be made. 12 Upper Diare graduat Mathematics one of the support part of the support post.	what is composing / line composing / lin	its in which UP is to be consulted making recruitme 14 utive Not applicabetor – rman etary – hber
. }	Master's Degree Economics or Co one of (ii) three years statistical data Desirable: Diplo Institute, Kolkat Statistics Resear Method of rec recruitment o percen to be file	the experience in oma from India ta or Indian och Institute, Netruitment whether deputation / stage of the vaced by various to failing which	statistics as subjects Analysis of an Statistica Agricultura by Delhi. ther by direct transfer a cancies methods by Deput	In case of r promotion transfer grapromotions transfer ation Promotion Clerks who statistics or statistics as and possess service in the	ecruitment by deputation des from who deputation to be made. 12 Upper Diare graduat Mathematics one of the super ten years r	what is composing the composition of the compositio	its in which UP is to be consulted making recruitme 14 utive Not applicabetor – rman etary – her side

-	<u> </u>							
			Government	with thr	ee years	belon	ging	
	•		experience in t	he post		to		
	•		(Period of dep	utation :	shall not	Sched	luled	
			exceed three ye	exceed three years) Caste/				
			-	1	•	Sched		
						Tribe -		
	·		'		ļ			
Name of the Post	No. of Posts	Classifi	- Pay Band,	337h -41		Memb		
		cation	10,	Whethe		er benefit	Age limi	
		Cauon	Scale and	selectio	n of adde	d years o	f direct recr	uits
		1	Grade Pay	post of	_	rvice		
				non		ible unde	r	
1		1		Selection		0 of the		
				n Post	C.C.S.	(Pension)		
1					Rule	s, 1972	İ	
	2	3	4	5		6	7	
14. Assistant	13	Middle		Non	Not ar	plicable	Not exceed	inα
		Level	Scale Rs.9,300-	Selection			thirty Year	
1		Managem	34,800; Grade		1			٠.
1		ent,	Pay: Rs.4,200					
		Non-					1	ļ
		Technical					!	
Educational and	o4h1'C							
Educational and	otner quantica	tions	Whether ag		Period of	f Probatio	n if any	
reduited for	direct recruits		education		1			ŀ
			qualificati					}
			prescribed for	direct				
•		1	recruits will a	pply in				
			case of prom				•	
	8		9			10	<u> </u>	
(1) 3							•	İ
(1) Degree of a	Recognized U	niversity	Age: No		Two years	for Direct	Recruite	\dashv
(2) Three years expe	erience in the	field of	Educational		, , , , , ,	LOI DICCI	rectures.	
Administration, Accou	nts.	K	Qualifications : N	o				
36-11 1 6								
Method of recruitme	ent whether by	direct	In case of recru	itment	If a DPC	exists	Circumstano	-
recruitment or depu	itation / transf	er and	by promotio		what		n which UPS	
percentage of	the vacancies		deputation / tr		compo		to be consult	!
to be filed by v	arious method	s İ	grades from v		po			
		1	promotions				in making recruitmen	
			deputation / tr			}	reci ululien	۱
		[to be made					İ
1	1		12		13		4.4	\dashv
By Promotion failin	or which t						14	
ecruitment.	g which by		romotion :	From	l. Ex	ecutive N	ot applicable	
		ja:	mong the	Upper I	Director -	- 1		
		D	ivision Clerks w	ith ten L	~1 ·	. }		j
		р у с	ars regular ser	vice in 🛭		retary -		1
•		Įt.n	eir respective gr		Member	, ,		
]	•		3. One ou	tside		
					Officer bel			
				+	o Schedu	jeq orrents		
	2	Ī			aste/	reu		
		1			•	t Turks	•	
					cheduled	i imbe		
				 	Member	i		ı

Name of the No. of Classifi-Pay Band, Scale Whether Whether bene	efit of Age limit for
Traine of the Tro, of Chassin Tay Barra, Dead	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Post Posts cation and Grade Pay selection added years	
post or service admis	
non under rule 3	0 of
Selection the C.C.S	.
Post (Pension) Ru	
1972	1100,
	7
1 2 3 4 5 6	
	- 1
15. Stenographer 3 Middle Pay Band: 2; Non- Not applicable	Not exceeding
[Grade-II] Level Scale Rs.9,300-Selection	thirty Years.
Manage 34,800; Grade	
ment, Pay: Rs.4,200	
Non-	
Technica	
`	
Educational and other Whether age and educational Period of Prob	bation if any
qualifications required for direct qualifications prescribed for	•
recruits direct recruits will apply in	
!	
case of promotes.	10
8 9	10
Essential: Age: No Two years for I	Direct Recruits only.
(1) Graduate of a Recognized Educational	
University. Qualifications : No	
(2) Should have passed English Type	
Writing Examination @ 40 WPM and	
English short hand examination @	
120 WPM conducted by the Board of	
Technical Education.	
rechnical Education.	
Method of recruitment whether by In case of recruitment by If a DPC ex	rists Circumstances in
Wiellod of recruitment whether by	
direct rectalitation of department / promotion / department	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
transfer and percentage of the transfer grades from which compositi	
vacancies promotions / deputation /	making
to be filed by various methods transfer to be made.	recruitment
11 12 13	14
Promotion, failing which by Direct By promotion of Stenographer 1. Executive	Not applicable
Recruitment. (Grade-III) with Ten years Director -	
regular service in the grade, Chairman	I
of Charling	1
proficiency test in English type	, –
weiting @ 40 WDM and English	
	ide
Officer	!
belonging	g to
Schedule	
Caste/	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ad l
Cahadula	.u i
Schedule	
Schedule Tribe – Member	

						<u> </u>	
Name of the Post	No. of Posts	Classifi-	Pay Band,	Whethe	r Whether	Age limit for	
		cation	Scale and	selection		direct recruits	
		1	Grade Pay	post or			
				non	service	•	
				Selection	admissible		
				Post	under rule 30	.]	
	د د				of the C.C.S.	•	
				· ·	(Pension)	1	
· ·				İ	Rules, 1972		
1	2	3	4	5	6	7	
16.Upper Division	43	Junior		Non-	Not applicable	Not applicable	
Clerk /cashier		Level	Scale Rs.5,200-				
			20,200; Grade				
			Pay: Rs.2,400				
		Technical			· ·.		
Educational and of	her qualifications	raguinad	117h c41		.		
for d	irect recruits	rednited	Whether ag education		Period of Proba	tion if any	
)	acce reer ares						
•		ĺ	qualificati		1		
	•		prescribed for				
			recruits will a				
<u> </u>	8		case of promotes.				
	· ·		9	}	, 1	10	
Not	applicable		Not applicable		Not applicable		
							
Method of recruit	tment whether by	direct	In case of recr	uitment	If a DPC exists	Circumstances	
recruitment or de	eputation / transfe	er and 🏻 📗	by promotic	on /	what is its	in which UPSC	
percentage	of the vacancies	i	deputation / t	ransfer	composition	is to be	
to be filed b	y various methods	3	grades from		<u> </u>	consulted in	
	Ç.		promotion		te a s	making	
		l	deputation / tra			recruitment	
			be made			- voi Mimiloiit	
	11		12		13	14	
By Promotion		F	By promotion o	of Lower 1	Evenitive	Not applicable	
		Î	Division Cle	rk/Hindi		Not applicable	
			ypist with eight	years	Director -		
			egular service		Chairman		
			eniority of LI	OC and	2. Secretary –		
				will be	Member		
		c	ounted from thei	u uate of	One outside	ļ	
		jo	oining in the grad	ie.	Officer		
					belonging to	1	
		[İ	Scheduled		
	•			-	Caste/		
			•		Scheduled		
			·		Tribe -		
				<u>l</u> .	Member		
70 07/12 -111							

879 GI/13-14

						
Name of the Post	No. of Posts	Classifi-	Pay Band,	Whether	Whether benefit	Age limit for
THE OF THE LOSE	110. 01 1 0000	cation	Scale and	selection	of added years of	direct recruits
•			Grade Pay	post or	service	:
					admissible under	-
,				Selection	rule 30 of the	
				Post	C.C.S. (Pension)	
					Rules, 1972	
1	2	3	4	5	6	7
7. Stenographer	4	Junior	Pay Band: 1;	Not		Not exceeding
(Grade-III)		Level	Scale	applicable		thirty Years.
		Managem	Rs.5,200-			
			20,200; Grade			
		Technical	Pay: Rs.2,400			
Educational and o	other qualifications	required	Whether a	age and	Period of Probation	n if any
	direct recruits		educat			
			qualifica			
			prescribed			•
			recruits wil			
			case of pr	omotes.	1.0	
	8		9		10	
Essential:(1) 10+2 o	r its equivalent		Not app	icable	Two y	ears
	d have passed En	glish Type				
Writing	examination @ 30	WPM and				
English	short hand examina	ation @ 80				
	onducted by the	Board of				
	al Education. of a Recognized Un	iversity				
pestrable.Graduate	: Of a Recognized Off	iversity				
Method of recr	uitment whether b	v direct	In case of re	cruitment	If a DPC exists	Circumstanc
	deputation / trans		by prom		what is its	s in which
	age of the vacancie		deputation		composition	UPSC is to b
	by various metho		grades fro			consulted in
			promot	ions /		making
			deputation /	transfer to		recruitment
			be m			
	11		1:	2	13	14
By Direct Recruitme	ent		Not Applicable	2	(for Confirmation	Not applicabl
					only)	
					1.Executive	1
					Director -	
					Chairman	
					2. Secretary -	
					Member	
					3. One outside	-
					Officer	
	•				belonging to	-
					Scheduled	1
					Caste/	
					Scheduled	
					Tribe -	
			,		Member	

Name of the Post	No. of Posts	Classifi-	Pay Band,	Whatha	117h -41 1	
		cation	Scale and	selection	Whether bene	
			Grade Pay	1	J V	s direct recrui
			Grade Pay	post or		
				non	admissible	
			ļ	Post	under rule 30	of
	-			Post	the C.C.S.	
	!				(Pension) Rule	S,
1	2	3	4 .	5	1972	
8. Lower				3 .	6	7
8. Lower Division		Junior Level	Pay Band:1;	Non-	Not applicable	Not exceeding
Clerk	· .	Management,	Scale Rs.5,200-	Selection	approanc	thirty Years.
Ottie	}	Non-Technical	20,200; Grade			chirty reals.
]		Pay: Rs.1,900			-
ducational and ot	her malifian				<u> </u>	
for di	irect recruits	nons required		e and	Period of Probat	ion if any
101 (4)	neet lectuits		education	nai		J
			qualificati	ons		
			prescribed for	direct		
			recruits will a	pply in		
	-		case of prom			
	8		9			10
sential:			Age- No			
10+2 or its equ	ivalent.		Ξ.	-	Two	years
Pass in English	h Type Writin	g Lower Grade	Educational qual	ification		
Examination @	4 JU WENECON	ducted by the	10th D	1		
D1 CE 1		ducted by me	TU" Passe	a i		
Examination @ Board of Techn	ical Education	·	10th Passe	a		
board of rechn	ical Education	•	10" Passe	a		
Board of Techn	ical Education of a Recognized	University.	10 Passe	a		
sirable: Graduate of Method of recruits	of a Recognized	University.			W - DDG	
sirable: Graduate of Method of recruits recruitment or de	of a Recognized ment whether putation / tra	University.	In case of recru	itment	If a DPC exists	
sirable: Graduate of Method of recruitment or de	of a Recognized ment whether putation / tra	University.	In case of recru	itment	what is its	in which UPSC
sirable: Graduate of Method of recruitment or depercentage	of a Recognized ment whether putation / tra of the vacant	University. The by direct ansfer and cies	In case of recru by promotion deputation / tr	itment		
sirable: Graduate of Method of recruitment or depercentage	of a Recognized ment whether putation / tra	University. The by direct ansfer and cies	In case of recru by promotion deputation / tr grades from w	itment n / ansfer	what is its	in which UPSC
sirable: Graduate of Method of recruitment or depercentage	of a Recognized ment whether putation / tra of the vacant	University. The by direct ansfer and cies hods	In case of recru by promotion deputation / tr grades from w promotions	itment n / ansfer hich /	what is its	in which UPSC is to be consulted in making
sirable: Graduate of Method of recruitment or depercentage	of a Recognized ment whether putation / tra of the vacant	University. The by direct ansfer and cies hods	In case of recru by promotion deputation / tra grades from w promotions deputation / trai	itment n / ansfer hich /	what is its	in which UPSC is to be consulted in
Method of recruitment or depercentage	of a Recognized ment whether putation / tra of the vacancy various met	University. The by direct ansfer and cies hods	In case of recru by promotion deputation / tra grades from w promotions deputation / trai be made.	itment n / ansfer hich /	what is its composition	in which UPSC is to be consulted in making
Method of recruits recruitment or depercentage to be filed by	of a Recognized ment whether putation / tra of the vacancy various met	University. The by direct ansfer and cies hods	In case of recru by promotion deputation / tra grades from w promotions deputation / trai be made. 12	itment n / ansfer hich / nsfer to	what is its composition	in which UPSC is to be consulted in making
sirable: Graduate of Method of recruitment or depercentage	of a Recognized ment whether putation / tra of the vacance various meti	University. The by direct ansfer and cies hods	In case of recru by promotion deputation / tra grades from w promotions deputation / trai be made. 12 Fromotion:	itment n / ansfer hich / nsfer to	what is its composition 13 Executive	in which UPSC is to be consulted in making recruitment
Method of recruit recruitment or de percentage to be filed by	of a Recognized ment whether putation / tra of the vacance various meti	by direct ansfer and cies hods	In case of recru by promotion deputation / tra grades from w promotions deputation / tran be made. 12 Tomotion: mongst educat	itment n / ansfer hich / nsfer to	what is its composition	in which UPSC is to be consulted in making recruitment
Method of recruit recruitment or de percentage to be filed by	of a Recognized ment whether putation / tra of the vacance various meti	by direct ansfer and cies hods	In case of recru by promotion deputation / tra grades from w promotions deputation / tran be made. 12 Promotion: mongst educate and technically on	itment n / ansfer chich / nsfer to From 1. ionally	what is its composition 13 Executive Director -	in which UPSC is to be consulted in making recruitment
Method of recruit recruitment or de percentage to be filed by	of a Recognized ment whether putation / tra of the vacance various meti	t University. The by direct ansfer and cies hods motion page 1	In case of recru by promotion deputation / tra grades from w promotions deputation / trai be made. 12 romotion: mongst educate nd technically quality.	itment n / ansfer chich / nsfer to From 1. ionally lalified STAFF	what is its composition 13 Executive Director – Chairman	in which UPSC is to be consulted in making recruitment
Method of recruit recruitment or de percentage to be filed by	of a Recognized ment whether putation / tra of the vacance various meti	t University. The by direct ansfer and cies hods The bottom of the bot	In case of recru by promotion deputation / tra grades from w promotions deputation / trai be made. 12 romotion: mongst educate nd technically quality. IULTI-TASKING ith ten years in	itment n / ansfer chich / nsfer to From 1. ionally lalified STAFF	what is its composition 13 Executive Director – Chairman Secretary –	in which UPSC is to be consulted in making recruitment
Method of recruit recruitment or depercentage to be filed by	of a Recognized ment whether putation / tra of the vacance various meti	t University. The by direct ansfer and cies hods The by direct ansfer and cies hods	In case of recru by promotion deputation / tra grades from w promotions deputation / trai be made. 12 romotion: mongst educate nd technically quality fulti-tasking ith ten years recruice in the Post.	itment n / ansfer chich / nsfer to From 1. ionally lalified STAFF regular	what is its composition 13 Executive Director – Chairman Secretary – Member	in which UPSC is to be consulted in making recruitment
Method of recruit recruitment or de percentage to be filed by	of a Recognized ment whether putation / tra of the vacance various meti	t University. The by direct consider and cies chods Smotion A a a b a consider and cies consider an	In case of recru by promotion deputation / tra grades from w promotions deputation / trai be made. 12 Promotion: mongst educate nd technically qualified candi	itment n / ansfer hich / nsfer to From 1. ionally lalified STAFF regular dates 3.	tation what is its composition 13 Executive Director – Chairman Secretary – Member One outside	in which UPSC is to be consulted in making recruitment
Method of recruit recruitment or depercentage to be filed by	of a Recognized ment whether putation / tra of the vacance various meti	t University. The by direct ansfer and cies hods The by direct ansfer and cies and	In case of recru by promotion deputation / tra grades from w promotions deputation / trai be made. 12 Promotion: mongst educate nd technically qualified candi re not available, the	itment n / ansfer hich / nsfer to From 1. ionally lalified STAFF regular dates a	13 Executive Director - Chairman Secretary - Member One outside Officer	in which UPSC is to be consulted in making recruitment
Method of recruit recruitment or depercentage to be filed by	of a Recognized ment whether putation / tra of the vacance various meti	by direct ansfer and cies hods	In case of recru by promotion deputation / tra grades from w promotions deputation / trai be made. 12 Promotion: mongst educate mond technically qualified candi re not available, the acancies should be	itment n / ansfer chich / nsfer to From 1. ionally lalified STAFF legular dates ace filled	13 Executive Director - Chairman Secretary - Member One outside Officer belonging to	in which UPSC is to be consulted in making recruitment
Method of recruits recruitment or depercentage to be filed by	of a Recognized ment whether putation / tra of the vacance various meti	by direct ansfer and cies hods	In case of recru by promotion deputation / tra grades from w promotions deputation / trai be made. 12 romotion: mongst educat nd technically qu fULTI-TASKING ith ten years r ervice in the Post. If qualified candi re not available, the acancies should be p by Direct recruit	itment n / ansfer chich / nsfer to From 1. ionally lalified STAFF legular dates ale e filled ment	what is its composition 13 Executive Director – Chairman Secretary – Member One outside Officer belonging to Scheduled	in which UPSC is to be consulted in making recruitment
Method of recruits recruitment or depercentage to be filed by	of a Recognized ment whether putation / tra of the vacance various meti	by direct cansfer and cies chods	In case of recru by promotion deputation / tra grades from w promotions deputation / trai be made. 12 romotion: mongst educate nd technically qualified candi re not available, the acancies should be p by Direct recruit Persons appoint	itment n / ansfer chich / nsfer to From 1. ionally lalified STAFF regular dates e filled ment ed as	13 Executive Director - Chairman Secretary - Member One outside Officer belonging to Scheduled Caste/	in which UPSC is to be consulted in making recruitment
Method of recruits recruitment or depercentage to be filed by	of a Recognized ment whether putation / tra of the vacance various meti	by direct consider and cies chods	In case of recru by promotion deputation / tra grades from w promotions deputation / trai be made. 12 Promotion: mongst educate and technically qualified candi re not available, the acancies should be p by Direct recruit Persons appoint OCs by promotion	itment n / ansfer chich / nsfer to From 1. ionally lalified STAFF regular dates a filled ment ed as a from	13 Executive Director - Chairman Secretary - Member One outside Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled	in which UPSC is to be consulted in making recruitment
Method of recruits recruitment or depercentage to be filed by	of a Recognized ment whether putation / tra of the vacance various meti	by direct cansfer and cies chods	In case of recru by promotion deputation / tra grades from w promotions deputation / trai be made. 12 romotion: mongst educate and technically qualified candi re not available, the acancies should be p by Direct recruit Persons appoint OCs by promotion ulti Tasking Staff	itment n / ansfer chich / nsfer to From 1. ionally lalified STAFF regular dates dates e filled ment ed as from ffMTS)	what is its composition 13 Executive Director - Chairman Secretary - Member One outside Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe -	in which UPSC is to be consulted in making recruitment
Method of recruit recruitment or depercentage to be filed by	of a Recognized ment whether putation / tra of the vacance various meti	by direct cansfer and cies chods	In case of recru by promotion deputation / tra grades from w promotions deputation / trai be made. 12 Tomotion: mongst educate and technically qualified candi re not available, the acancies should be p by Direct recruit Persons appoint OCs by promotion ulti Tasking Staff ay be exempted	itment n / ansfer chich / nsfer to From 1. ionally salified STAFF regular dates dates filled ment ed as from f(MTS) from	13 Executive Director - Chairman Secretary - Member One outside Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled	in which UPSC is to be consulted in making recruitment
Method of recruits recruitment or depercentage to be filed by	of a Recognized ment whether putation / tra of the vacance various meti	by direct cansfer and cies chods comotion protect and cies chods comotion como	In case of recru by promotion deputation / tra grades from w promotions deputation / trai be made. 12 Tomotion: mongst educate and technically qualified candi re not available, the acancies should be p by Direct recruit Persons appoint OCs by promotion ulti Tasking Staff ay be exempted pewriting test, if	itment n / ansfer chich / nsfer to From 1. ionally lalified STAFF regular dates dates e filled ment ed as from f(MTS) from they	what is its composition 13 Executive Director - Chairman Secretary - Member One outside Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe -	in which UPSC is to be consulted in making recruitment
Method of recruit recruitment or depercentage to be filed by	of a Recognized ment whether putation / tra of the vacance various meti	by direct cansfer and cies chods comotion protect and cies chods comotion como	In case of recruit by promotion deputation / transport of transport of transport of transport of transport of transport of transport of transport of the transport of transpo	itment n / ansfer chich / nsfer to From 1. ionally lalified STAFF regular dates dates e filled ment ed as n from f(MTS) from they e age	what is its composition 13 Executive Director - Chairman Secretary - Member One outside Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe -	is to be consulted in making recruitment
Method of recruit recruitment or de percentage to be filed by	of a Recognized ment whether putation / tra of the vacance various meti	t University. T by direct ansfer and cies hods motion motion p	In case of recru by promotion deputation / tra grades from w promotions deputation / trai be made. 12 Tomotion: mongst educate and technically qualified candi re not available, the acancies should be p by Direct recruit Persons appoint OCs by promotion ulti Tasking Staff ay be exempted pewriting test, if	itment n / ansfer chich / nsfer to From 1. ionally lalified STAFF regular dates dates filled ment ed as from f(MTS) from they e age late of	what is its composition 13 Executive Director - Chairman Secretary - Member One outside Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe -	in which UPSC is to be consulted in making recruitment

	·····					
Name of the Post	No. of Posts	Classifi cation	Pay Band, Scale and Grade Pay	selection post or non	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
19. Field Assistant	158	Junior Level Manage ment, Non- Technic al	Pay Band:1; Scale Rs.5,200- 20,200; Grade Pay: Rs.1,900	Non- Selection		Not exceeding thirty Years.
	ther qualifications i lirect recruits	required	Whether as education qualificate prescribed for recruits will case of pro	onal tions or direct apply in	Period of Probati	on if any
:	. 8		9		10	
grading.	uivalent. tobacco cultivation & of a recognized Unive		Age: No Education qu 10 th or equivale	alification nt	Two years for d	lirect recruits.
recruitment or o	itment whether by leputation / transfe ge of the vacancies by various methods	er and	by promotion / volume deputation / transfer color grades from which promotions / deputation / transfer to		If a DPC exists what is its composition	Circumstance s in which UPSC is to be consulted in making recruitment
;	11		be made 12		13	14
By Direct Rether atio of 3:	ecruitment and pron	notion in	amongst edu qualified TASKING STAF years regular the post. If, candidates	ucationally MULTI- F with ten service in qualified are not vacancy ed up by	Chairman 2. Secretary – Member 3. One outside Officer belonging to	Not applicable

Name of the Post	No. of Posts	Classi	fi Pay Band,	Whethe	r Whether	
		cation		selection		Age limit fo
		}	Grade Pay	post or		000 TOOL WIL
	1	1		non	of service	8
]			Selection		
		1		Post	under rule 3	
		İ	1		of the C.C.S	
	-		j		(Pension)	*
1					Rules, 1972	2
20. Driver	2	3	4	5	6	7
(Ordinary	10	Junior	Pay Band:1;	Selection	Not applicable	Not
Grade)		Level	Scale Rs.5,200			Exceeding thirt
·			20,200; Grade Pay: Rs.1,900			Years.
		Non-	ay. No.1,900			
ļ		Technic			1	İ
]		al	}		ĺ	ĺ
Educational and of	hon qualification					
Educational and ot	ner quanneations r rect recruits	equired	Whether age	and	Period of Prol	oation if any
101 41	rect rectuits		educational qual	ifications		,
			prescribed for	direct		
		ļ	recruits will appl	y in case		
	8		of promote	es.		
Essential:			9		10	
1. 10th or equiv	valent.	lr.	Age : No Educational		Two	years
2. Should posse	ess Light Motor Vehic		Suucational Qualification: No			
ariving lices	nse		Zuamication. No			
3. At least two y	ears experience in D	riving		İ		
Light Motor \	/ehicle			ь.		
recruitment on de-	ment whether by di		In case of recruit	ment by	If a DPC	Circumstances
nercentors	outation / transfer	and	promotion / depu	tation /		in which UPSC
to be filed by	of the vacancies	ļ	transfer grades	from	its	is to be
to be inten by	various methods		which promotic	ons /	composition	consulted in
			deputation / trai			making
	11		be made.			recruitment
V Promotion and direct			12		13	14
y Promotion and direct of 1:1. If suitable dep	or recruitment in the	ratio B	y Promotion based	on the 1	. Executive	Not applicable
ot available, the posts	S falling in the prop	es are re	sult of a test in	driving	Director -	11
uota will be filled up by	direct recruitment	LOUDII IGE	signed to a	djudge	Chairman	į
- •		re	nitability for the pos ference to the star	st with 2.	Secretary -	
		to	Competence Cons	idered	Member	
		es	sential to drivers o	of staff 3.	One	
		ca	rs etc., from an	nongst	outside	
			gular MULTI-TAS	SKING	Officer	
		ST	AFF.	}	belonging	1
		1			to	
				1	Scheduled	j
					Caste/	ļ
					Scheduled	j
				!	Tribe -	
,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-		Member	

Name of the Post	No. of Posts	Classifi	Pay Band, Scale and	Whether selection	Whether benefit of	Age limit for direct recruits
•		cation	Grade Pay	post or	added years	
			Grade ray	non	of service	
1				Selection	admissible	
		!		1	under rule 30	İ
		ļ			of the C.C.S.	
					(Pension)	
					Rules, 1972	
1	2	3	4	5	6	7
21. Gestetner	1	Junior	Pay Band:1;	Non-	Not applicable	Not applicable
Operator	_	Level	Scale Rs.5,200-			
		Manage	20,200; Grade			
		ment,	Pay: Rs.1,900			
		Non- Technic				
		al				
	}					
Educational and o	other qualifications	required	Whether ag	ge and	Period of Prob	ation if any
for o	direct recruits	•	educational qua			
			prescribed for			
			recruits will ap	• -		
			of promo	otes.		10
	8		9			10
N	ot applicable		Not applie	cable	Not ap	oplicable
Mathad of reom	uitment whether by	direct	In case of recr	uitment by	If a DPC	Circumstances
Method of feet	deputation / transf	er and	promotion / de			in which UPSC
nercents	age of the vacancies	.01 0.11	transfer gra	des from	its	is to be
	l by various method		which prom		composition	consulted in
to be mod			deputation /	transfer to		making
			be ma	<u>de</u>		recruitment
	11		12		13	14
By Promotion			Promotion:	MULTI	1	Not applicable
			TASKING STA			
			'Seven' years re	gular servici	_	1
			in the post with in operating th	ie Gestetne		7
			machine.		10111001	
				•	3. One outside	
					Officer	
					belonging	
	•				to	'
					Schedule	d
					Caste/	
					Schedule	d
					Tribe –	
j					Member	<u> </u>

Name of the Post	No. of Posts	Classifi cation	Pay Band, Scale and Grade Pay	Whether selection post or non Selection nost	benefit of added years service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	0
22. MULTI-	140	Junior	<u> </u>	5	6	7
Tasking Staff		Level Managem ent, Non- Technical	20,200; Grade Pay: Rs.1,800	Not applicable	Not applicable	Not exceeding 30 years
Educational	and other qualification of the direct recruited in the	ations s	Whether age a educational qualifi prescribed for direct will apply in car promotes.	ications t recruits	Period of Proba	ation if any
	8		9			10
10th or equivalent			Not applicable	e		years
recruitment or percenta	nitment whether by deputation / trans ge of the vacancies by various method	fer and	In case of recruitm promotion / deput transfer grades from promotions / deput transfer to be ma	ation / n which ation /	If a DPC exists what is its composition	in which UPSC is to be consulted in making
	11		12		13	recruitment
By Direct Recruitm	ent	N	Vot applicable		1. Executive Director – Chairman 2. Secretary – Member 3. One outside Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe – Member	Not applicable

Name of the Post	No. of Posts	Classifi - cation	Pay Band, Scale and Grade Pay	Whether selection post or	Whether benefit of added years of service admissible	Age limit for direct recruits	
			-	non Selection Post	under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972		
1	2	3	4	5	6	7	
23. Senior Field Assistant	45	Junior Level Manage ment, Non- Technic al	Pay Band: 1; Scale Rs.5,200- 20,200; Grade Pay: Rs.2,400		Not applicable	Not applicable	
Educational and o	ther qualifications lirect recruits	required	Whether a education qualificate prescribed for the recruits will case of pro-	onal tions or direct apply in	Period of Probatio	n if any ·	
	8		9		10		
No	ot applicable		Not appli	cable	Not applicable		
Method of recru recruitment or of percenta	nitment whether by deputation / transf ge of the vacancies by various method	er and	In case of red by promo deputation / grades from promotion deputation / be ma	cruitment tion / transfer n which ons / transfer to	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSO is to be consulted in making recruitment	
	11		12		13	14	
By Promotion.			Promotion: Fro the Field Assis 'eight' years re service in the r cadre.	tants with gular	1. Executive Director – Chairman 2. Secretary – Member 3. One outside Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe – Member	Not applicable	

Name of the Post	No. of Posts	Classif		Whether	Whether bene	it Age limit fo
İ		cation	Scale and	selection	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	of direct recruit
			Grade Pay	post or	service admissi	or direct recruit
ĺ				non	under rule 30	
				Selection	the C.C.S.	
		į		Post	(Pension) Rules	3,
1	2	3	 		1972	
24. Hindi Typist	2	Junior	Pay Band:1;	5	6	7
	_	Levei	Scale Rs.5,200-	Not	Not applicable	Not exceeding
ĺ		Manage	20,200;Grade	applicabl e		thirty Years.
		ment,	Pay: Rs.1,900			
		Non-	ļ ·			
		Technic al				
		ian i		ļ		
Educational and oth	ner qualifications r	required	Whether ag	e and	Dowled - CD 1 1	
for dir	ect recruits		education		Period of Probati	on it any
	+		qualificati		•	
			prescribed for			
			recruits will a	pply in		•
			case of prom	otes.		
	8		9		10)
Seential:	TTU II m		Age: No		Two y	ears
.0+2 or its equivalent, vords per minute is ess	, riindi Typing Spec sential	ed @ 25 I	Educational Qual	ification:	J	Jan 3
esirable:			Yes			
1. Pass in English Ty	pe writing @ 30 Wo	rds Per	•			
Minute conducted	by the Board of Te	chnical		ļ		
Education.				[
2. Graduate of a reco	gnized university.					
Method of recruitn recruitment or dep	lent whether by di	rect	In case of recru		If a DPC exists	Circumstances
percentage	of the vacancies		by promotio		what is its	in which UPSC
to be filed by	various methods		deputation / tr	ansfer	composition	is to be
· wy	roug mourous		grades from w	nich		consulted in
		A	promotions eputation / trai	nofer to		making
		٦	be made.	reici (0		recruitment
	11		12		13	14
Promotion failing whi	ch by Direct Recruit	ment T	hrough among re	mules 1		
_			TS possessing th	- 1	Executive	Not applicable
	*		alifications pres	., .	Director - Chairman	!
		fo	r direct recruits		Chairman Secretary -]
		co	l. No.8.		Member	
		}		1	One outside	
		}		,	Officer	1
				I	belonging to	
					Scheduled	
					Caste/	
					Scheduled	
				1	ribe – Member	ĺ

Name of the Post	No. of Posts	Classifi- cation	Pay Band, Scale and	selection	Whether benefit of added years of	Age limit for direct recruits	
•			Grade Pay	post or	service	·	
				non	admissible under		
				Selectio	rule 30 of the		
1				n Post	C.C.S. (Pension)		
					Rules, 1972		
1	2	3	4	5	6	7	
25. Systems Analyst	1	Management	Pay Band: 3; Scale Rs.15,600- 39,100; Grade Pay: Rs.5,400	Selection	Not applicable	Not exceeding thirty five Years.	
Educational and ot for di	her qualificatio irect recruits	ns required	Whether age educational qual prescribed for recruits will app of promot	lifications direct ly in case	Period of Probation	n if any	
	8		9		10		
Mathematics (Research / Ph Statistics) Cor Degree in Eng of a recognized (ii) Three years processing wo	Degree in Statistics)/ lysics or Economonmerce (with Statistics)/ OR dineering / Comp d University or ease experience of elork, out of which the should be in a	operations ics (with tistics) uter Science quivalent. ectronic data at least one	Age: No Qualification: Yes	3	Two Y	ears	
	on an electronic			, <u></u>			

Desirable:

- Master's Degree in Engineering or Doctorate Degree in any of the subject mentioned in Essential qualification.
- (ii)
- Formal training in Computer Programming / System Design / Analysis. Knowledge of one or more programming languages (to be indicated at the time of Recruitment) (iii)

Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made.	what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
11	12	13	14
By Promotion failing which by direct Recruitment.	From the Post of Programmer with two years regular service.	1. Chairman – Chairman 2. Executive Director – Member 3. One outside Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe – Member	Not applicable

Name of the Post	No. of Posts	Classifi-	Pay Band,	Whethe	- 1111 - 12		
	}	cation	Scale and		CONTROL DOLL	-0	
			Grade Pay	selection	year		
			Grade Pay	post of	4- 00.1100		
				non	admissible		
		ł	1	Selectio	n under rule 30	of of	
		1	1	Post	the C.C.S.	[
	1	į		}	(Pension) Rule	es,	
1	2	3	4	5	1972		
26 Programmer	1		<u> </u>		6	7	
Brattititit		Middle Level	Pay Band: 2;	Not	Not applicable	Not exceeding	
j	,	management, Non-	Scale Rs.9,300-	applicabl	e	thirty Years.	
			34,800; Grade]	Total S.	
			Pay: Rs.4,800		}		
Educational and ot	her qualification	ns required	Whether ag	e ond	D 1 0 0 1		
for di	irect recruits		educational qua	lification	Period of Proba	ation if any	
		}	prescribed for	-uicauons r direct	`		
			recruits will app	ly in coco			
			of promot	es mi case		a.	
	8		<u> </u>		 		
ssential:					10		
laster Degree in	Mathematics	/Statistics	Not applica	.ble	Two	years	
					k		
Operations Research	/ Commerce o	r Formania					
Operations Research	Inloma in Comp	r Economics					
un rost Graduate D	Inloma in Comp	r Economics					
with at least three y	iploma in Comp ears relevant exp	r Economics outer Science perience.					
with at least three y	iploma in Comp ears relevant exp	r Economics outer Science perience.	In case of recruit	ment by	If a DPC exists	Circumstanc	
with at least three y Method of recruits recruitment or de	aploma in Compears relevant expenses whether I ment whether I putation / trans	r Economics outer Science perience.	promotion / depu	itation /	If a DPC exists what is its		
with at least three y Method of recruit recruitment or de percentage	iploma in Compears relevant expenses ment whether iputation / tran of the vacancie	r Economics outer Science perience. by direct asfer and	promotion / depu transfer grades	atation /		s in which	
with at least three y Method of recruit recruitment or de percentage	aploma in Compears relevant expenses whether I ment whether I putation / trans	r Economics outer Science perience. by direct sfer and es ods	promotion / depu transfer grades which promoti	atation / s from ons /	what is its	s in which UPSC is to be	
with at least three y Method of recruit recruitment or de percentage	iploma in Compears relevant expenses ment whether iputation / tran of the vacancie	r Economics outer Science perience. by direct sfer and es ods	promotion / depu transfer grades which promoti deputation / tra	atation / s from ons /	what is its	s in which UPSC is to be consulted in	
with at least three y Method of recruit recruitment or de percentage	ment whether in the putation / transfer of the vacancies various method	r Economics outer Science perience. by direct sfer and es ods	promotion / deputransfer grades which promotideputation / transber made.	atation / s from ons /	what is its	s in which UPSC is to be consulted in making	
with at least three y Method of recruit recruitment or de percentage to be filed by	ment whether I putation / tran of the vacancie various metho	r Economics outer Science perience. by direct sfer and es ods	promotion / deputransfer grades which promotideputation / trabe made. 12	atation / s from ons / nsfer to	what is its composition	s in which UPSC is to be consulted in	
with at least three y Method of recruit recruitment or de percentage to be filed by	ment whether in the putation / transfer of the vacancies various method	r Economics outer Science perience. by direct sfer and es ods	promotion / deputransfer grades which promotideputation / transber made.	atation / s from ons / nsfer to	what is its composition 13 For confirmation	s in which UPSC is to be consulted in making recruitment	
with at least three y Method of recruit recruitment or de percentage to be filed by	ment whether I putation / tran of the vacancie various metho	r Economics outer Science perience. by direct sfer and es ods	promotion / deputransfer grades which promotideputation / trabe made. 12	atation / s from ons / nsfer to	what is its composition 13 For confirmation only)	s in which UPSC is to be consulted in making recruitment	
with at least three y Method of recruit recruitment or de percentage to be filed by	ment whether I putation / tran of the vacancie various metho	r Economics outer Science perience. by direct sfer and es ods	promotion / deputransfer grades which promotideputation / trabe made. 12	atation / s from ons / nsfer to	what is its composition 13 For confirmation only) 1. Chairman –	s in which UPSC is to be consulted in making recruitment	
with at least three y Method of recruits recruitment or de percentage to be filed by	ment whether I putation / tran of the vacancie various metho	r Economics puter Science perience. by direct asfer and es ods	promotion / deputransfer grades which promotideputation / trabe made. 12	atation / s from ons / nsfer to	what is its composition 13 For confirmation only) 1. Chairman – Chairman	s in which UPSC is to be consulted in making recruitment	
with at least three y Method of recruit recruitment or de percentage to be filed by	ment whether I putation / tran of the vacancie various metho	r Economics outer Science perience. by direct sfer and es ods	promotion / deputransfer grades which promotideputation / trabe made. 12	atation / s from ons / nsfer to	what is its composition 13 For confirmation only) 1. Chairman – Chairman 2. Executive	s in which UPSC is to be consulted in making recruitment	
with at least three y Method of recruit recruitment or de percentage to be filed by	ment whether I putation / tran of the vacancie various metho	r Economics puter Science perience. by direct asfer and es ods	promotion / deputransfer grades which promotideputation / trabe made. 12	atation / s from ons / nsfer to	what is its composition 13 For confirmation only) 1. Chairman – Chairman 2. Executive Director –	s in which UPSC is to be consulted in making recruitment	
with at least three y Method of recruit recruitment or de percentage to be filed by	ment whether I putation / tran of the vacancie various metho	r Economics puter Science perience. by direct asfer and es ods	promotion / deputransfer grades which promotideputation / trabe made. 12	atation / s from ons / nsfer to	what is its composition 13 For confirmation only) 1. Chairman – Chairman 2. Executive Director – Member	s in which UPSC is to be consulted in making recruitment	
with at least three y Method of recruit recruitment or de percentage to be filed by	ment whether I putation / tran of the vacancie various metho	r Economics puter Science perience. by direct asfer and es ods	promotion / deputransfer grades which promotideputation / trabe made. 12	atation / s from ons / nsfer to	what is its composition 13 For confirmation only) 1. Chairman – Chairman 2. Executive Director – Member 3. Secretary –	s in which UPSC is to be consulted in making recruitment	
with at least three y Method of recruit recruitment or de percentage to be filed by	ment whether I putation / tran of the vacancie various metho	r Economics puter Science perience. by direct asfer and es ods	promotion / deputransfer grades which promotideputation / trabe made. 12	atation / s from ons / nsfer to	what is its composition 13 For confirmation only) 1. Chairman – Chairman 2. Executive Director – Member 3. Secretary – Member	s in which UPSC is to be consulted in making recruitment	
with at least three y Method of recruit recruitment or de percentage to be filed by	ment whether I putation / tran of the vacancie various metho	r Economics puter Science perience. by direct asfer and es ods	promotion / deputransfer grades which promotideputation / trabe made. 12	atation / s from ons / nsfer to	what is its composition 13 For confirmation only) 1. Chairman – Chairman 2. Executive Director – Member 3. Secretary – Member 4. One outside	s in which UPSC is to be consulted in making recruitment	
with at least three y Method of recruit recruitment or de percentage to be filed by	ment whether I putation / tran of the vacancie various metho	r Economics puter Science perience. by direct asfer and es ods	promotion / deputransfer grades which promotideputation / trabe made. 12	atation / s from ons / nsfer to	what is its composition 13 For confirmation only) 1. Chairman – Chairman 2. Executive Director – Member 3. Secretary – Member 4. One outside Officer	s in which UPSC is to be consulted in making recruitment	
with at least three y Method of recruit recruitment or de percentage to be filed by	ment whether I putation / tran of the vacancie various metho	r Economics puter Science perience. by direct asfer and es ods	promotion / deputransfer grades which promotideputation / trabe made. 12	atation / s from ons / nsfer to	what is its composition 13 For confirmation only) 1. Chairman – Chairman 2. Executive Director – Member 3. Secretary – Member 4. One outside Officer belonging to	s in which UPSC is to be consulted in making recruitment	
with at least three y Method of recruit recruitment or de percentage to be filed by	ment whether I putation / tran of the vacancie various metho	r Economics outer Science perience. by direct asfer and es ods	promotion / deputransfer grades which promotideputation / trabe made. 12	atation / s from ons / nsfer to	what is its composition 13 For confirmation only) 1. Chairman – Chairman 2. Executive Director – Member 3. Secretary – Member 4. One outside Officer belonging to Scheduled	s in which UPSC is to be consulted in making recruitment	
with at least three y Method of recruit recruitment or de percentage to be filed by	ment whether I putation / tran of the vacancie various metho	r Economics outer Science perience. by direct asfer and es ods	promotion / deputransfer grades which promotideputation / trabe made. 12	atation / s from ons / nsfer to	what is its composition 13 For confirmation only) 1. Chairman – Chairman 2. Executive Director – Member 3. Secretary – Member 4. One outside Officer belonging to Scheduled Caste/	s in which UPSC is to be consulted in making recruitment	
with at least three y Method of recruit recruitment or de percentage to be filed by	ment whether I putation / tran of the vacancie various metho	r Economics outer Science perience. by direct asfer and es ods	promotion / deputransfer grades which promotideputation / trabe made. 12	atation / s from ons / nsfer to	what is its composition 13 For confirmation only) 1. Chairman – Chairman 2. Executive Director – Member 3. Secretary – Member 4. One outside Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled	s in which UPSC is to be consulted in making recruitment	
with at least three y Method of recruit recruitment or de percentage to be filed by	ment whether I putation / tran of the vacancie various metho	r Economics outer Science perience. by direct asfer and es ods	promotion / deputransfer grades which promotideputation / trabe made. 12	atation / s from ons / nsfer to	what is its composition 13 For confirmation only) 1. Chairman – Chairman 2. Executive Director – Member 3. Secretary – Member 4. One outside Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe –	s in which UPSC is to be consulted in making recruitment	
with at least three y Method of recruit recruitment or de percentage to be filed by	ment whether I putation / tran of the vacancie various metho	r Economics outer Science perience. by direct asfer and es ods	promotion / deputransfer grades which promotideputation / trabe made. 12	atation / s from ons / nsfer to	what is its composition 13 For confirmation only) 1. Chairman – Chairman 2. Executive Director – Member 3. Secretary – Member 4. One outside Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled	s in which UPSC is to be consulted in making recruitment	

Name of the Post	No. of Posts	Classifi- cation	Pay Band, Scale and	Whether selection	01 0100 010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Age limit for direct recruits
			Grade Pay	post or non Selection Post	of service admissible under rule 30 of the C.C.S.	
,					(Pension) Rules, 1972	
1	2	3	4	5	6	7
7. Director (Auctions)	1	Management ,	Pay Band: 3; Scale Rs.15,600- 39,100; Grade Pay: Rs.7,600	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Educational and of for o	other qualificat direct recruits	ions required	Whether a educational qu prescribed for recruits will ap of promo	alifications or direct oply in case	Period of Probati	
	8		9		10	
	ot applicable		Not appli		Not app	licable Circumstance
recruitment or percenta	uitment whethe deputation / to age of the vacar I by various me	ransfer and ncies	In case of recr promotion / de transfer gra which prom deputation /	eputation / des from lotions / transfer to	If a DPC exists what is its composition UPSC is to consulted making recruitme	
	11		be ma		13	14
By deputation under The selection woul Staffing Scheme, for Deputy Secretary/ India who are eliging Central Staffing Scontral Staffing Scontral Staffing Scontral Staffing Scontractor level in G	d be made und rom the Officers Director of the ible for appoints heme at the Dep	of the rank o Government o nent under the puty Secretary,	f rank of Deputy f Director of the of India The deputation is 4/	officers of the y Secretary, Governmen period o	e per provisions of Government of India	
for this post. Name of the Post	No. of Pos	ts Classifi- cation	Pay Band, Scale and Grade Pay	Whether selection post or non Selection Post	of added year of service admissible	for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
28. Hindi Officer	1	ent, Nor	Pay Band: 2; Scale Rs.9,300- n 34,800; n-Grade Pay: al Rs.4,600	Selection	Not applicable	Not exceeding thirty five years
Educational and for	other qualifica direct recruits	itions required	educational of prescribed recruits will a	l for direct		oation if any

Essential:	8	9		10
resertisi;		Not Applicable	Two years	
(i) Master's Dec	troe of a			ectite only)
(1) Master a Del	ree of a recognized University or equ	ivalent in Hindi With Engli	sh as a subject a	the degree love
Mastar's Da-		(OR)	and any over the	are desire leve
master's Degre	e of a recognized University or equive	alent in English with Hindi	as a subject of th	o da 1 1
		(OR)	ao a daoject at m	e degree level.
Master's Degree	of a recognized University			
degree level.	e of a recognized University or equiv	alent in any subject with H	lindi and English	a subject at th
		(n =)		
Master's Degree	e of a recognized University or equi- egree level.	valent in any subject with	This at the	_
subject at the d	egree level.	- will outsjeet willi	miliai meaium a	ind English as
Aaster's Degree	of a recominate	(OR)		
ubject at the de	of a recognized University or equi-	valent in any subject with	English medium	and Hindi on
i) Five Years	Experience of terminological			and finial as
ersa, preferably	experience of terminological work in of technical or scientific literature	Hindi and / or translation	work from Englis	h to Hindi or vi
		(OB)		
ive years expe	rience of teaching, research, writing o	of journalism in Hindi	•	
esiradie:				
Knowledge of	Sanskrit and / or Telugu language.			
, maniminarialis	c expenence			
Math - 1 - C	organizing Hindi classes or work sh	ops for noting and drafting.		
	I Lase of Lecturiment by he	omotion / domitation /		to Circumst
recruitment whether by	inalister grades from which pr	romotions / deputation /	what is its	
direct	transfer to b	e made.	composition	
ecruitment or	.		poblao.	UPSC is to
deputation /			[be
transfer and	1			consulted
percentage of				in making
he vacancies				recruitmen
to be filed by				
rious methods	S		İ	
11	12			
Promotion			13	14
ing which by	By Promotion: From amongst Sr. regular service.	Translator with three year	(For confirmatio	n Not
outation/ direct	3		only)	applicable
uitment.	By Deputation: Officers from Cent	tral / State Governments	1. Chairman –	1
	Practicity / Autonomous Bodies	Of the state / Company	Chairman	1
	working analogor	US nosts (b) With these	2. Executive	
	hears betwee HI the scale of Ka d	300-34 800 in DD 0	Director – Member	
	Grade Pay of Rs.4,200/- or equ	livalent and having the	3. Secretary -	
i	qualifications and experience laid do recruits. (Period of deputation sh	all not ordinarily asset	Member	
į	three years)	not ordinarily exceed	4. One outside	1
1			Officer	ĺ
ſ		ļ	belonging to	
			Scheduled	
			Caste/]]
[Scheduled]
ĺ			Tribe -]
•				

Nam	e of the Post	No. of Posts	Classifi- cation	Pay Band, Scale and Grade Pay	selection post or non	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S.	Age limit for direct recruits
					Selection Post	(Pension) Rules, 1972	7
9.	Computer Operator - Grade-B'	2 27	Junior Level Manage ment, Non- Technica	Pay Band: 1; Scale Rs.5,200- 20,200; Grade Pay: Rs.2,800	Selection	пос арричани	Not exceeding Thirty Years
Edu	cational and o for c	ther qualifications lirect recruits	required	Whether a educational qu prescribed for recruits will ap of promo	alifications or direct ply in case	Period of Probation	if any
		8		9		10	
(i) (ii) (iii) Desi (i)	Knowledge of 8000 Key De Computers. rable: Diploma in Cany recognize Experience in Method of recruitment or percenta	computer application ed institute. In Computer operation in Computer operation in Computer operation in Computer by deputation / transage of the vacancie by various metho	n from n. y direct sfer and	In case of recr promotion / d transfer gra which prom deputation / transfer deputation / transfer gra	uitment by eputation / des from notions / ransfer to b e.	what is its composition	Circumst ances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
		11		12	;	13	14
By I	Promotion failin	g which by direct red	cruitment	Promotion: Fro Lower Division Assistants poss required qualifi	Clerks / Fie essing the	(For confirmation Id only) 1. Executive Director – Chairman 2. Secretary – Member 3. One outside Officer belongin to Scheduled Caste/Schedule	

						_
Name of the	No. of Posts	Classifi	- Pay Band, Scale	Whether	337141	
Post	•	cation	and Grade Pay		Whether benefit of	1-04 mm
1	J			post or non		
-	ļ			Selection Post	added year of service	
		1		Selection Fost	admissible	
}		j			under rule	
					30 of the	
1				ĺ	C.C.S.	
					(Pension)	
					Rules, 197	
1	2	3	4	5	6	7
30. Care Taker	1	Middle	Pay Band: 2;	Not	Not	Not applicable
1		Level	Scale Rs.9,300-	applicable	applicable	The applicable
1		Managem	34,800; Grade Pay: Rs.4,200	•		
	i	Technical	ray. RS.4,200			İ
Educational an	d other quali	fications	Whether age	and educational	D. 1 65	<u> </u>
required for	or direct recru	ıits	qualifications n	rescribed for direct	remod of Pr	obation if any
}		į	recruits will	apply in case of		1
			pro	motes.		
	8			9	 	10
					-	10
Not	applicable		Not Applicable		Not a	oplicable
Method of recr	uitment whet	her by	In case of recruitr	nent by promotion /	If a DPC	Circumstance
direct recruitm	ient or deputa	ation /	deputation / tra	ansfer grades from	exists what	
	percentage of	f the	which promotio	ns / deputation /	is its	UPSC is to be
	cancies		transfer i	to be made.	compositio	consulted in
to be filed by	various meth	nods			n	making
<u> </u>	4.1					recruitment
	11 ,			12	13	14
Deputation		I	eputation: Office	ers under the Central	Not	Not applicable
		/	State Govts, Cen	tral or State Public	applicable.	oc applicable
		S	ector Undertaking	gs or Autonomous	-ppoabic.	
			odies holding:		,	
	4	٦) (i) Analogous Po	osts on regular basis		
			(ii) Posts in the	scale of pay of		
		R	s.5,200-20,200 in I	PB-1 with Grade Pay		
		[2 ,	,400 or equivalent	with ten years	1	j
		re	gular service.		1	
		(h	AN Dogganai		1	
		ξυ S1) rossessing expens	ience in care taking of office buildings	1	İ
		in	cluding sanitation	i, fire protection,	ļ	Í
		fu	rniture and furnis	hing : maintenance		1
		of	office equipmen	t and appliances,		
		ar	rangements for	meetings and	1	
		co	nterences; securit	y including watch	}	
		an	u ward stall; mana	gement of Group-D		
			d daily wage staff . sirable: Training i	n Sanitation, Public		
		He		tection or Civil	İ	
				CIVII	1	
)En	gineering.	ľ		Į.
		(P		shall not ordinarily	}	

			D D 1	Whathar	Whether benefit	Age limit for
Name of the	No. of Posts	Classifi-	Pay Band,	Whether selection	of added years of	direct recruits
Post		cation	Scale and		service	un oot 1001 u. 1-
			Grade Pay		admissible under	·
				Selection Post	rule 30 of the	
					C.C.S. (Pension)	
					Rules, 1972	
		 	4	5	6	7
1	2	3		Non-Selection	Not applicable	Not applicable
1. Staff	11		ay Band: 1; Scale Rs.5,200-	Mon-Selection	Not applicable	not apparent
Car		Level S Managem 2				
Driver (Grade-I)	•	ent, Non-C				
(Grade-1)		Technical F				
Educational a	nd other quali	fications	Whether age a	and educational	Period of Probatio	n if any
required	for direct recr	uits	qualifications	prescribed for		
				will apply in case		
			of pro	omotes.		
	8			9	10	
N-	ot applicable		Not a	oplicable	Not appl	ıcable
				24 4	If a DPC exists	Circumstances
Method of re	ecruitment who	ther by		ecruitment by	what is its	in which UPSO
	itment or depu		promotion	deputation /	composition	is to be
	nd percentage	of the		des from which	Composition	consulted in
	vacancies			/ deputation / to be made.		making
to be filed	by various me	thods	transier	to be made.		recruitment
·				12	13	14
	11					Not applicable
By Promotion		·	1. By promotion	of staff car drive	1. Executive	liot applicable
			Grade-II With II	ve years of regulation qualifying in the	Director – Chairman	
			trade test co	onducted by the	Chamillan	
			Board.	•	Member	
			2. Failing (1) at	ove staff car drive	r 2 One outside	
			(Ordinary Gra	de) with thirteen	Officer	
			years of regu	ilar service afte	1 1	
			qualifying in	the trade tes	Scheduled	
			conducted by the	ic Duain.	Caste/	
					Scheduled	
					Tribe –	
					Member	
Name of the	No. of Posts	Classifi-	Pay Band,	Whether	Whether benefit	
Post	140. OI FUSIS	cation	Scale and	selection	of added years o	
rust		Jacon	Grade Pay	post or no	n service	
				Selection Post	admissible unde	r
					rule 30 of the	
					C.C.S. (Pension	
		<u> </u>			Rules, 1972	
1	2	3	4	5	6	7
32. Staff Car	10	Junior	Pay Band: 1;	Non-Selection	Not applicable	Not applicable
Driver		Level	Scale Rs.5,20	0-		
i contract of the contract of	1	Managen				
(Grade-II)						
(Grade-II)			-Grade Pay: 1Rs.2,400			

	Education	-11 -1						
	Educational and other qualifications required for direct recruits			qualificati	qualifications prescribed for direct recruits will apply in case		1 121	
İ				direct recrui			!	
				OI	promotes.			
		Not applicable		Not	applicable	Note	10	
	Method of recruitment whether by direct recruitment or deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods			- 			Not applicable If a DPC exists Circumstance	
				1	In case of recruitment by promotion / deputation /			
				, .	ades from which	what is its composition	in which UPS	
				promotion	promotions / deputation /		is to be consulted in	
	to be me	o by various m	ethods	transfe	r to be made.		making	
_		11					recruitment	
Ву	Promotion			By promotion	12	13	14	
				of regular serving the trade te	By promotion of staff car driver (Ordinary grade) with eight years of regular service, after qualifying in the trade test conducted by the		Not applicable	
				Board.		ne 2. Secretary – Member	1	
						3. One outside		
						Officer		
						belonging to Scheduled		
Na	Name of the No. of Posts Classifi		<u> </u>			}		
110	Post	No. of Posts	Classifi	Pay Band, Scale and	Whether	Whether benefi		
		}	Cauon	Grade Pay	selection post or nor	of added years o	of direct recruits	
				Grade ray	Selection Post	service admissible unde		
					00100110111031	rule 30 of the	r;	
		,			İ	C.C.S. (Pension)	+	
	1	2	3			Rules, 1972		
3.	Special	1	Middle	Pay Band: 2;	Non-Galasti	6	7	
	Grade	-	Level	Scale Rs.9,300-	Non-Selection	Not applicable	Not applicable	
	Driver		Managem	34,800;				
			ent, Non- Technical	Grade Pay:				
			1	RS.4,200]	
Ξdι	acational ar required f	nd other qualif for direct recru	its	qualifications	prescribed for	Period of Probation	n if any	
				of pro	rect recruits will apply in case of promotes.		:	
8					9		10	
	Not applicable			Not app	Not applicable		Not applicable	
Me	Method of recruitment whether by			In case of sa	In cope of security			
dir	direct recruitment or deputation /			promotion /	In case of recruitment by promotion / deputation /		Circumstances	
t	transfer and percentage of the			transfer grades from which		what is its composition	in which UPSC	
	Va	acancies y various meth	j	promotions / deputation / transfer to be made.		composition	is to be consulted in making	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 -				recruitment	

	11.		E OF INDIA : E.			14
	11		12		13	14
Promotion		By	promotion of Staff	-	1. Executive	Not applicable
Driv regu			ver(Grade-I) with s	six years	Director -	
			ular service after	qualifying in	Chairman	
			trade test conduc	ted by the	2. Secretary –	
Boar					Member	
				ĺ	3. One outside	
					Officer	
					belonging to Scheduled	
					Caste/	
					Scheduled Trib	i
					- Member	
				Whether	Whether benefit	Age limit
Name of the	No. of Posts	1	Pay Band, Scale	selection	of added years	for direct
Post		cation	and Grade Pay	post or	of service	recruits
				non Selection	1	
ţ				Post	under rule 30 of	•
					the C.C.S.	:
					(Pension) Rules,	
					1972	
<u>1</u>	2	3	4	5	6	7
34.	1	Middle	Pay Band: 2:	Selection	Not applicable.	Not applicable.
54. Stenographer		Level	Scale Rs.9,300			applicable.
(Grade-I)	İ	Manageme	34,800; Grade			
•			Pay: Rs.4,200			
		Technical				<u> </u>
73 de national	and other qua	lifications	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes.		Period of Probation if any	
Educational	d for direct rec	ruits				
require	d for direct rec					
					10	
	8		9		Not applicable	
Not applicable			Not applicable		If a DPC exists	Circumstan
Method of rec	ruitment wheth	ner by direc	In case of recruitment by		mhat is its	es in which
recruitment o	r deputation / ˈ	transfer an	d promotion / deputation / transfer grades from which promotions / deputation / transfer to be made.		1	UPSC is to
percen	tage of the vaca	ıncies			Collibonidati	be consulte
to be file	ed by various m	ethods				in making
			transier to be made.			recruitmen
	11		1	.2	13	14
	failing which by	denutation	Promotion:		1. Chairman –	Not
By Promotion,	, tailing willcir by	deputation.	i). Stenographer	s (Grade-II) wit	th Chairman	applicable.
			3 years regular service. ii) Failing (i) above Stenographers (Grade-II) and Stenographer (Grade-III) with 10 years combined regular service		2. Executive	
					Director	İ
					in Chamman	
					3. Secretary – Member	
			in the two grade	in the two grades.		.
ļ			Deputation: From amongst official		4. One outside	
					als Officer ate belonging to	
			working in	Central / Sta		•
1			Government /	nd holding por		1
			mnder takings	under takings and holding posts		

carrying the pay scales of Rs.9300-34800 in PB-2 with Grade Pay of Rs.4,200/- with Five years experience in the grade or from analogous post with three years experience. (Period of deputation shall not exceed 3 years).			
	Rs.9300-34800 in PB-2 w Grade Pay of Rs.4,200/- w Five years experience in t grade or from analogous po with three years experience. (Period of deputation shall n	ith ith he st	

ASIT TRIPATHY, Jt. Secy. [ADVT.-III/4/Exty./153/12]

Note:

- (i) The Crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates. (The relaxation given to the candidates residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Thripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul, and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep for receipt of applications shall not taken in account for the purpose of determining age limit.)
- (ii) In respect of posts the appointments for which are to be made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit will be the last date up to which the employment exchanges are asked to submit the names.